



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 28 फरवरी, 2013/9 फाल्गुन, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
38-एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

संख्या 3-1/2013-ई0एल0एन0-386

शिमला, 14 फरवरी, 2013

संख्या 3-1/2013-ई.एल.एन.-भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2013/रा0 दल अनु0-II, दिनांक 18 जनवरी, 2013 तदनुसार 28 पौष, 1934 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2011/रा0 दल अनु0-II, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 में संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
नरेन्द्र चौहान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

संख्या: 56/2013/रा0दल अनु0-॥

तारीख: 18 जनवरी, 2013
28 पौष, 1933 (शक)

अधिसूचना

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2011/रा0द0अनु0-॥, तारीख 28 दिसम्बर, 2011 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 28 दिसम्बर, 2011 की, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना सं0 56/2011/रा0द0अनु0-॥ के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते ;
- (ख) सारणी-II में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य जहाँ ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते ;
- (ग) सारणी-III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के डाक-पते; और
- (घ) सारणी-IV में, मुक्त प्रतीक

जहां तक जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के लिए निर्वाचनों का सम्बन्ध है, यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1965 के नियम 5 और 10 के निबंधनों तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के निबंधनों के अधीन है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर विधान सभा के निर्वाचनों के लिए लागू किया गया है, के अनुसार जारी समझी जाएगी।

सारणी-1
राष्ट्रीय दल

क्रम सं०	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों कोआयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा)	4, गुरुद्वारा टकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001.
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हॉसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हॉसिया और सितारा	ए.के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली-110001.
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
6.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	10, विशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

सारणी-॥

राज्यीय दल

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. तेलंगाना राष्ट्र समिति 2. तेलुगु देशम	कार साइकिल	मकान नं० 8-2-220/110/1/3, रोड नं० 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश । तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन० टी० आर० भवन, रोड नं० 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033, (आन्ध्र प्रदेश) ।
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस 2. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल	पुष्प और तृण मक्का	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल । पो.ऑ. नाहर लागुन-791110, (अरुणाचल प्रदेश) ।

3.	असम	1. ऑल इण्डिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2. असम गण परिषद् 3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट	ताला ओर चाबी हाथी नांगोल	नं0 3, फेन्डस पथ, हातिगांव, गुवाहाटी-781038 (असम)। मुख्य कार्यालय:-गोपीनाथ बोरदोलोई रोड, गुवाहाटी-781001 (असम)। मुख्य कार्यालय कोकराझार, बी.टी.सी. पो0ऑ0-कोकराझार, जिला-कोकराझार,असम पिन-783370
4.	बिहार	1. जनता दल(यूनाइटेड) नई दिल्ली-110001. 2. लोक जन शक्ति पार्टी 3. राष्ट्रीय जनता दल	तीर बंगला लालटेन	7, जन्तर मंतर रोड, 12, जनपथ, नई दिल्ली-110011 13 वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
5.	गोवा	महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर	विकास 'ए' बिल्डिंग, तीसरा तल, फार्मसी कॉलेज के पास, 18वाँ जून रोड, पणजी-403001 (गोवा) ।
6.	हरियाणा	1. हरियाणा जनहित काँग्रेस (बी.एल.) 2. इंडियन नेशनल लोक दल	ट्रैक्टर चश्मा	135, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-110003. 18, जनपथ, नई दिल्ली-110011
7.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल काँग्रेस 2. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी 3. जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	हल साईकिल स्याही की दवात और कलम	1. शेर-ए-कश्मीर भवन रेजिडेंसी रोड, जम्मू, (जम्मू व कश्मीर) । 2. नवाई सुब्ब कम्पलेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) । 17-वी0 पी0 हाउस रफी मार्ग नई दिल्ली - 110001. 2-इम्पोरियम लेन, रेसीडेन्सी रोड, श्रीनगर ।
8.	झारखण्ड	1. आजसु पार्टी 2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	केला तीर-कमान	साकेत बिहार, हारमू, राँची, राँची-834002 (झारखण्ड) । बैरियातू रोड, राँची-834008 (झारखण्ड) ।

		3. झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)	कंधा	अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखण्ड ।
		4. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
9.	कर्नाटक	जनता दल(सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
10.	केरल	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110 003.
		2. केरल काँग्रेस(एम)	दो पत्तियाँ	स्टेट कमेटी आफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम, (केरल) ।
		3. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी	कायदे मिल्लत मंज़िल, 36 मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट, चेन्नई-600001, तमिलनाडु ।
11.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	रेलवे इंजन	कृष्ण कुंज, एम.बी. राउत रोड, शिवाजी पार्क, मुंबई-400 028, महाराष्ट्र ।
		2. शिवसेना	तीर-कमान	शिवसेना भवन, गडिकारी चौक, दादर, मुंबई-400028 (महाराष्ट्र) ।
12.	मणिपुर	1. ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30-हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल ।
		2. मणिपुर पीपुल्स पार्टी	साइकिल	पीपुल्स रोड, इम्फाल-795001, (मणिपुर) ।
		3. मणिपुर स्टेट काँग्रेस पार्टी ।	फसल काटता किसान	कैशमपट (राज भवन के सामने), इम्फाल-795001, मणिपुर ।
		4. नैशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	दूसरी मंजिल, एमडीयू बिल्डिंग, एम.जी. एवेन्यू, इम्फाल-795001, (मणिपुर) ।
		5. नागा पीपुल्स फ्रन्ट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं0 565, कोहिमा -797001, नागालैण्ड ।
		6. पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलाइन्स	मुकुट	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर ।
		7. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.,

13.	मेघालय	1. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 2. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	ड्रम शेर	मावलाइ नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय) । केन्चस ट्रेश, लाबान, शिलांग-739004 मेघालय ।
14.	मिजोरम	1. मिजो नेशनल फ्रंट 2. मिजोरम पीपुल्स काँग्रेस 3. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सितारा बिजली का बल्ब सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकावत आइजॉल (मिजोरम) । जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम) । जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001 (मिजोरम) ।
15.	नागालैंड	नागा पीपुल्स फ्रंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं० 565, कोहिमा-797001 (नागालैंड) ।
16.	उड़ीसा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोड्रम गेट, भुवनेश्वर -751009 (उड़ीसा) ।
17.	पुडुचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम 2. ऑल इंडिया एन० आर० काँग्रेस 3. द्रविड मुन्नेत्र कड़गम 4. पट्टालि मक्कल कांची	दो पत्तियाँ जग उदीयमान सूर्य आम	275, अब्बाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014, (तमिलनाडु) । नं० 51, जे० जे० कॉम्पलेक्स, 100 फीट रोड, ईल्लापिल्लईचावड़ी, नेल्लीथोप पोस्ट, पुडुचेरी-605005 । 'अन्ना अरिवालयम', 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) । 63, नाट्टू मुथू नाइकेन स्ट्रीट, वनीया तेयनामपेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु ।
18.	पंजाब	शिरोमणि अकाली दल	तराजू	बिल्डिंग नं० 6, सैक्टर 28 बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-16002.
19.	सिक्किम	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	छाता	अपर देवराली, गंगटोक पूर्व सिक्किम ।
20.	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम 2. द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियाँ उदीयमान सूर्य	275, अब्बाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु) । 'अन्ना अरिवालयम' 268-269,

		3. देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम	नगाड़ा	अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु) । 125/7, जवाहरलाल नेहरू सलाई (100 फीट रोड) कोयमबेदु, चेन्नई-600 107, तमिल नाडु ।
21.	उत्तर प्रदेश	1. राष्ट्रीय लोक दल	हैंड पम्प	12-तुगलक रोड, नई दिल्ली-110011
		2. समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली ।
22.	पश्चिम बंगाल	1. ऑल इण्डिया फॉर्बर्ड ब्लॉक	शेर	28, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली-110001.
		2. ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल ।
		3. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल) ।

सारणी-III

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क्रम सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1.	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे.के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रूपवेल, (निशाल फलिया), ता०-वनसदा, जिला-नवसरी-396 321, गुजरात ।
3.	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
4.	अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेस्स गाटो हिल्स, मेघालय-794101
5.	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं० 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैण्ड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब ।
6.	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
7.	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी० एस०/919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
8.	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.

9.	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं० 1369, सुरक्षा-1, सैक्टर-4, ई०एल०डी०ई०सी०ओ०, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
10.	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश ।
11.	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ।
12.	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर-एच, एल० डी० ए० कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
13.	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।
14.	आदिवासी जन कल्याण पार्टी	द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650 ।
15.	अद्वैत ईशावास्यम् कॉंग्रेस	गुरुआईन वाड़ी आश्रम, टीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।
16.	अगर जन पार्टी	वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
17.	अहिंसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108, 109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
18.	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं० 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
19.	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334 ।
20.	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
21.	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
22.	अकाली दल (1920)	296, सैक्टर-10-ए, चण्डीगढ़-160 010
23.	अखंड भारत एकता आन्दोलन	बसंत भवन, 17/34, सिंघन स्ट्रीट, काशीपुर पिन कोड-244713, जिला-उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) ।
24.	अखण्ड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ए/1/1, मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश ।
25.	अखण्ड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी. ए. मिनी मार्केट, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086.
26.	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54, मानेक नगर, सी० एच० एस० लिमिटेड, एम० जी० रोड, कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई-400067, महाराष्ट्र ।

27.	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी,	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
28.	अखण्ड भारती	ई0-5, प्रथम तल, बाली नगर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015.
29.	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सैक्टर-8, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उत्तर प्रदेश)।
30.	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ.-गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
31.	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001.
32..	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा0 सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं0 272001, उत्तर प्रदेश ।
33	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
34.	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।
35.	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी,	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
36.	अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
37.	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौव्वारा तिराहा, नई सड़क, शहजादपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
38.	अखिल भारतीय भारत माता-पुत्र पक्ष	ऑफिस-नन्दूरवार पिन-425412, जिला-धुलिया (महाराष्ट्र) ।
39.	अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरमूलन सेना	ओम बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी चौक, गोंधाले नगर हदप्सर, पुणे-411002 (महाराष्ट्र) ।
40.	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर)	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।
41.	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं0 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
42.	अखिल भारतीय दस्तकार मोर्चा	चैम्बर नं0 187, नई दिल्ली कोर्ट्स, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001.
43.	अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ. पटना, (बिहार) ।
44.	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
45.	अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी	जी-10/2, रतिया मार्ग, संगम विहार, नई दिल्ली-110062.
46.	अखिल भारतीय जनरल लेबर पार्टी	ए-3/85, नन्द नगरी, दिल्ली-93.
47.	अखिल भारतीय गोरखा लीग	महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
48.	अखिल भारतीय हिन्दू क्रांति पार्टी	कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना, मध्य प्रदेश ।
49.	अखिल भारतीय जन संघ	जे-394, शंकर रोड, नई दिल्ली-110060.

50.	अखिल भारतीय जनता काँग्रेस	4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.
51.	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश)।
52.	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलोनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान।
53.	अखिल भारतीय लोक तान्त्रिक अल्प-संख्यक जनमोर्चा	गांव-बार्वे, पोस्ट दाहु, थाना-ओरमांझी, जिला-रॉंची (झारखण्ड)।
54.	अखिल भारतीय लोकराज पार्टी	एच.ओ.-रघुवीर नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद (हरियाणा)।
55.	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
56.	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
57.	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
58.	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्टी (कोके), तहसील-सिन्धेवाही, जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र।
59.	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर)	खारी कुआँ मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ०प्र०)।
60.	अखिल भारतीय राजार्यो सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत-262001, (उत्तर प्रदेश)।
61.	अखिल भारतीय राजीववादी काँग्रेस (दूबे)	डब्ल्यू-जेड-8-93, तंवर मार्केट, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली-110028.
62.	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास)	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054.
63.	अखिल भारतीय राष्ट्रीय आजाद हिन्द पार्टी	एच. ओ-1 आर. 11-12, विस्तार योजना दादाबारी, कोटा (राजस्थान)।
64.	अखिल भारतीय रिवाज्युशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था० और पो०-लादुर, जिला-लादुर-413512 (महाराष्ट्र)।
65.	अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	डी-167, ब्लॉक राजीव नगर, बेगमपुर, दिल्ली-110081.
66.	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चूडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब।
67.	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को.ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई-400079 (महाराष्ट्र)।
68.	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड़ मंडी, लुधियाना (पंजाब)।
69.	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
70.	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश।
71.	अखिल भारतीय जनता विकास पार्टी	21-डी, पाकेट ए-3, एक्स्टेंड अपार्टमेंट कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.

72.	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड ।
73.	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक कांग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
74.	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	रत्नेश्वर झा का मकान, गांव व पो0 - परजुआर, जिला - मधुबनी, बिहार, पिन - 847229
75.	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं0 98, रतन लाल नगर, कानपुर-208022, उत्तर प्रदेश ।
76.	अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश ।
77.	अखिल जन विकास दल	50ए/1ए, नाहरपुर, राव एस0 के0 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85.
78.	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नादी गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।
79.	अखिल भारतीय रयथा पार्टी	नं0 127, श्रवनाबेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेन रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135.
80.	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची (डॉ इसाक) ।	नं0 171, कानन नगर, वीटरेपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।
81.	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं0 2-9-53, नवाबपेट, मेडक-502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
82.	अकिला इण्डिया वल्लालार पेरारवई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।
83.	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 ।
84.	अली सेना	1/1, जफराबाद, न्यु सीलमपुर, दिल्ली-110053.
85.	ऑल इण्डिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्र कडकम	104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, दिल्लीकेन, चेन्नई-600002, तमिलनाडु ।
86.	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई-40, तमिलनाडु ।
87.	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल कांग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048.
88.	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलॉ, नई दिल्ली-110041
89.	ऑल इंडिया बी0सी0, ओ0बी0सी0 पार्टी	म0 नं0 1-1-109/18, रामदास नगर, कपड़ा, ECIL, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062.
90.	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्केट, मनसा-151505, पंजाब ।
91.	ऑल इंडिया किश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लॉक ए-1, प्लैट-2, कोलक्ता-700054, (पश्चिम बंगाल) ।
92.	ऑल इण्डिया दलित वेलफेयर कांग्रेस	फ्लैट नं0 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली ।
93.	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010. (तमिलनाडु) ।

94.	ऑल इंडिया गरीब काँग्रेस	ए-1/126, सेक्टर-6, रोहिणी, नई दिल्ली।
95.	ऑल इंडिया होमलेस पीपुल्स काँग्रेस	नवग्राम गरीया, पो0आँ0 पंचपोटा, साउथ-24, परगना-743516, (पश्चिम बंगाल)।
96.	ऑल इंडिया इंदिरा काँग्रेस (सेक्युलर)	2680, चूड़ीवाला, दिल्ली-110006.
97.	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब-152002.
98.	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी काँग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र।
99.	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं0 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापटनम-530017, आन्ध्र प्रदेश।
100.	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला-लुधियाना (पंजाब)।
101.	ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए0आई0एम0डी0एफ0)।	मकान नं0 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश।
102.	ऑल इंडिया महिला राज पार्टी	5 ए, ओरियेंट रो, कोलकत्ता-700017, (पश्चिम बंगाल)।
103.	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	दारुस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
104.	ऑल इण्डिया मांची पार्टी	फ्लैट नं0 एफ-5, साई अपार्टमेन्ट, कादुरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश।
105.	ऑल इंडिया माइनोंटिरीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.
106.	ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कड़गम	लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
107.	ऑल इंडिया मुक्ति दल पार्टी	प्लॉट नं0 158/1, म. नं0 37-93/55/1, रोड नं0 3, मथुरानगर, नेरदमे क्रोसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094 आन्ध्र प्रदेश।
108.	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सेक्टर, 66 वीं स्ट्रीट, पुनमबालम सलाई, के0 के0 नगर, चेन्नई-600 078.
109.	ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी	सेन्ट्रल कमेटी, गाँधी नगर, -प्रथम लाइन, बेरहामपुर-760001, (उड़ीसा)।
110.	ऑल इण्डिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
111.	ऑल इण्डिया प्रोग्रेसिव जनता दल	17, अकबर रोड, नई दिल्ली-110001.
112.	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस	बी-68, जगत पुरी, दिल्ली-110051.
113.	ऑल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं0-136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा।
114.	आल इण्डिया रविदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं0-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
115.	ऑल इण्डिया सदगुणा पार्टी	कात्कीरी, इन्दुलु ग्राम, आर0 के0 वी0 बी0 पेट पोस्ट, कारवेट नगर मण्डल, पिन-517582, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।

116.	ऑल इंडिया समुथुवा मक्खल काच्ची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
117.	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब) ।
118.	ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कड़गम्	संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
119.	ऑल इंडिया स्त्री शक्ति	II-257/1, कॉपरेटिव सोसायटी कालोनी, मदनापल्ले-517325, चित्तूर, आंध्र प्रदेश ।
120.	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गाँव-सिमुलपुर, पो0-ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल) ।
121.	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कड़गम	न0 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चैन्नई - 600039 तमिल नाडु ।
122.	ऑल इंडिया ट्राइबस एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट	विंडरूश हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।
123.	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल काची	द्वार नं0 55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पत्तूर-635601, तमिलनाडु ।
124.	ऑल इण्डियंस' गांधी कांग्रेस	212, कालिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलुरु-560058, कर्नाटक ।
125.	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर ।
126.	ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं0-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
127.	आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	एम.पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर ।
128.	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला ख्वाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड-192101, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
129.	ऑल केरल एम.जी.आर. द्विड़ मुन्नेत्र पार्टी	दास बिल्डिंग नेमोम पी.ओ., तिस्सिवनंतपुरम-695020. (केरल) ।
130.	ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉफ्रेंस (आर्मिशन मारक ग्रुप)	पी.ओ.-तुरा चंदमारी, वेस्टगाटो हिल्स-794002, (मेघालय) ।
131.	अत्यजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दूकान सं0-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. - सासाराम, थाना-सासाराम, जिला- रोहतास, बिहार-821115.
132.	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।

133.	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, कास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
134.	अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची	दरवाजा नं० 53, गाँधी रोड (फोर्मली पीरन लेन), थिरुपत्तूर, जिला-वेल्लोर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु ।
135.	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
136.	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डा० लोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।
137.	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019.
138.	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकता-700063. (पश्चिम बंगाल) ।
139.	अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पीछे, वर्धा-442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र ।
140.	आमरा बंगाली	नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकता-700004, (पश्चिम बंगाल) ।
141.	अनैथिनिया एम.जी.आर. काची	68, हबीबुल्ला रोड, टी नगर, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु) ।
142.	अनाईथिडिया द्रविडार समुदया मुन्नेत्र कड़गम	नं० 13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेय्यर तालुक - 604 407, थिरुवन्नामला, जिला- तमिल नाडु ।
143.	अनैथिनितया तामिझागा मुन्नेत्र कड़गम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर-641048 (तमिलनाडु) ।
144.	अनाईथू मककल मुन्नेत्र कड़गम	डी नं०-199/416(आर० एस० नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु ।
145.	अण्डमान निकोबार विकास काँग्रेस	एम बी-23, एम.जी.रोड, मिडिल पाइंट, पोर्ट ब्लेयर-741001, (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) ।
146.	आन्ध्र नाडु पार्टी	10-5-14/1, मासब टैंक, हैदराबाद-500028 (आन्ध्र प्रदेश) ।
147.	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिथि पार्टी	मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी-विजयवाडा हाईवे, हैदराबाद-500035, आन्ध्र प्रदेश ।
148.	आन्ध्र प्रदेश नवोदय प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
149.	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए० सी० स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामित्ता, नेल्लोर - 524001. आन्ध्र प्रदेश ।
150.	अन्ना तेलुगु देशम पार्टी	4-1-825/8, 9 व 10, एन.टी. आर एस्टेट्स आबिड्स, हैदराबाद-500001, (आन्ध्र प्रदेश) ।
151.	अन्नदाता पार्टी	मंदिर श्री पुरुषोत्तम भगवान, चंद्रभागा-326023, झालारपाटन सिटी, जिला-झालावाड़, (राजस्थान) ।

152.	अंतश्चेतन	पी०यू०-102, प्रथम मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली-110088.
153.	एंटी रिजर्वेशन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
154.	अपना भारत	सैनी भवन, कालकाजी माता मन्दिर के पास, कालकाजी, नई दिल्ली-110019.
155.	अपना दल	1/2 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
156.	अपना देश पार्टी	मकान नं०-457, मेजरगंज, जिला-सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश ।
157.	अरुणाचल कांग्रेस	जी-एक्सप्लेन, नहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश)
158.	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस - 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
159.	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
160.	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
161.	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय-जी.एस.रोड, उलूबारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
162.	अति पिछड़ा पार्टी	मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना-लहेरी, जिला-नालन्दा-803118, बिहार ।
163.	अति पिछड़ा वर्ग महासंघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
164.	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम रामपुर बाकली, पो० एवं जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
165.	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली-110064.
166.	ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी	रौगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलोंग (असम) ।
167.	आवामी आमजन पार्टी	बरिया घाट रोड, वासलीगंज, जिला मिर्जापुर-231 001, उत्तर प्रदेश ।
168.	आवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौज खास एक्सप्लेन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.
169.	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बुखारा, बख्शीवाला रोड, बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
170.	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली-110042
171.	आजाद जनता पार्टी	208, डिल्लन काम्प्लेक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

172.	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-III, शनि बाजार रोड, किराही नहर, नागलोई, नई दिल्ली-110086.
173.	बी० सी० भारत देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-500017 आन्ध्र प्रदेश ।
174.	बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट	15, सप्तगिरि नगर, टेठी बोंवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश ।
175.	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी	400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाड़ी, चेन्नई - 600 071, तमिलनाडु ।
176.	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
177.	बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक ।
178.	बहुजन एकता पार्टी (आर)	2151/टी-10, डी-6, नियर शादीपुर डिपो, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008.
179.	बहुजन किसान दल	किसान भवन, अन्न विहार, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
180.	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे.जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली-110052.
181.	बहुजन महासंघ पक्ष	रामनगर, सुधीर कॉलोनी, अकोला-444001, महाराष्ट्र ।
182.	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल० आई० ज०, बरौ-7, कानपुर-208027 उत्तर प्रदेश ।
183.	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
184.	बहुजन रिपब्लिकन पार्टी	म.न. 1-7-1046/18, एस.आर.टी. क्वार्टर्स-18, आजमाबाद, रामनगर, हैदराबाद-500020, (आन्ध्र प्रदेश) ।
185.	बहुजन सदान मोर्चा,	इसरी बाजार, पो०-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-825107.
186.	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	गांव और पो० ऑफिस-सेगती, जिला-अम्बाला (हरियाणा) ।
187.	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर-फुलै)	म० नं० वी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेन्ट, एस.पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
188.	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी.एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरुण विहार, सेक्टर-37, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
189.	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लश्कर, (ग्वालियर) मध्य प्रदेश ।

190.	बहुजन संघर्ष पार्टी (काशीराम)	बहुजन भवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला-रोपड, पंजाब ।
191.	बहुजन शक्ति	माइन्स टेक्न्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।
192.	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात ।
193.	बहुजन उदय मंच	ग्राम-चालकपुर, पोस्ट-जमीन रसूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
194.	बहुजन विकास अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विराट (पश्चिम) तालुक-वसाई, जिला-थाणे, महाराष्ट्र-401303.
195.	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार ।
196.	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
197.	बंचित स्वराज पार्टी	सं0 117, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन- नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220 पश्चिम बंगाल ।
198.	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो0ऑ0, थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।
199.	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	रसीला नगर, बस्ती दनिश्मंदन जालंधर, पंजाब ।
200.	बेस्ट क्लास पार्टी	मकान नं0 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
201.	भारत महाशक्ति पार्टी	5, अकबरी मार्केट, औरंगाबाद, बुलन्दसहर, उत्तर प्रदेश ।
202.	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्क-1, नई दिल्ली-110048.
203.	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या-नया नं0 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नं0-16/19, गौव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086.
204.	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, कान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।
205.	भारत दशम् पार्टी,	मकान सं0 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवीं लाइन, मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
206.	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
207.	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट-बलियाँ, महाराजगंज, सिवान, बिहार-841506 ।

208.	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)।
209.	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बड़ागाँव, जिला-कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
210.	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पीटल चौक, पो0आ0 जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार।
211.	भारत नव ज्योति संघ	18/25-ए, कुरसावा, फूलबाग, कानपुर-208001. (उत्तर प्रदेश)।
212.	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर - 23, राजस्थान।
213.	भारत नवनिर्माण वोटर सेना,	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश।
214.	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो0 त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल-852139, बिहार।
215.	भारत पैशनर्स फ्रंट	आर-17, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016.
216.	भारत पुनर्निर्माण दल	के.जे.-116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
218.	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
218.	भारत सृजन	गीता नगर, बालकेश्वर, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश।
219.	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी.एन. पुरव मार्ग, चैम्बर, मुम्बई-400071.
220.	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला-देवघर, झारखण्ड।
221.	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी0डी0ए0 फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली-110067.
222.	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं0 956, अरुणदेलपेट, दसवीं लेन, गुंटूर-522002, आन्ध्र प्रदेश।
223.	भारतीय मानवाधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता - 700007, पश्चिम बंगाल।
224.	भारत मक्कल काँग्रेस	एन-30, बेलुचेट्टी स्ट्रीट, एस कादीयूर, जोलारपेट, नार्थ अर्कोट जिला (तमिलनाडु)।
225.	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं0 3/17, डोरसानी पल्ली, प्रोर्तुड मंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
226.	भारतीय द्रविड़ मक्कल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु।
227.	भारतीय जन शब्द	331(311), वार्ड नं0-1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु, तिरुवनन्तापुरम-695 543, केरल।

228.	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा कास, गायत्री नगर, बंगलौर-560021, (कर्नाटक)।
229.	भारतीय प्रजा शक्ति	सं० 931, 932, करबला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड-571501 कर्नाटक।
230.	भारतीय सहयोग काँग्रेस	मेघावथ हाउस, चंदनापुरम, मुकानापलाया पोस्ट, ता० व जिला चमराजानगर, कर्नाटक -571127.
231.	भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए.आर.के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत - घटकेसर(मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
232.	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब)।
233.	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दर पुरी, भोपाल-462022(मध्य प्रदेश)।
234.	भारतीय आवाज पार्टी,	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोश नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई-440102, महाराष्ट्र।
235.	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फेजर रोड, पटना-800001 (बिहार)।
236.	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भटौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
237.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो.ऑ.-धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)।
238.	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह०-धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
239.	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमघन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश-231 001।
240.	भारतीय काँग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स (सोनीपत), हरियाणा।
241.	भारतीय काँग्रेस पक्ष	कसबापेट, लिंबूवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट-बार्शी, जिला-सोलापुर, महाराष्ट्र।
242.	भारतीय डेमोक्रेटिक दल	नं० 1ए, गंगाई उम्मन कोइल, दूसरी स्ट्रीट, वादापलानी, चेन्नई-600026 (तमिलनाडु)।
243.	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं कास, एम० टी० एस०, लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु-560060 कर्नाटक।
244.	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो०-बेल्हार कलां, तहसील मेहडावल, जिला-संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।
245.	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली-57.

246.	भारतीय गांव ताज दल	ग्राम-कुका, पो0आँ0 मकसूदपुर, जिला-कपूरथला, पंजाब ।
247.	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
248.	भारतीय हिन्दू सेना	आमेर भवन, आमेर, जयपुर (राजस्थान) ।
249.	भारतीय इन्कलाब पार्टी	ग्रा0 राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो0 व थाना-इस्लामपुर, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन - 801303.
250.	भारतीय जागृति दल	आर.जेड 21-डी, गली नं0 4, सिडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबड़ी मोड, दिल्ली-110045
251.	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
252.	भारतीय जय जवान जय किसान पार्टी	टूक यूनियन के पास, झज्जर, जिला-रोहतक (हरियाणा) ।
253.	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर0टी0ओ0 ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।
254.	भारतीय जन कॉंग्रेस	5158/15 महालक्ष्मी बिल्डिंग, रामकृष्ण मिशन के पीछे, पहाड़गंज लेन, नई दिल्ली-110055.
255.	भारतीय जन जागृति पार्टी	बूजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील-छाता, जिला-मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।
256.	भारतीय जन किसान पार्टी	35/सी/2, जयन्तीपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211011 (उत्तर प्रदेश) ।
257.	भारतीय जन क्रान्ति दल	(डेमोक्रेटिक) एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
258.	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।
259.	भारतीय जन समाजवादी पार्टी	ए-62, जे0 जे0 कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली-110062.
260.	भारतीय जन शक्ति	218, वी0पी0 हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001.
261.	भारतीय जन विकास पार्टी	पूर्व अशोक नगर, पो.-गुलाब हाउस, रोड नं.14ए, कंकडबाग, पटना-20, (बिहार) ।
262.	भारतीय जनक्रान्ति पार्टी	12/17, चक्खुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
263.	भारतीय जनतांत्रिक परिषद्	8/1, दतिया गेट के बाहर, झाँसी-284001.(उत्तर प्रदेश) ।
264.	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
265.	भारतीय ज्वाला शक्ति पक्ष	मु0 पोस्ट - मरुड़, तालुका एवं जिला - लातूर, आदर्श नगर, माइक्रो टावर के पास, पिन - 413 510, महाराष्ट्र ।
266.	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा-282010, उत्तर प्रदेश ।
267.	भारतीय किसान कामगार पार्टी	214-शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049.

268.	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद-283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
269.	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
270.	भारतीय क्रान्तिकारी कमान्ड पार्टी	214एल.आई.सी. कॉलोनी, टैगोर टाउन, इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश) ।
271.	भारतीय लेबर पार्टी	बी.पी.-281, रवि नगर, मुगलसराय, वाराणसी-232101 (उत्तर प्रदेश) ।
272.	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
273.	भारतीय लोक न्याय पार्टी	7/103, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दर योजना, आगरा, उत्तर प्रदेश ।
274.	भारतीय लोक विकास पार्टी	अन्नामलाई, पंजलासा, नजदीक नारायणगढ़, जिला-अम्बाला, हरियाणा-134203.
275.	भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गोंधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी.एरिया, पटना-800 001, बिहार ।
276.	भारतीय मानव रक्षा दल	बारखेड़ा, पठानी, भोपाल-21, (मध्य प्रदेश) ।
277.	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्क्लेव, फेस-II, नई दिल्ली-110016.
278.	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्कोडिया बिल्डिंग, सर जे.जे.रोड, जे.जे.हॉस्पिटल के सामने, मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र) ।
279.	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना-800001 (बिहार) ।
280.	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
281.	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001.(पंजाब) ।
282.	भारतीय मुस्लिम पार्टी (सिद्दिकी)	गांव-सूरजपुर, पो.ऑ.-रायादेवरिया, जिला-खीरी-262071 (उत्तर प्रदेश) ।
283.	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो.ओ.-कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश) ।
284.	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्लार काम्पलेक्स, सेक्टर नं० 11, गांधीनगर, गुजरात-382010
285.	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायखवाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
286.	भारतीय नवशक्ति पार्टी	5, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001.
287.	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
288.	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्ट्री के पास, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
289.	भारतीय परिवर्तन कांग्रेस	126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।

290.	भारतीय परिवर्तन मोर्चा	3/8, शाह नगर, मंगलापुरी टर्मिनल, पालम, नई दिल्ली।
291.	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पाण्डव नगर, मेट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली - 110008.
292.	भारतीय पीपुल्स पार्टी	चिकना सेठ बिल्डिंग, प्रथम तल, देवी कमान के सामने, शिव नगर, अलान्द रोड, गुलबर्गा, कर्नाटक।
293.	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220।
294.	भारतीय प्रजा पक्ष	नं.374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-कॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी. नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक)।
295.	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश।
296.	भारतीय प्रजातंत्र पार्टी	पटेल नगर, रोड नं0-9, पटना-23 (बिहार)।
297.	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिरदा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़., छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़।
298.	भारतीय पूर्वांचल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
299.	भारतीय राजीव कॉंग्रेस	145, ए-1, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029.
300.	भारतीय राष्ट्र परिषद्	ई-164, समस्तपुर रोड, पांडव नगर, दिल्ली-110092.
301.	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन-384002.
302.	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ- 402, रोड सं0 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर - 302 013, राजस्थान।
303.	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी	जी-96, 'शांतिपुरम' फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
304.	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश)।
305.	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सर्पोफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश)।
306.	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
307.	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी कॉंग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र।
308.	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्ला- कुंडगढ़, पोस्ट-सदर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
309.	भारतीय रिपब्लिकन पक्ष	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर, मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)।
310.	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाड़गंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

311.	भारतीय समाज दल	85, चौक माकाबु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
312.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला-अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
313.	भारतीय समाज शक्ति पार्टी (आर)	हाउस नं०-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला-भिवानी-127 032, हरियाणा।
314.	भारतीय समाजवादी विकास पार्टी	एफ-717 मंगोलपुरी, दिल्ली-110083.
315.	भारतीय समता पार्टी	ए-71-निर्माण विहार, नई दिल्ली।
316.	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली-110 041।
317.	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम - देहरामऊ, पोस्ट - गोसाईगंज, जिला - लखनऊ - 227 125 (उ०प्र०)
318.	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोलरी रोड, ग्राम व पोस्ट नाहर, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा।
319.	भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001 (उत्तर प्रदेश)।
320.	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	199, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110001.
321.	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय, रेलवे कासिंग, संकीर्तन कुंज के पीछे, बिड़ला मन्दिर के पास वृन्दावन रोड, जी०टी०वी०-3, मथुरा-281003, उत्तर प्रदेश।
322.	भारतीय सेवा दल	3-1-236/239/1, पहली मंजिल, सोमासुन्दरम स्ट्रीट, सिकन्दराबाद-500003 (आन्ध्र प्रदेश)।
323.	भारतीय शक्ति सेना शक्ति	सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार-249 402 उत्तराखण्ड।
324.	भारतीय श्रमिक दल	एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश)।
325.	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो.ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश)।
326.	भारतीय सुराज्य मंच	831, सैक्टर-10, पंचकुला-134113, हरियाणा।
327.	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो० ऑ० रघुनाथपुर, तहसील-वाडरुफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़।
328.	भारतीय युवा शक्ति	गायत्री विहार, पो०ऑ०-सदुबेला, भूपतवाला, हरिद्वार-249410, (उत्तराखण्ड)।
329.	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014(महाराष्ट्र)।
330.	भारती समाजवादी मोर्चा	3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश)।

331.	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो0ओ0 हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208.
332.	भारती कृषक सेवा समाज	गांव-खारखारी आश्रम, पोस्ट-खरखोदा, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
333.	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब)।
334.	भारती सर्वदर्शी परिषद्	86/12, डिंटी का पड़ाव, देव नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
335.	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली।
336.	भारतीय दलित कांग्रेस	चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001।
337.	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली-110067.
338.	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं0-1, खसरा नं0-1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली-110036.
339.	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
340.	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल)।
341.	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पो0-सोन्दा, वाया -अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
342.	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर-802301, बिहार।
343.	भारतीय जन कल्याण पार्टी	199/2, अर्जुन नगर कैथल-136027 (हरियाणा)।
344.	भारतीय जन मंच	361, गली नं013, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली-110093.
345.	भारतीय जन सहयोग समन्वय पार्टी	6/412, फर्श बाजार, शाहदरा, दिल्ली - 110032
346.	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-227107.
347.	भारतीय जन कॉंग्रेस(राष्ट्रीय)	113/70बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023, (बिहार)।
348.	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
349.	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना-800001, बिहार।
350.	भारतीय किसान मजदूर पार्टी	गांव और पोस्ट-मीरपुर, तहसील-खैर, जिला-अलीगढ़, (उत्तर प्रदेश)।
351.	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई, उत्तर प्रदेश।

352.	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-209601.
353.	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-121003, उत्तर प्रदेश ।
354.	भारतीय नौजवान इन्कलाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली-110093.
355.	भारतीय नौजवान दल	सेक्टर-6, पॉकेट बी-2, म.न. 23, रोहिणी, नई दिल्ली-110085.
356.	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली-110041.
357.	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए, न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
358.	भारतीय रक्षक पार्टी	म.नं. 397, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोहतक-124001, (हरियाणा) ।
359.	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव-सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
360.	भारतीय संताजी पार्टी	1, खोब्रागाडे ले-आउट, डिघोरी रिंग रोड स्कवायर, नागपुर-440 024, महाराष्ट्र ।
361.	भारतीय संवैधानिक जनहित पार्टी	विक गोल्ड फार्म, गांव-सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज उन्नाव, उत्तर प्रदेश ।
362.	भारतीय सर्वजन हितेय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
363.	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश ।
364.	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।
365.	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली ।
366.	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।
367.	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली-110041.
368.	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर, कानपुर नगर -208014, उत्तर प्रदेश ।
369.	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्कलेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ 30 प्र0 ।
370.	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम - भुड़िया (फगुहा), तह0 व जिला-कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
371.	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, टामूर नगर, न्यू फेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली ।
372.	भूमि जोतक समूह	560/12, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226005, (उत्तर प्रदेश) ।

373.	भ्रष्टाचार विरोधी दल	7/216, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015.
374.	बिहार पीपुल्स पार्टी	303, सी ब्लॉक, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, (बिहार) ।
375.	बिहार विकास पार्टी	कमरा नं० 6, 1-स्पेशल फैमिली टाइप, आर-ब्लाक, पटना-800001 (बिहार) ।
376.	बीरा ओड़िया पार्टी	मार्फत-श्री पी. सामन्ते, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ.-मधुपटना, कटक-10 (उड़ीसा) ।
377.	बोत्सैविक पार्टी ऑफ इंडिया	मार्फत-भाई बनसोद जुनी ओली, राम मंदिर काम्पटी, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र) ।
378.	ब्रज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस-II, आगरा-286002, उत्तर प्रदेश ।
379.	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला-पन्ना, मध्य प्रदेश ।
380.	ब्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा-5, उत्तर प्रदेश ।
381.	बृज प्रदेश निर्माण संघ	श्री अरविन्दो भवन, 28/352, गुदड़ी मन्सूर खान, आगरा-3, (उत्तर प्रदेश) ।
382.	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)-9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली-110088.
383.	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो०-सतारी, जिला-महोबा, उत्तर प्रदेश ।
384.	बुन्देलखण्ड कांग्रेस	56, ज्वाला हेड़ी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063.
385.	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी-284001, (उत्तर प्रदेश) ।
386.	बुंदेलखंड विकास दल	गांव और पो.ऑ. कुलपाहद, जनपद-हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) ।
387.	चम्पारण विकास पार्टी	ब्लॉक-ए, फ्लैट नं. 102, दारोगा राय पथ, पटना (बिहार) ।
388.	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़-160009.
389.	छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी	पी० आर० नेगी का मकान, झूलेलाल धाम के पीछे, गली डा० भानु प्रताप सिंह, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
390.	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो.ऑ. दल्ली राजहारा, जिला-दुर्ग-491228. (छत्तीसगढ़) ।
391.	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
392.	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	21, बत्तीस बंगला, भिलाई नगर, जि०-दुर्ग-490006 छत्तीसगढ़ ।
393.	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, पलाश विहार, न्यू पुरेना, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
394.	छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर-492001.(छत्तीसगढ़) ।

395.	क्रिस्तवा मक्कल काची	173-पोन्नागर, तिरुचिरापल्ली-620001, (तमिलनाडु) ।
396.	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं.9, रोसाटी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई (तमिलनाडु) ।
397.	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई-600001.(तमिलनाडु) ।
398.	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी	केरल स्टेट कमेटी कुन्नुकुडी, त्रिवेन्द्रम-695037, (केरल) ।
399.	कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	यू-90, शक्करपुर, दिल्ली-110 092.
400.	काँग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन-16 (केरल) ।
401.	काँग्रेस जननायक पेरावाई	24, ओरमेस रोड, किलपंक, चेन्नई-600010.
402.	काँग्रेस ऑफ पीपुल	5, पेद्रोपोलिस कोलाबा, मुम्बई-400005 (महाराष्ट्र) ।
403.	कौंगुनाडु मक्कल काची	टी.टी. एस. काम्पलैक्स-58, मेदुर रोड, इरोडे जिला-638011, (तमिलनाडु) ।
404.	दलित क्रान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट-धौलीपाल, तहसील व जिला-हनुमानगढ (राजस्थान) ।
405.	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.
406.	दलित मुस्लिम विकास पार्टी	2/306, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली-110062.
407.	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो.ऑ.-अनीशाबाद, पटना-800002, (बिहार) ।
408.	दलित विकास पार्टी (भारत)	हाई स्कूल के पीछे, वार्ड नं0 3, गांव व पोस्ट-घुनवारा, तहसील-मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।
409.	दलित बहुजन पार्टी	4-1-1215, स्ट्रीट नं0 3, बोगुल्लाकुन्टा, किंग काटी रोड, हैदराबाद-500001.
410.	दलिथा प्रजा पार्टी	#7/347-2पी0-ए0-3, सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर0टी0सी0 बस स्टैण्ड के पास, कडपा - 516002. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
411.	दलितस्तान पीपुल्स पार्टी	गांव-शांतीनगर, मौजा-सन्नपुरा, पोस्ट-गोंसली, तहसील- बाह, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश ।
412.	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110027.
413.	दिल्ली विकास पार्टी	बी-600, जहांगीर पुरी, दिल्ली-110033.
414.	डेमोक्रेटिक बहुजन समाज मोर्चा	ग्राम-सोत्रान, पो.-चक कालाई, तहसील व जिला-नवांशहर, (पंजाब) ।

415.	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं०-7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब ।
416.	डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड, अमृतसर (पंजाब) ।
417.	डेमोक्रेटिक दल ऑफ हरियाणा	पेटावास हाऊस, भिवानी रोड, चरखी दादरी, जिला-भिवानी, हरियाणा ।
418.	डेमोक्रेटिक फॉर्बर्ड ब्लॉक	66, तमिल संगम रोड, मदुरई-625001.(तमिलनाडु) ।
419.	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी.टी.बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
420.	डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)	344 ई.पी. क्रिस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) ।
421.	डेमोक्रेटिक झारखंड मुक्ति मोर्चा	पम्प रोड, टोंका टोली, पो.ऑ. चक्रधरपुर-833102, सिंहभूम पश्चिम, (झारखण्ड) ।
422.	डेमोक्रेटिक मूवमेंट	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
423.	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागापुर-17, (महाराष्ट्र) ।
424.	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्यूलरिस्ट	उम्माथुर पो० व ग्राम, हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक-571105.
425.	डेमोक्रेटिक सेक्यूलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागापुर-24, महाराष्ट्र ।
426.	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63-अनन्दा पलित रोड, कोलकाता-700014, पश्चिम बंगाल ।
427.	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर-नेमॉम, तिरुवनन्तपुरम- 695020, केरल ।
428.	देश बचाओ जन मोर्चा	डी-6/171, सेक्टर-31, नोएडा-201301. (उत्तर प्रदेश) ।
429.	देश भक्त पार्टी	बी-114, प्रीत विहार, दिल्ली-110092.
430.	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
431.	देसिया पातुकाप्पु कड़गम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई-600093 (तमिलनाडु) ।
432.	देव सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट:- सकरोद, तहसील व जिला-राजस्मंद, (राजस्थान) ।
433.	धर्म निरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
434.	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं० 7, शुभारम्भ फेस-1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे-400610, महाराष्ट्र ।

435.	धीराविदा तेलुगार मुन्नेत्र कलागम	4/802, कुरुंजी स्ट्रीट, तहसीलदार नगर, मदुरै-625020.
436.	दिव्या शक्ति पार्टी	7/106, ग्राउंड फ्लोर, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031.
437.	द्रविड़ मक्कल काँग्रेस	नं० 11, जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083, (तमिलनाडु)।
438.	द्रविड़ पेरावाई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी-605001.
439.	द्रविड़ विज्ञापुनारची कड़गम	नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई-600093, तमिलनाडु।
440.	डुगर प्रदेश पार्टी	ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स, जानीपुर जम्मू-180007, जम्मू और कश्मीर।
441.	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी-ब्लॉक, पुराना दारुलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश-251 001.
442.	एकता क्रान्ति दल यू.पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)।
443.	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
444.	एकता शक्ति	झंझाड़ी, पो०-बैनी खुर्द, तहसील-नीलोखेड़ी, जिला-करनाल, हरियाणा।
445.	इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु।
446.	इफ्रेम यूनियन	त्लांगडिंगमिलआना बिल्डिंग, बाबंगकावन साउथ, आइजॉल-796012. (मिजोरम)।
447.	फार्मर्स डेवेलोपमेंट्स पार्टी	149, माम्बालम, हाई रोड, टी नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु।
448.	फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी खुर्द, गाँव व पो०-होलम्बी कलां, दिल्ली-110082.
449.	फेडरेशन ऑफ सभास	101, सावित्री काम्लेक्स, चौधरी सिनेमा के सामने, गाजियाबाद-201001, (उत्तर प्रदेश)।
450.	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, मित्तल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र।
451.	फावर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो.ऑ. व जिला-जलपाईगुड़ी-735101. (पश्चिम बंगाल)।
452.	गदर पार्टी	मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दूगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230001.
453.	गांधीवादी राष्ट्रीय काँग्रेस	टीचर्स कॉलोनी, तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट-महोरिया टाऊन और जिला-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।

454.	गरीब सामना पार्टी	म0 नं0-399, आवास विकास कॉलोनी, जिला-मिर्जापुर-231001 उत्तर प्रदेश ।
455.	गरीबजन समाज पार्टी	450, जयदेवी नगर, गढ़ रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
456.	गरीब एकता पार्टी	ए-71 ग्रुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली - 110052.
457.	गरीब जनता पार्टी	राजिन्द्र नगर, मेन बाजार, पो.ऑ.-विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब) ।
458.	गरीब समाज पार्टी (शोशित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील - जलालपुर, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224149.
459.	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार-845401.
460.	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय) ।
461.	गोवा पीपुल्स काँग्रेस	मैनेजेस बिल्डिंग के सामने, अल्टिन्हो, पणजी, गोवा-403001.
462.	गोवा पोकस	मैनेजेस बिल्डिंग के सामने, अल्टिन्हो, पणजी, गोवा-403001.
463.	गोवा राजीव काँग्रेस पार्टी	प्रथम तल, डायस बिल्डिंग, रूआ ओरमुज रोड, फैरी व्हार्फ के सामने, पणजी, गोवा-403001.
464.	गोवा सु-राज पार्टी	383-ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन-403514.
465.	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जरनलिस्ट कॉलोनी के पास, पूरवोरिम, गोवा-403507.
466.	गोएमकरेंचो ऑट्रेक असरो	मकान नं0 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ ।
467.	गोल्डन इण्डिया पार्टी	'नन्दन वन', बी 94-ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004, (राजस्थान) ।
468.	गोमान्त लोक पोकस	31 जनवरी रोड, पो. बॉक्स-242, पंजिम (गोवा) ।
469.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो.ऑ. तिवेर्थे, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।
470.	गोंडवाना कांग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी0 डी0 ए0 कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
471.	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वचल फेस-1, खजूरीकला रोड, भोपाल-462021, मध्य प्रदेश ।
472.	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट	डॉ0 जाकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो.ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल) ।

473.	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास, चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
474.	गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा	नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग – 734 104, पश्चिम बंगाल ।
475.	ग्राम मुन्नेत्र कड़गम	‘जैड’ मंगाम्मल सलाई, रेंगानगर, तिरुचिरापल्ली-620021, (तमिलनाडु) ।
476.	ग्रामांचल पार्टी	3/ए, सत्य नगर, सेन्दूल स्कूल के सामने, भुवनेश्वर-7, उड़ीसा ।
477.	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं0 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्टूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
478.	गुजरात आदिजाति विकास पक्ष	ब्लॉक नं. 6/4, एम.एल.ए. निवास, सेक्टर-21, गाँधी नगर (गुजरात) ।
479.	गुजरात परिवर्तन पार्टी	ए-4, अभीनव आर्कैड, प्रीतम नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात – 380006.
480.	गुजरात स्टेट जनता काँग्रेस	इन्दुभाई पटेल भवन, वसंत चौक, भाद्रो, अहमदाबाद-380001, (गुजरात) ।
481.	गुजरात युवा विकास पार्टी	मार्फ़्त दरबार कूबा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाइनगर-384355, जिला-मेहसाना (गुजरात) ।
482.	गुड़गाँवा रेसिडेन्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुड़गाँव-122 002, हरियाणा ।
483.	गुरु चाँद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरुणा नगर, मजनू का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
484.	हमारा दल	सी-112, सेक्टर-जी, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।
485.	हरियाणा गरीब पिछड़ा युवा संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट-अहरिका, तहसील व जिला-जिन्द (हरियाणा) ।
486.	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।
487.	हरियाणा लोक दल	705, सोनीपत रोड, रोहतक (हरियाणा) ।
488.	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव – सिलोखरा, गुड़गाँव – 122001, हरियाणा ।
489.	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी नं0-239, सेक्टर-7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-136118, हरियाणा ।
490.	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं0-154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़, जिला-झज्जर, हरियाणा ।
491.	हिमाचल क्रान्ति पार्टी	ग्राम-खार्ड, पो.ऑ.नंदरूल, तहसील और जिला-कांगड़ा-176001. हिमाचल ।
492.	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर, कासुम्पटी, शिमला – 171009, हिमाचल प्रदेश ।
493.	हिमाचल प्रदेश स्टेट अकाली दल	बस स्टैंड के पास, पोटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।

494.	हिमाचल स्वाभिमान पार्टी	चिंतपूर्णि निवास, लोंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश।
495.	हिन्द एकता मिशन	ग्राम- लेडूवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
496.	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा-4 (उत्तर प्रदेश)।
497.	हिन्द मोर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, (दिल्ली)।
498.	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018.
499.	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट नं० 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू०पी०-201005.
500.	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017.
501.	हिन्द विकास पार्टी	पो.ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)।
502.	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1, सांगली-416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र।
503.	हिन्दु समाज पार्टी	117/के-36, सर्वोदय नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।
504.	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156, खन्ना नगर, लोनी, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश।
505.	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं० 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर - 45 सी०, चण्डीगढ़ - 160047
506.	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।
507.	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई - 600114, तमिलनाडु।
508.	हिन्दुस्तान पार्टी	202, देविका अपार्टमेन्ट्स, बाबा जन पूना-411001, (महाराष्ट्र)।
509.	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस	शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू, मुम्बई-400049, महाराष्ट्र।
510.	हिन्दुस्तान विकास दल	करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-802301 बिहार।
511.	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली-110092.
512.	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली-110041.
513.	हिन्दुस्तान निर्माण दल	मकान नं० 100, गली नं० 5, कृष्णा नगर, सफदरजंग इंकलेव, नई दिल्ली।

514.	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर -7, कामोठे, नवी मुंबई-410 209, महाराष्ट्र ।
515.	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, टुरिस्ट लोज के पास, वार्ड नं0 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।
516.	हमार पिपुल्स कन्वेंशन	द्वारा लालुवा, मकान नं0-ए/56, बावंगकाउन चिमवेंग, एजल-796014, मिजोरम ।
517.	होली ब्लेसिंग पीपुल्स पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।
518.	इक्विया मक्कल मुन्नेत्र कड़गम	मक्कलगाम नं0 11, पर्ले एम्पायर अपार्टमेंट, कुप्पम बीच रोड, तिरुवनमियुर, चेन्नई, (तमिलनाडु) ।
519.	इन्धिया कुडियारासु काची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
520.	इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र काँची	द्वार सं0 15/1, वार्ड नं0 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन-II, इरोडे-638011, तमिलनाडु ।
521.	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र काँची	95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
522.	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट-नगीना, जिला-बिजनौर-246762, (उत्तर प्रदेश) ।
523.	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी (कांशीराम)	बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।
524.	इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट	प्लॉट नं0 660, ईस्ट लास्ट रोड, अन्ना नगर, मदुरई-625020, तमिलनाडु ।
525.	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	सगाया माथा मलीगई नं0 105/167, तिरुवेलुयार नगर, अयानावारम, चैन्नई-600023 तमिलनाडु ।
526.	इण्डियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सेक्टर-10, प्लॉट नं0 सी-43, पोस्ट-अभिनवा बिदानसी, कटक-753014, उड़ीसा ।
527.	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली-110054 ।
528.	इण्डियन एकता पार्टी	ए-180, सेक्टर-40, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
529.	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली -110001.
530.	इंडियन गांधियन पार्टी	कुरियाकोट्ट बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिक्कड डाकघर, श्रीसूर जनपद, केरल-680 509.
531.	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पूसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.
532.	इंडियन क्रांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला-फरीदकोट, पंजाब ।
533.	इंडियन लिबरेशन फ्रन्ट	टी-16, ग्रीन पार्क एक्सपेंशन, नई दिल्ली-110016.

534.	इण्डियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी	डी0 नं0 9-4-51/35/48, हकीमपेट (आई.ए.एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट-गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश ।
535.	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्प्लेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.
536.	इंडियन नेशनल लेबर पार्टी	रजनी मुखर्जी स्मृति, भाबर, कोल डांक रोड, (पहले कोल कन्ट्रोलर्स ऑफिस), कोलकाता-700043. (पश्चिम बंगाल) ।
537.	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग कास, नई दिल्ली-110001.
538.	इंडियन ओसनिक पार्टी	के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030 ।
539.	इंडियन पीस पार्टी	एक्स-919, चॉंद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली-110031.
540.	इंडियन पीपुल्स कॉफ्रेंस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं0 -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
541.	इंडियन पीपुल्स कॉंग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-110001.
542.	इण्डियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल ।
543.	इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान ।
544.	इण्डियन पब्लिक पार्टी	गुजरात हाउसिंग कॉलोनी, कमरा संख्या - 1103, ब्लॉक नं0 7/बी, न्यू डबलिया, भारतनगर, भावनगर-364001 गुजरात ।
545.	इंडियन रिपब्लिकन फ्रंट	36/19/3, पी0 डी0 किडगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
546.	इंडियन सेक्युलर कॉंग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस.(डी.डी.ए.फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025.
547.	इंडियन यूनिटि सेंटर	द्वारा मोइनूदिन चिस्ती, 43/36, सी.एन. राय रोड, थाना - तिलजला, कोलकाता - 700039, पश्चिम बंगाल ।
548.	इण्डियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी	नं0-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बैंगलोर-560054, कर्नाटक ।
549.	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन0जी0जी0ओ0एस0 कॉलोनी, पी0 आर0 गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश ।

550.	इंडियन्स विक्ट्री पार्टी	54-बी, हेनरी रोड, नागरकोइल-629001, तमिलनाडु।
551.	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी	ऑफ त्वीपरा अभय नगर, अगरतला-799005, (त्रिपुरा)।
552.	इंडिज़िनियस पिपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा	प्रधान कार्यालय-ओल्ड काली बाड़ी रोड, कृष्णानगर, अगरतला-799001. त्रिपुरा।
553.	इण्डिया जननायक काच्ची	सं0 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु।
554.	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262 804.
555.	इन्कलाब विकास दल	92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, घौडा, दिल्ली।
556.	इंकलाबी पार्टी	बी0टी0आई0 स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन-477001.
557.	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडेपुर, पो0-सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
558.	इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश।
559.	जे0 एण्ड के0 सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।
560.	जगनमय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
561.	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कड़गम	नं0 33, हात्स रोड, पी.ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एग्मोटे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।
562.	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाउन्ड, एस0 डी0 रोड, सिकन्दराबाद - 500 026, आन्ध्र प्रदेश।
563.	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
564.	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात।
565.	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710इ (इ/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
566.	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-V-1, समानता शक्ति भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
567.	जय छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001.
568.	जय हिन्द पार्टी	वार्ड नं0 6, सुपौल, पो0 व जिला-सुपौल, बिहार-852131.
569.	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम खड़हरा (बिन्द वलिया), पोस्ट दुबिहा, जनपद - गाजीपुर, उत्ता प्रदेश।

570.	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बौदा, परगना व जिला-बौदा, उत्तर प्रदेश ।
571.	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकणगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115.
572.	जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
573.	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव - बुक्कापुरम, तह0- आलमपुरम, जिला - महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश, पिन - 509 652.
574.	जय प्रकाश जनता दल	16, एच.एम.डी., पुरानी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032.
575.	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट-सादात, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
576.	जय तेलंगाना पार्टी	म0 नं0 34/9, एस.बी.एच. कॉलोनी, श्रीनगर, हैदराबाद-500073 (आन्ध्र प्रदेश) ।
577.	जय विजय भारथी पार्टी	पो0 ऑ0 चिन्नागोदडीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश ।
578.	जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल काँग्रेस	3-आर सी क्वार्टरर्स, प्रेस एन्क्लेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर-190001, (जम्मू व कश्मीर)।
579.	जम्मू एंड कश्मीर नेशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी-180005, जम्मू व कश्मीर ।
580.	जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स काँग्रेस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर-190001, (जम्मू व कश्मीर) ।
581.	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रन्ट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल, तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग, श्रीनगर-190006, जम्मू और कश्मीर ।
582.	जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग	बी - 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर - 190001.(जम्मू व कश्मीर) ।
583.	जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी	नेशनलिस्ट कुरु राजबाग, श्रीनगर-190008, कश्मीर ।
584.	जम्मू एंड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।
585.	जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर) ।	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर ।
586.	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव)	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू-180 001, जम्मू व कश्मीर ।
587.	जन भावना पार्टी	सी-103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 092 ।
588.	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं.475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.
589.	जन एकता दल	घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला-रामपुर-244 901, उत्तर प्रदेश ।

590.	जन एकता पार्टी	147/5, आई0 टी0 आई0 के पीछे, शमशेरपुर, पौटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।
591.	जन क्रान्ति मोर्चा	89-एम, किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) ।
592.	जन क्रांति पार्टी (राष्ट्रवादी)	16/31, बी0, सरोजनी नायडू मार्ग (हैवलक रोड), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
593.	जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी	226/27, गली न0-6, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
594.	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्ट: बुढ़ाडा, तहसील-शामली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
595.	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे पलाई ओवर के नीचे, डासना, गाजियाबाद - 201 302, उत्तर प्रदेश ।
596.	जन मोर्चा	1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110001.
597.	जन राज्य पार्टी	128/5, वाई ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर - 208011, उत्तर प्रदेश ।
598.	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड़, लखनऊ - 226020, उत्तर प्रदेश ।
599.	जन समानता पार्टी	बी-125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.
600.	जन समर्थन दल	12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
601.	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर-21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उत्तर प्रदेश ।
602.	जन संग्राम पार्टी	मकान नं0-905, सैक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा-7, उत्तर प्रदेश ।
603.	जन सेवा पार्टी	जे.-7, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092.
604.		जन शक्ति दल शिवाजी नगर, गली नं0 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार, मुरादाबाद- 244 001, उत्तर प्रदेश ।
605.	जन शान्ति संगठन	एए - 14, चंदन वन, फेज - 1, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281001.
606.	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, वाराणानगर, ता0-पनहाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416113.
607.	जन हितकारी पार्टी	ए/13-14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़., भुवनेश्वर-751010, उड़ीसा ।
608.	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नेवल रोड, बंगलौर-560025.(कर्नाटक) ।

609.	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700017, पश्चिम बंगाल।
610.	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई-400 072
611.	जनाधिपथ्या समृद्धि समिति	केरल राज्य समिति कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर, एलेपी-688011, केरल।
612.	जननायाहा मुनेत्रा कजगम	नं0 32, न्यू टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई-600034, तमिलनाडु।
613.	जननिष्ठा	मोहन विला, ए-1/347, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.
614.	जनता काँग्रेस पार्टी ऑफ भारतवर्ष	ए-15/2, बसन्त विहार, पी.बी. नं0 8801, नई दिल्ली-110057.
615.	जनता पार्टी	ए-77 निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली।
616.	जनता उदय पार्टी	860, गली नं0-4, संजय इन्क्लेव, चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी, एन0आई0टी0 फरिदाबाद, हरियाणा।
617.	जनता विकास मंच	सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
618.	जनता विकास पार्टी	अबषेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा, (मध्य प्रदेश)।
619.	जनहित दल	आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं0 2, कंकड बाग, पटना-20, बिहार।
620.	जनहित किसान पार्टी	वार्ड नं0 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद-महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज-273303, उत्तर प्रदेश।
621.	जनहित समाज पार्टी	भगवती मार्केट, शिव मन्दिर के पास, बैली रोड, जगदेव पथ, पोस्ट-बी0वी0 कालेज, पटना-800014, (बिहार)।
622.	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी,	452, सेक्टर-19, द्वारका नई दिल्ली।
623.	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट -360002, (गुजरात)।
624.	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा-काम्पलेक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला-सागर, मध्य प्रदेश।
625.	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब।
626.	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली-110 003.
627.	जनसेवक समाज पार्टी	159, बुद्धाश्रम, तापा रोड, मोहल्ला-खेरा, फिरोजाबाद-283203 (उत्तर प्रदेश)।
628.	जनतंत्र पार्टी	तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी - 221002. उत्तर प्रदेश।

629.	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
630.	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुहम्,	नं0 171, केशवईगुंटा, निकट - एस0 जी0 एस0 आर्ट्स कॉलेज, तिरुपति - 517501, जिला - चित्तूर, आंध्र प्रदेश
631.	जवान किसान मोर्चा	क्वार्टर नं0 एल0 आई0 जी0, एच0-1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्द्रवा), आरा, बिहार-802312.
632.	जेबामणि जनता	नं0 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004. तमिलनाडु।
633.	झारखण्ड अनुषीलन पार्टी,	ग्रा0 व पो0 आफिस झिलीमिली, थाना - बरीकुल, जिला-बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल-722135
634.	झारखंड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं0 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर-831005, झारखण्ड।
635.	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, रांची-834001, झारखण्ड।
636.	झारखण्ड जनाधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउण्ड, रांची-834001, झारखण्ड।
637.	झारखण्ड जनाधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, रांची-834001, झारखण्ड।
638.	झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, रांची-1, (झारखण्ड)।
639.	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	शुक्ला कॉलोनी, पोस्ट हिन्, रांची जिला, रांची-834002.(झारखण्ड)।
640.	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिन्, रांची, झारखण्ड-834002.
641.	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान-रधुनाथपुर, पो.ऑ.-झाड़ग्राम, जिला-मिदनापुर-721507, (पश्चिम बंगाल)।
642.	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो.ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु0स्टे0-गोविन्दपुर, जिला-सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड।
643.	झारखण्ड वनांचल कॉंग्रेस	5, रातू रोड, रांची-834005, झारखण्ड।
644.	झारखण्ड विकास दल	10, ए.पी.एन. बोस कम्पाउण्ड, रांची-834001 (झारखण्ड)।
645.	ज्वाला दल	मकान संख्या - 247 बी, मु0 - जंगल तुलसीराम, पो0 - बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना - शाहपुर, जिला - गोरखपुर - 273014, उत्तर प्रदेश।
646.	कैविनयगेर मुन्नेत्र कड़गम	श्री विश्वेश्वर भवनम्, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई-600010 (तमिलनाडु)।
647.	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट-4, भूवनेश्वर-751 001, खुर्दा, उड़ीसा।

648.	कामराजार अदितनार कड़गम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुथुकुदिइरुप्पु, नागेरकोइल-629001 (तमिलनाडु)।
649.	कामराजार देसीया काँग्रेस	7-वैलायुथा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई-600028 (तमिलनाडु)।
650.	कामगार समाज दल	मकान नं० 9/237, मोहल्ला: रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला-आजमगढ., उत्तर प्रदेश।
651.	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	चिल्ला रॉय भवन, गाँव-बिधानपल्ली, डाक घर-कदमताला, जिला-दार्जिलिंग-734433, पश्चिम बंगाल।
652.	कांची अरिगेर अन्ना द्रविड़ मक्कल कड़गम	नं० 10ए, नाथम मेट्टु स्ट्रीट, चेंगलपट्टु, (तमिलनाडु)।
653.	कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर-560053, (कर्नाटक)।
654.	कन्नड़नाडु पार्टी	54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेशवर नगर, गोकुल रोड, हुबली - 580030, कर्नाटक।
655.	कन्नड़ पक्ष	नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलौर-560053 (कर्नाटक)।
656.	कर्नाटक जनता पक्ष	संख्या 29, प्रथम तल, तृतीय क्रॉस, प्रथम मेन, रामंजनेय लेआउट, चिक्कल्लासांद्रा, बैंगलोर-560061 कर्नाटक।
657.	कर्नाटक क्रान्ति दल	नं० 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ फ्लास, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी.टी.एम.(ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर-560076(कर्नाटक)।
658.	कर्नाटका मक्कला पक्खा	एच०ओ० नं० 09, ब्लॉक-4 जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक-570011
659.	कर्नाटक राज्य र्योता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर-560098 (कर्नाटक)।
660.	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं० 2082, चिदाम्बर क्रुपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक-591317.
661.	कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम	नं. 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड, क्रास शिवाजी नगर, बंगलौर-560051, (कर्नाटक)।
662.	करुनाडू पार्टी	सा. 13/2, नं० 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बैंगलौर-560056 कर्नाटक।
663.	केरल काँग्रेस	67, कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो०ओ० एरनाकुलम, केरल।
664.	केरल काँग्रेस (बी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम-695001, (केरल)।

665.	केरल काँग्रेस(जेकब)	वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी.बी. रोड, कोट्टायम, (केरल) ।
666.	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कोट्टायम-1, केरल ।
667.	केरला जनपक्षम	पुरा-36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी0 ओ0, थिरुवनन्थापुरम-695012.
668.	केरल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (बेबी जॉन)	बेबी जॉन षण्मथाबा, पूरथी मेमोरियल बिल्डिंग, चावरा, पो0 ओ0 - 691 583, कुलांगरा भगोम, कोल्लम, केरल ।
669.	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव -425001.
670.	खासी फार्मर्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मालकी चीनापट्टी, शिलांग-793001, मेघालय ।
671.	खुन हिन्दूट्रिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	द्वारा खासी स्टूडेंट यूनिन का कार्यालय, जैव चापेल रोड, शिलांग-793002, मेघालय ।
672.	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203, मरकज व्यू, द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुम्बई-400103 महाराष्ट्र ।
673.	किसान क्रान्ति दल	नागला सुखदेव, नीमखेरा-जलेसर, जिला-एटा, (उत्तर प्रदेश) ।
674.	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव-जेतपुर, पोस्ट-फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश ।
675.	किसान मजदूर बहुजन पार्टी	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
676.	किसान नौजवान पार्टी	राजेन्द्र नगर, करमेट रोड, ओरई, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश ।
677.	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भूड, पो0-पतरिया, तह0-गुन्नौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
678.	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट-धाखेरवा नानकर, तहसील-निघासन, जिला-लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश ।
679.	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
680.	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील-सदर, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
681.	किसान विकास पार्टी	अब्दुल पुंरा, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
682.	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
683.	किशोर राज पार्टी	एल-2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
684.	कौंगू नाडु मुनेत्र कड़गम	320, बेस्ट कॉम्प्लेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर-641601, कोयम्बटूर (जिला), तमिलनाडु ।
685.	कोसल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदी पाड़ा, बालेनगिर-767001, उड़ीसा ।

686.	कोसल पार्टी	जी.एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर-768004, (उड़ीसा)।
687.	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो0 व जिला-खगड़िया, बिहार-851204.
688.	क्रान्ति दल	132, बाबुगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
689.	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर0 एन0 काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
690.	क्रान्ति परिषद्	म0 नं0 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
691.	क्रान्तिकारी बेरोजगार पार्टी	म0नं0 86, विनोबा वाई, वाई नं0 6, जैन मन्दिर के पीछे, गवर्मेन्ट गर्ल्स स्कूल रोड, सिहोर, जिला-जबलपुर, 483225, (मध्य प्रदेश)।
692.	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे0 के0 रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश।
693.	क्रान्तिकारी मनुवादी मोर्चा	एफ-62, सैक्टर-11, नोएडा-201301, (उत्तर प्रदेश)।
694.	क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी लोहिया	18/22, ताशकन्द मार्ग, मूलचन्द यादव चौराहा, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।
695.	क्रान्तिकारी समता पार्टी	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश।
696.	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं0 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
697.	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौळ - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।
698.	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।
699.	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेग, कवाकेलथेल, पो.ऑ.-इम्फाल, पिन-795001. (मणिपुर)।
700.	लेबर एंड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।
701.	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.
702.	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया (बी.बी. प्रसाद)	बी-5, कांति नगर, दिल्ली-110051.
703.	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं0 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
704.	लेबर विकास पार्टी	1407, न्यू प्रीत नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना (पंजाब)।
705.	लघुजन समाज विकास पार्टी	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
706.	लैराम पीपुल पार्टी	मुख्यालय-लावंगलाई, पो.ऑ. लावंगलाई-796891, (मिजोरम)।

707.	लाल मोर्चा	आर० जेड० सी०-113, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली -110018.
708.	लट्टिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश) ।
709.	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20, भारतीय नगर, अल्लामप्पापुरम, कराईकुड्डी-630003, तमिलनाडु ।
710.	लाइफ पीसफुल पार्टी	सर्वधर्म भवन, हिन्दु-मुस्लिम विश्वशान्ति आश्रम एवं कौमूसोहार्द, विश्वशान्ति, सर्वधर्म आश्रम ट्रस्ट, राजनगर, पूना-बंगलौर रोड, टुमकुट-572106, (कर्नाटक) ।
711.	लोक आवाज दल	होल्लिंग नं० 20/11, सर्किल नं० 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना - 800002, बिहार ।
712.	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब) ।
713.	लोक भारती	88/703, मोती लाल नगर, नं०-1, गोटे गाँव (पश्चिम), मुम्बई-400 104, महाराष्ट्र ।
714.	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
715.	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी - 221 002, उत्तर प्रदेश ।
716.	लोक हित पार्टी	बस्ती अब्दुलापुरा, लुधियाना-3, (पंजाब) ।
717.	लोक जनविकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-रॉची, रॉची-834001, झारखण्ड ।
718.	लोक मानवाधिकार पार्टी,	सी. 32/27-16 ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्तपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश ।
719.	लोक परित्राण	“सौभाग्य” 12-13 तिलक नगर-II, महामन्दिर, जोधपुर-342 010, राजस्थान ।
720.	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत, हरियाणा ।
721.	लोक राज्य पार्टी	221/20, गीत गुब्बन सोसाइटी, सैक्टर-2, चारकोप, कन्डीवली पश्चिम, मुम्बई-400067, महाराष्ट्र ।
722.	लोक सत्ता पार्टी	5-10-180/ए और ए-1, बैंडलाइन, आदर्श नगर, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश ।
723.	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.
724.	लोक शक्ति	83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
725.	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
726.	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली-110 007.

727.	लोको समिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम ।
728.	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.
729.	लोकसंग्राम	एच0 नं0 1321, लेन नं0 4, धुले-424001.
730.	लोकसेना	63/एच0/एस0, मदनमोहन बर्मन एस्टेट कोलकता-700007, पश्चिम बंगाल ।
731.	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं0 नं0 67, प्लॉट सं0 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं. 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र ।
732.	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
733.	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मजिल, आजाद नगर, बांदा, उत्तर प्रदेश ।
734.	लोकतांत्रिक जन समता पार्टी	सी. 7/166, यमुना विहार, दिल्ली-110053.
735.	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला-सिवान, बिहार-841231.
736.	लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल प्रदेश	212, जवाहर सदन, शिमला-171004, हिमाचल प्रदेश ।
737.	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	25, गोपाल पार्क, माया सिनेमा रोड, कुबेर नगर, अहमदाबाद, गुजरात ।
738.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002.
739.	लोकतांत्रिक समता दल	डी0-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार ।
740.	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी0के0 खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं0-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश ।
741.	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी,	बी-103, सपना अपार्टमेन्ट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार ।
742.	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	डी-351/12, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092.
743.	एम.जी.आर. कड़गम	11-सदाशिवम स्ट्रीट, गोपालापुरम, चेन्नई-600086.(तमिलनाडु) ।
744.	एम.जी.आर. मुन्नेत्र कड़गम	कोन्न्ट हाई रोड (केनाल एरिया) ओट्टेरी, चेन्नई-600012, (तमिलनाडु) ।
745.	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं0 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
746.	मानीला कोंगु पेरावाई	नं0 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु ।

747.	मातृ भूमि रक्षा दल	205, बी-30, प्रकाश ट्रेड सेंटर, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092.
748.	मध्य प्रदेश किसान मजदूर आदिवासी क्रान्ति दल	विधायक विश्राम गृह, कमरा नं० 95, भाग-III, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश ।
749.	मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक पार्टी	19, दुर्गो कॉलोनी, संजीवनी नगर, गड्डा, जबलपुर-482003, (मध्य प्रदेश) ।
750.	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश ।
751.	महा लोकतंत्र पार्टी	351, निर्मल नगर, पीली कोठी, कीडगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
752.	महाभारत महाजन सभा	प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु) ।
753.	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद, गुजरात ।
754.	महाकौशल विकास पार्टी	“शान्ति कुटीर” 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) ।
755.	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी ढाबा, सेक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा ।
756.	महाराष्ट्र प्रदेश क्रान्तिकारी पार्टी	स्थान/पोस्ट-तालुक कोरेगांव, कोरेगांव, जिला-सतारा (महाराष्ट्र) ।
757.	महाराष्ट्र राजीव काँग्रेस	डा० बाबासाहेब अम्बेडकर नगर, बस स्टॉप के पास, नं० 379 पी.एल. लोखन्डे मार्ग, चेम्बुर, मुम्बई-400089 (महाराष्ट्र)।
758.	महाराष्ट्र सेक्युलर फ्रंट	हिल व्यू, 109, ए/2, वैशाली नगर, (एस टी पी रोड, धारखाडी) दहीसर (पूर्व) मुम्बई-68 (महाराष्ट्र) ।
759.	महाराष्ट्र विकास आघाडी	गोविंदग्रज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र ।
760.	महाराष्ट्र विकास काँग्रेस	स्थान व पोस्ट-जलगांव, जिला-जलगांव-425001 (महाराष्ट्र) ।
761.	महाशक्ति इंकलाब पार्टी	टिगरी, खुशालपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
762.	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
763.	मैं ही भारत	2ए “रायल”, हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ।
764.	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय-मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड ।
765.	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील-अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान ।

766.	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो0-सरवत (वसन्त विहार), पो0-खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001
767.	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश) ।
768.	मक्कल काँग्रेस वजहापट्टियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु ।
769.	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर.के. मुदुट रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु ।
770.	मक्कल मनाडु काची	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पद्मानाभा नगर, अडयार, चेन्नई-600 020, तमिलनाडु ।
771.	मक्कल नालोरीमैक कड़गम (पीपुल्स लिबरल पार्टी)	629, अन्ना सलाई, चेन्नई-600006, (तमिलनाडु) ।
772.	मक्कल शक्ति काची	न्यू नं0 41, पुराना नं0 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु ।
773.	मक्कल तमिल देशम	14, हनुमन्ता रोड, बालाजी नगर, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014, तमिलनाडु ।
774.	मक्कल विलीपुनारु इयाकाम	सीरानामपालयम, पालाकरई-638057, शुडुपाथी (वाया), पेरन्दुरई तालुक, इरोड जिला, तमिलनाडु ।
775.	माना पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ती, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश ।
776.	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं0 53, सिरपुर, जिला-धुलिया (धुले), महाराष्ट्र ।
777.	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.
778.	मानव कल्याण संघ दल	गद्दी स्थान-मेहतवाड़ा, तहसील-आस्था, जिला-सेहोरे, (मध्य प्रदेश) ।
779.	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वार्ड नं0-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड) ।
780.	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.
781.	मानव सेवा पार्टी	सी-6/28, सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016.
782.	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक) ।
783.	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221001
784.	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

785.	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक येगबाम लैकई (साऊथ), 33 के0वी0 इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के0 एम0 टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल -795010 मणिपुर ।
786.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं0 1, टाईप-4, बाबूपाड़ा, इम्फाल-795001, (मणिपुर) ।
787.	मनीथानेया मककल काची	तीसरी मजिल, सं0 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु ।
788.	मनुवादी पार्टी	201, बिरहाना, पाडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश) ।
789.	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम) ।
790.	मरूमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	'त्यागम,' नं0 141, रुक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु) ।
791.	मरूमलारची तमिझाकम	1/19, ओनानगुडी (पी0ओ0), अरिमलम (वाया) पुडुकोटाई जिला, (तमिलनाडु) ।
792.	माक्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया(एस.एस. श्रीवास्तव)	सैदपुर, पटना-800004 (बिहार) ।
793.	माक्सिस्ट कोअर्डिनेशन	115-एम.एल.ए. फ्लैट, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800004, (बिहार) ।
794.	मर्यादी दल	ग्राम पंचायत, छौकरवाड़ा, तहसील-वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान ।
795.	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा ।
796.	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फ्त श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश) ।
797.	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय) ।
798.	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, राजीव नगर(सुतुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
799.	एम जी आर थैंडरकल काची	नं0 4, गाँधी स्ट्रीट, आनन्दापुरम, ईस्ट तम्बरम, चेन्नई-600059, तमिलनाडु ।
800.	मिनिस्टीरियल सिस्टम एबोलिशन पार्टी	25, बुरटोला स्ट्रीट, कोलकता ।
801.	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रॉ रोड काम्लैक्स, मोमिनपुरा, नागपुर - 440018, महाराष्ट्र ।
802.	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हैडक्वार्टर्स, आइजॉल, मिजोरम-796 001 ।
803.	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखड़ी (मगहरा चौराहा), पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
804.	मोमिन कान्फ्रेंस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।

805.	मूल भारती (एस) पार्टी	मं0नं0 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब)।
806.	मूलनिवासी समाज पार्टी,	गौव-मघईपुर, डाकखाना - महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़ - 276137, उत्तर प्रदेश।
807.	मूवेन्दर मुन्नेत्र कड़गम	लेक एरिया, मेलूर रोड, मदुराई-625107, (तमिलनाडु)।
808.	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर,-228155, उत्तर प्रदेश।
809.	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरौली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
810.	मुदीराज राष्ट्रीय समिति	मुदीराज भवनम्, मकान नं0-6-7-537/1, न्यू बोड़गंडा, सिकन्दराबाद-500003, आन्ध्र प्रदेश।
811.	मुक्त भारत	एच-22, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048.
812.	मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।
813.	नारी शक्ति पार्टी	सी/11, सुन्दरधाम रामबागलेन, आफिस एस0वी0रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, महाराष्ट्र।
814.	नाग विदर्भ आन्दोलन समिति	परदेसी तेलपुरा बजेरिया, शुक्ला लॉज के पास, नागपुर-440018. (महाराष्ट्र)।
815.	नागा नेशनल पार्टी	हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर)।
816.	नागालैंड डेमाक्रैटिक पार्टी	पोस्ट बॉक्स नं0-95, दीमापुर, नागालैंड, पिन-797112।
817.	नागरिक चेतना पार्टी,	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
818.	नागरिक एकता दल	बी-15, दीन दयाल नगर, फेज-II, एम0 डी0 ए0, मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश।
819.	नागरिक एकता पार्टी	19/1168, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
820.	नैतिक पार्टी,	314, सिटी सेन्टर, निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
821.	नकी भारतीय एकता पार्टी,	वार्ड नं0-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
822.	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्डई इलम, न्यू नं0 41, ओल्ड नं0 18. 7 कॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु)।
823.	नामाधू मक्कल कांची	नं0 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कम्बा, वेल्लोर-632001, तमिलनाडु।
824.	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।

825.	नेशनल सिटिजन्स पार्टी	फ्लैट नं0 202, श्री रामा निवास, मार्गति टावर्स के पीछे, कुआकाटपल्ली, हैदराबाद-500072, आन्ध्र प्रदेश ।
826.	नेशनल काँग्रेस ऑफ यूथ	पोस्ट बॉक्स नं0 6204, 2ए/37-38, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015.
827.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल) ।
828.	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली ।
829.	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाऊस नं0-ए-8-2, मुत्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक ।
830.	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ. के पीछे, पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान
831.	नेशनल जनकान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली-110030
832.	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश ।
833.	नेशनल लोकमत पार्टी	88/336, चमनगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
834.	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।
835.	नेशनल माइनाॅरिटीज पार्टी	7ए, जंक्शन एस.बी.रोड एवम् बान्द्रा रेलवे स्टेशन रोड, लक्की होटल के सामने, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050, (महाराष्ट्र) ।
836.	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं0 1, जीवन नन्दम, सलिया, के .के .नगर, चेन्नई-600078, (तमिलनाडु) ।
837.	नेशनल पार्टी	रुदेन, बदायूँ-202524, (उत्तर प्रदेश) ।
838.	नेशनल रिपब्लिकन पार्टी	टी-42/6, ओल्ड बैरक्स, चैम्बर कैम्प, मुम्बई-400074, (महाराष्ट्र) ।
839.	नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस,	एम0आई0एस0एफ0ए0, कोडुवली (पी0 ओ0), कोझिकोड डी. टी., केरल-673572.
840.	नेशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
841.	नेशनल स्टुडेन्ट्स पार्टी	16/2 कर्णेशिवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु) ।
842.	नेशनल टाइगर पार्टी	द्वारा राहुल टेलिकॉम सेन्टर, बी-ब्लॉक, शाहबाद डेयरी, डी0टी0सी0 पास सेक्शन, मेन बस स्टॉप के पीछे शाहबाद डेयरी, दिल्ली-110 042 ।
843.	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति, पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन, विद्या धर नगर, जयपुर-302023, राजस्थान ।
844.	नेशनल वेलफेयर पार्टी,	28/18, अन्ना स्ट्रीट सेनगुटाई, कटपाडी, वेल्लोर जिला-वेल्लोर-632007 तमिलनाडु ।

845.	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं०. ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
846.	नेशनलिस्ट चेरीटी कॉंग्रेस	बिशोप हॉउस, गाब्रियल कम्पाउन्ड, पानाविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तमिलनाडु ।
847.	नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	5ए, बेली रोड, इलाहाबाद-211002, (उत्तर प्रदेश) ।
848.	नेशनलिस्ट पीपुल्स फन्ट	एस-8, दिव्या मॉल, टोंक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
849.	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्ध्रा प्रदेश ।
850.	नेटिव पीपुल्स पार्टी	मुख्यालय-गोटे निवास, तीसगांव रोड, कल्याण (पूर्व)-421306, (महाराष्ट्र) ।
851.	नव महाराष्ट्र विकास पार्टी	सी-6, भास्कर दर्शन, अरुणोदय नगर, मुलुन्द पूर्व, मुम्बई-400081(महाराष्ट्र) ।
852.	नव समाज दल,	102-सी, गायत्री नगर, इलाहाबाद-211004 उत्तर प्रदेश ।
853.	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक) ।
854.	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
855.	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी.एस.आई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
856.	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाली खाड़की, गॉव व डाकघर - कसोर, जिला - आनंद, गुजरात ।
857.	नवजवान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड - 822112.
858.	नवोदयम् पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकुरु गाँव, गुन्दुर रूरल मण्डल, जिला-गुन्दुर, आन्ध्र प्रदेश ।
859.	नया दौर पार्टी	ए-406, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
860.	नेहरु जनहित कॉंग्रेस ,	सैनीपुरा मोहल्ला, बादशाहपुर, तहसील व जिला - गुडगाँव, हरियाणा ।
861.	नेलोपा (युनाइटेड)	बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
862.	नेसावालार मुन्नेत्र काची	सं०-34, कोलाडी रोड, थीरुवरकाडू (पो०ऑ०), चेन्नई, तमिलनाडु ।
863.	नेताजी कांग्रेस सेना	रंगा बिल्डिंग, एस० नं०-123, कटराज पो० ऑ०, पूणे-411046, महाराष्ट्र ।
864.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी,	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजहाँपुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।

865.	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश)।
866.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी,	मान होमियोपैथिक मेडिकल सेंटर, निकट महावीर चौक, डी0 सी0 कोठी रोड, संगरूर -148001, पंजाब।
867.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9ए/83, डब्ल्यू. ई.ए. करोलबाग, नई दिल्ली-110005.
868.	न्यू इण्डिया नेशनल मूवमेंट	2, बिगसिटी हाउस, मस्जिद के पीछे, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
869.	न्यू इण्डिया पार्टी	म0 नं0 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश)।
870.	न्यू सोषलिस्ट मूवमेंट,	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज, पो0 ओ0- एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात।
871.	न्यूज काँग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र।
872.	निदया मलिक (एन) पार्टी	242, सिविल लाइन्स, गोण्डा-271001, जिला-गोण्डा, (उत्तर प्रदेश)।
873.	निर्जातिता समाज बिप्लबी पार्टी	गाँव - दुर्गापुर, पो0 -हरीताला (बगुला), पी0एस0-हंसखली, जिला - नदिया - 741502, पश्चिम बंगाल।
874.	निस्साबादा भूटिपक्षम	113, पट्टूकल शापिंग कॉम्प्लैक्स, द्वितीय तल, ईस्ट फोर्ट, त्रिवेन्द्रम फोर्ट, पो0-त्रिवेन्द्रम, केरल।
875.	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
876.	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात।
877.	एन.टी.आर. तेलुगु देशम पार्टी (लक्ष्मी पार्वती)	रोड नं0 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, (आन्ध्र प्रदेश)।
878.	न्यायनिष्ठ प्रजातन्त्र	सैन्ट्रल हैड क्वार्टर और पो0-देवार (गोपेश्वर), जिला-चमोली-246401, उत्तराखण्ड।
879.	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या - 38, प्लॉट संख्या - 36, अजंता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092।
880.	उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी	एम.एल.ए. कॉलोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)।
881.	उड़ीसा काँग्रेस	क्वार्टर नं0 डी.एस. 1/19, एम.एल.ए. कॉलोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर-750001 (उड़ीसा)।
882.	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001,

883.	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट-IV, भुवनेश्वर-751 001, उड़ीसा ।
884.	उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी	यूनिटसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009, (उड़ीसा) ।
885.	पचाई कुडी मक्कल काची	नं0-7, कामराजार स्ट्रीट, पल्लिकरनई, चेन्नई-601 302, (तमिल नाडु) ।
886.	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-II-56, मदनगिर, दिल्ली-110 062 ।
887.	पंचाल मोर्चा	137 बी-1, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049.
888.	पंचायत राज पार्टी	106, पाकेट ए-3, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110034 ।
889.	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	।-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड सिविल लाइन्स, अलीगढ़-202002, उत्तर प्रदेश ।
890.	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।
891.	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल) ।
892.	पार्टी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
893.	पर्वतीय पुनरुत्थान परिषद्	64, फर्स्ट फ्लोर, अधचिनी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016.
894.	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट, कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल) ।
895.	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं0 10 ई, सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा-768001.
896.	पश्चिमबंगा गणतान्त्रिक मंच	फ्लैट नं0 56, ब्लॉक-एच, सी.आई.टी बिल्डिंग, किस्टोफर रोड, कोलकाता-700014, (पश्चिम बंगाल) ।
897.	पश्चिमी प्रजातन्त्र मोर्चा	386, शाहनस्थान, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
898.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
899.	पैट्रियाट	28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु ।
900.	पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश ।
901.	पवित्र हिन्दुस्तान कड़गम	11, हरीश चन्द्र माथुर लेन, नई दिल्ली-110001.
902.	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलैक्स, बड़हलगंज, पो0-बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
903.	पीजेन्ड्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारुडे निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव, दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र) ।

904.	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी.नं0 66.1-3/ए, एस. असूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
905.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट	मुख्यालय-गुवाहाटी, एच.ओ. उदालगिरी, जिला-दारंग बोडोलेण्ड (असम) ।
906.	पीपुल्स जस्टिस पार्टी	“कार असल”, ए-87 कंडासामी सलाई 8वीं. स्ट्रीट, पेरियर नगर, चेन्नई-600028 (तमिलनाडु) ।
907.	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुलेक्स-38, सलेश्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021, उड़ीसा ।
908.	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112,वार्ड नं0 2, मलोट रोड, गीदरबाहा (मुक्तसर), पंजाब-152101.
909.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बॉकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल ।
910.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-‘जे’, अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
911.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक लीग ऑफ इण्डिया	बिल्डिंग नं0 25, फ्लेट नं0 8, चिटनाविसनगर लेआउट, बैरामजी टाउन, मेन्टल हॉस्पिटल के पास, नागपुर-13 (महाराष्ट्र) ।
912.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट	मावलाइ नोगक्वार, शिलांग-793008, (मेघालय) ।
913.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो0 -कोचीन-18, (केरल) ।
914.	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं0 1, महरोली, नई दिल्ली-110030 ।
915.	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411006
916.	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	9/215/22, योजना-3, सैक्टर-9, आवास विकास कॉलोनी, झूंसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211 019.
917.	पीपुल्स पावर पार्टी	पो0 बी0 नं0 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र ।
918.	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाकज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।
919.	पेरुन्थालाईवर मक्कल कॉची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
920.	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
921.	पिछड़ा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
922.	फ्लेक्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी0 ओ0 व टी0 ओ0-कोकड़ाझाड़, जिला-कोकड़ाझाड़, (असम) ।
923.	पोलिटिकल पार्टी ऑफ नेशनल मैनेजमेंट सर्विस	सी-546, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024.
924.	पांडिचेरी मन्नीला मक्कल मुन्नानी	17, कुमारन स्ट्रीट, कामराजार नगर, पांडिचेरी-605001.

925.	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं० 157-158, पॉकेट ई-20, सेक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली-110085.
926.	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता-700 072, पश्चिम बंगाल ।
927.	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम०डी०-26-17/6, एस०आर०टी०आर० एम०सी० एच० चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
928.	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं० - 605/334, वार्ड नं० - 44, मोहल्ला-माड़नपुर(अक्षयवट), थाना-सिविल लाईन्स, जिला-गया, बिहार ।
929.	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-वाटी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304. जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।
930.	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ-226007 (उत्तर प्रदेश) ।
931.	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
932.	प्रजा भारथ पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेन्ट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश)।
933.	प्रजा चैतन्य पार्टी,	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
934.	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
935.	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
936.	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन-40, सरॉयपित्थू ऑशिक, नयागांव (केशरूआ), सीतापुर रोड हरगांव, जनपद-सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
937.	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद-382345 गुजरात ।
938.	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
939.	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार ।
940.	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आस्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश ।
941.	प्रेम जनता दल	म. नं०1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
942.	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा-324005 (राजस्थान) ।
943.	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच० आई० जी०, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

944.	प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडिया	2-सी, कीर्तिनगर नं० 1, वडगांव बुडस्क, पुणे-411041, महाराष्ट्र ।
945.	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट -सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश ।
946.	प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी	मकान नं.- 975,976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस -11, कृष्णा मंदिर के पास, थाना - विजय विहार, दिल्ली - 110086.
947.	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	"द्वारा श्री आर०पी० देव, जेडी-5, खिड़की विस्तार, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017
948.	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश ।
949.	पब्लिक डेवलेपमेंट पार्टी	मुरलीपुर षेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
950.	पब्लिक पार्टी	"इकबाल महल", 234ए, अटाला, इलाहाबाद - 211003 उत्तर प्रदेश ।
951.	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	मकान सं० 43 ग्राम शकलपुर (बी०), जूही तहसील-लालगंज-अझारा, जिला-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।
952.	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काच्ची	सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंडल नगर, पुडुचेरी-605013.
953.	पंजाब जनता मोर्चा	पंज पीर, जालन्धर शहर-144001 (पंजाब) ।
954.	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोद, जिला-मुक्तसर, पंजाब ।
955.	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश) ।
956.	पंजाब प्रदेश विकास पार्टी	मुख्यालय-एच.आई.जी.-970, पी.एच.बी. कॉलोनी, अरबन एस्टेट, फोकल प्वाइंट, लुधियाना (पंजाब) ।
957.	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब ।
958.	पंजाबी दल	मकान नं० बी.वी./30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब) ।
959.	पुराची भारतम	नं० 54, नेशनल हाईवे, पूनामत्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु) ।
960.	पूर्वांचल गण परिषद्	पी.पी. टॉवर-X, प्लॉट नं०-10, सैक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-110 085.
961.	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी, गोरखपुर-273 212, उत्तर प्रदेश ।
962.	पूर्वांचल राज्य बनाओ दल	374, बक्शीपुर, उत्तर पावर हाऊस के नजदीक, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
963.	पूर्वांचल विकास पार्टी	एल-131, गली नं० 5, महीपाल पुर एक्स्पेंशन, नयी दिल्ली-110037.
964.	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु) ।
965.	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई-600002 (तमिलनाडु) ।

966.	पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति-517501 (आन्ध्र प्रदेश)।
967.	कौमी एकता दल	भवन सं० - 228, मो० - अस्तुपुरा, तहसील - सदर, जनपद - मऊ उत्तर प्रदेश।
968.	कौमी जनता दल	9-बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
969.	कौमी पार्टी	930, स्ट्रीट नं० 30/7, जाफराबाद, दिल्ली-110053.
970.	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
971.	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान।
972.	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-331023, राजस्थान।
973.	राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	5/8, विधायक नगर पश्चिम, नई विधानसभा के सामने, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।
974.	राजस्थान वीर सेना	1-8-17 (एस.एफ.एस.), डा० शीला चौधरी रोड, तलवंडी, कोटा-324005 (राजस्थान)।
975.	राजस्थान विकास पार्टी	43, चौद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान)।
976.	राजदल हरियाणा	डी/एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा।
977.	राजीव मक्कल काँग्रेस	नं०-16(पुराना नं०-18), विश्वनाथपुरम, III स्ट्रीट, कोडामबक्कम, चेन्नई-600024, तमिलनाडु।
978.	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं० 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली-110084.
979.	राज्य नौजवान शक्ति पार्टी	गौधीनगर पुलिस थाना के पास, जम्मू, जम्मू व कश्मीर।
980.	राज्याधिकार पार्टी	एच. नं. 10-4-ए/390, एड्डागोद्ला, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश।
981.	रक्षका सेना	नं० 604, वायुनन्दा लेआउट, हैबल, केम्पापुरा, बंगलोर -560024, कर्नाटक।
982.	रामराज्य मार्ग	नं० 17, वीनस कॉलोनी, सेकेण्ड स्ट्रीट, अलवरपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)।
983.	रानी चेन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामवनकट्टी, गडग-582101, कर्नाटक।
984.	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012, राजस्थान।
985.	राष्ट्र हित पार्टी	706/707 एम० के० हाईट्स सीएचएस, बी विंग, सी०टी०एस० नं० 621, एल० वार्ड आफिस के सामने, एस०जी० बार्व मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र।

986.	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी-125, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली - 110024 ।
987.	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001. बिहार ।
988.	राष्ट्र शक्ति	1112, एस/5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा ।
989.	राष्ट्र सुरक्षा परिषद्	कोठी नं० ए-2/79, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063.
990.	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	3-ए, श्याम नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051.
991.	राष्ट्रवादी आर्थिक स्वतंत्रता दल	ई-30, सैक्टर-52, नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -244901
992.	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	बेगायिया का खेड़ा, पो०आ०-बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
993.	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.
994.	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर बासका पो०आ०-धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
995.	राष्ट्रवादी विकास दल	ए-37, सैक्टर-26, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
996.	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश ।
997.	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सैक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085
998.	राष्ट्रवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेंट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
999.	राष्ट्रवादी समता पार्टी	196/187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवां, तहसील-गौरीगंज, जिला - छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश ।
1000.	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली-110032.
1001.	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लॉट नं० - 4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं० 490 020
1002.	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
1003.	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1004.	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता -700 007.
1005.	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-91, कुंवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली-110041.

1006.	राष्ट्रीय अमन सेना	अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवर्दी, मुम्बई, महाराष्ट्र-400043.
1007.	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1008.	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं० 232/81/4 डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1009.	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक-124001, हरियाणा।
1010.	राष्ट्रीय आवामी दल	152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश।
1011.	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
1012.	राष्ट्रीय बहुजन काँग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्स्प्रेसवे, नई दिल्ली-110019.
1013.	राष्ट्रीय बहुजन एकता पार्टी	आलोक नगर, एयर फोर्स, बरेली-243122, (उत्तर प्रदेश)।
1014.	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी०-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली-110034.
1015.	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगद्गुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे-411031 (महाराष्ट्र)।
1016.	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
1017.	राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी	86-बी, डी.डी.ए. प्लैट्स, मस्जिद मोठ, फेज-II, ग्रेटर कैलाश, भाग-III, नई दिल्ली-110 048।
1018.	राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा	सेन्ट्रल ऑफिस-शिवाजी नगर, आबू पर्वत- 307501, जिला-सिरोही, (राजस्थान)।
1019.	राष्ट्रीय काँग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वार्ड सं० 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
1020.	राष्ट्रीय कांग्रेस (जे०) पार्टी	सैधरी, पोस्ट-हरथला, वाया-पाकवड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
1021.	राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी	601, रोहित हाउस, 3-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001.
1022.	राष्ट्रीय देशज पार्टी	दुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन-834012.

1023.	राष्ट्रीय देशभक्त पार्टी	बी-61, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018.
1024.	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
1025.	राष्ट्रीय एकता पार्टी	सी0 एन0-716, तालीवालान, सी0 एन0- ब्लॉक, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली-110005.
1026.	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा।
1027.	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश।
1028.	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर-495223, छत्तीसगढ़।
1029.	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सिविल लाईन्स, रुड़की, जनपद-हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
1030.	राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी	ग्राम-चक्रेशानपुर(केमराला) पो0आ0 घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1031.	राष्ट्रीय गुरुजन पार्टी	गुरुजन विद्याभुवन, दूध सागर मार्ग, राजकोट-3, गुजरात।
1032.	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, ढोली खार, मन्डोला, आगरा (उत्तर प्रदेश)।
1033.	राष्ट्रीय हिन्दु संगठन	30, जाती कालोनी, रामबाग, साईनाथ मन्दिर के सामने, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
1034.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक।
1035.	राष्ट्रीय हित काँग्रेस	712, जी-ब्लॉक, मिलिंदी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.
1036.	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सखीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश।
1037.	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी-290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली-110095.
1038.	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कर्नाट फ्लैट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
1039.	राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर)	71-बी, पॉकेट ए-3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.
1040.	राष्ट्रीय जन संगम	शर्मा कुंज, शिवपुरी, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।
1041.	राष्ट्रीय जन संसद	शक्ति नगर, पुराना जी.टी. रोड, खुरजा, जिला - बुलन्दशहर - 203131, उत्तर प्रदेश।
1042.	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव-नांगला जमालपुर, पोस्ट-पंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1043.	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस-1, पालम, नई दिल्ली-45.
1044.	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गॉव - कृष्णापुर, पोस्ट - धोपाहाट कृष्णापुर, जिला - 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल।
1045.	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं0 567 (38), 60 फीट रोड, गोकुल मथीकेटे लेआउट, बंगलौर-560054, (कर्नाटक)।
1046.	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी,	सोनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो0 आफिस व पुलिस स्टेशन-सोनारपुर, कोलकाता - 700150, पश्चिम बंगाल।

1047.	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतरौल्ल, पो.ऑ. अतरौ, जिला-बाँदा, उत्तर प्रदेश ।
1048.	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं० 75, सेक्टर-17, पंचकुला-134109.(हरियाणा) ।
1049.	राष्ट्रीय जन जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वार्ड नं० 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट-गोपालगंज, बिहार ।
1050.	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम-फतूहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1051.	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं०-10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली-110094.
1052.	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच- II -76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012, उत्तर प्रदेश ।
1053.	राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी	ग्राम-बिर्जापुर, पोस्ट-अडूकी, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
1054.	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना-20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1055.	राष्ट्रीय जनसेवक परिषद्	देवकन्या सदन, वाटर टैंक के पास, त्रिपोलिया रोड, बन्सवाड़ा-327001, (राजस्थान) ।
1056.	राष्ट्रीय जनसेवा-सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वार्ड नं०-23, बल्लभगढ़-121004, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा ।
1057.	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी	(एकलव्य) पोस्ट व गांव-बिंजहोल, तहसील और जिला-पानीपत, हरियाणा-132103.
1058.	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वार्ड चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़-230001, उत्तर प्रदेश ।
1059.	राष्ट्रीय जनता काँग्रेस	ए-4, स्वर्ण सिंह रोड, आदर्श नगर, नई दिल्ली-110033.
1060.	राष्ट्रीय जनता पार्टी,	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर-115, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ।
1061.	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष,	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या विहार मार्ग, सेक्टर - IX, रोहिणी, दिल्ली-110085.
1062.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा-बलिया, उत्तर प्रदेश ।
1063.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल	शुक्ला भवन, बुधापारा, रायपुर-429001, छत्तीसगढ़ ।
1064.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना-800001. (बिहार)
1065.	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर-208 021, उत्तर प्रदेश ।

1066.	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ-226016.
1067.	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788-ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत -131001, हरियाणा।
1068.	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्ता टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा अहमदाबाद-380006, गुजरात।
1069.	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97 डी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088
1070.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय-पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना-800023 (बिहार)।
1071.	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव व पोस्ट - सुल्तानपुर, तहसील - नीलोखेड़ी, हरियाणा - 132116.
1072.	राष्ट्रीय किसान कांग्रेस पार्टी	मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र।
1073.	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गांव व पो-धानौधा, तहसील व जिला-महेन्द्रगढ़, (हरियाणा)।
1074.	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर-361001, (गुजरात)।
1075.	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रज्ञापीठ, लौह पुरुष डा० साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा-207 001, उत्तर प्रदेश।
1076.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.
1077.	राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी,	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी० बी० गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005.
1078.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान सं०-65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1079.	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं०-27 के पास, बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर, उलहासनगर-421 001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।
1080.	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम. - 12, मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।
1081.	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एकजीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
1082.	राष्ट्रीय लोक हितपार्टी	ए-40 /35ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1083.	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक, 21-कस्तूरवा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
1084.	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110 015.

1085.	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस, गोतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)।
1086.	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं०-17, एम.नरेश मुन्ना चौक, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई-400 051, महाराष्ट्र।
1087.	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट - बिजनौर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
1088.	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	मकान सं. 1488, अन्ना नगर, सेक्टर - बी०, पोस्ट - गोविन्दपुरा, भोपाल - 462023, मध्य प्रदेश।
1089.	राष्ट्रीय महासंघ	एन.आर. काम्लेक्स, नगर पालिका ऑफिस के सामने, अजमेर-305001, (राजस्थान)।
1090.	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रूपायातन, एस. वी. रोड। विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र।
1091.	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन -909801, उत्तर प्रदेश।
1092.	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम-गोपालपुर, पो०-आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली-110009.
1093.	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी,	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1094.	राष्ट्रीय मानव कल्याण संघ	280, डी. डी. ए. फ्लैट, पॉकेट- 1, फेज- 1, सेक्टर- 23, द्वारका, नई दिल्ली-45.
1095.	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	एच-16/147, भू-तल, संगम विहार, नई दिल्ली-110 062.
1096.	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं-3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली-110 035.
1097.	राष्ट्रीय मातृभूमि पार्टी	1265-सेक्टर-17सी, गुडगाँव, हरियाणा।
1098.	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं० 57, बुरारी रोड, दिल्ली-110009.
1099.	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं०-57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला-मोहन पट्टी, जिला-गुडगाँव, हरियाणा-122050.
1100.	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी० डी० ए० फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली-110062.
1101.	राष्ट्रीय न्याय पार्टी	कॉलेज रोड देहरी, तहसील नुरपुर, जिला-कांगड़ा, पिन कोड-176022, (हिमाचल प्रदेश)।
1102.	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी- 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007.
1103.	राष्ट्रीय पार्टी	गया प्रसाद धर्मशाला काम्लेक्स चारबाग, सब्जी मंडी, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।

1104.	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला-नवादा-805 110, बिहार ।
1105.	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली-110055.
1106.	राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए.बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
1107.	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं० 38, ग्राम- जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1108.	राष्ट्रीय राजधानी काँग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्केट, नई सड़क, दिल्ली-110006.
1109.	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंक्ज, सैक्टर-22ए, चंडीगढ़ ।
1110.	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1111.	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्केट दुन्दहारा, गुडगाँव-122016, हरियाणा ।
1112.	राष्ट्रीय साकार पार्टी	जी-12, गुप्ता टावर-1, मदर डेयरी के पास, विकासपुरी, दिल्ली-110018.
1113.	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए0, आर0-3/ए0-2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059.
1114.	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल0 डब्ल्यू0 काले, 17-रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई-400001, महाराष्ट्र ।
1115.	राष्ट्रीय समाज सेवक दल	भीरा खीरी, जनपद-खीरी-262901, (उत्तर प्रदेश) ।
1116.	राष्ट्रीय समाज सुधार पार्टी	गांव थंत्री, पो0-घोडी, जिला-फरीदाबाद, (हरियाणा) ।
1117.	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम-बासूपार(बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1118.	राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस	एस0-9/11 बी, प्रेमचंद मार्ग, हुकुलगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1119.	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के.पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1120.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए 104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, गुजरात ।
1121.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेक्टर, अशोक विहार, फेस-II, दिल्ली-110052.
1122.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी “ प्रगतिशील ”	बी-248, मोहन नगर, थालीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश) ।
1123.	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली-110091.
1124.	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, काशीराम नगर, उत्तर प्रदेश ।
1125.	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश ।

1126.	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश ।
1127.	राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी	263, वनारसे निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512, महाराष्ट्र।
1128.	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं०-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गीस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए.के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400 097, महाराष्ट्र
1129.	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना (खुशीपुरा), झांसी-284001, उत्तर प्रदेश ।
1130.	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो० - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1131.	राष्ट्रीय स्वर्ण दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश) ।
1132.	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार, दिल्ली-110051.
1133.	राष्ट्रीय सैक्युलर काँग्रेस	आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्ताला पथ, 5वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।
1134.	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया),	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067.
1135.	राष्ट्रीय सिन्धी काँग्रेस	437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेंटर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1136.	राष्ट्रीय सुराज्य परिषद्	मृदुल टावर, भूतल, कैलाश सोसाइटी, एच.के. हाऊस लेन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, (गुजरात) ।
1137.	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।
1138.	राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी	104-बी० ब्लॉक, दारुलशफा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1139.	राष्ट्रीय स्वजन पार्टी	घाघा घाट रोड, मलेरिया कार्यालय के पास, महेन्दु, पटना-800006, (बिहार) ।
1140.	राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल	3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आज़मगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश ।
1141.	राष्ट्रीय उन्नतिशील दल	एफ. 167, चांद बाग कॉलोनी, पो०-गोकुलपुरी, दिल्ली-110094.
1142.	राष्ट्रीय विकास पार्टी	ई-86ए, विश्वकर्मा कॉलोनी, नई दिल्ली-44.
1143.	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी,	114, डी० डी० ए० पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110045.

1144.	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश ।
1145.	राष्ट्रीय युवा लोकतांत्रिक पार्टी	चैम्बर नं0 461, न्यू चैम्बर काम्पलेक्स, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली-110001.
1146.	राष्ट्रीय युवा संघ	ई - 83, गली नं0 4, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली - 110096.
1147.	राष्ट्रोत्थान पार्टी	आर्य समाज, किसनपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान ।
1148.	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	मकान नं0 606, रुद्रा नगर, जिला-सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश ।
1149.	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं0 22/160, वसन्थपेटा, कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्दातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
1150.	रिपब्लिकन बैकवर्ड कॉंग्रेस	प्लॉट सं - 04, गली संव-1, वार्ड संव-1, एमव् सीव्-कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा ।
1151.	रिपब्लिकन जनता पार्टी	डी-29, गांधी विहार, डी.डी.ए. कॉलोनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009.
1152.	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं0-236, 7वीं माइल चुमुकेडिमा, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स-354, नागालैण्ड ।
1153.	रिपब्लिकन मुवमेंट	पो0बो0 नं0 117, तादोबारोड़, तुकुम, चन्द्रापुर, -442401, महाराष्ट्र ।
1154.	रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)	ईसा हटमेंट्स, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।
1155.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	ई.एन.एस.ए. हटमेंट, आई-ब्लॉक, महापालिका मार्ग, आजाद मैदान, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।
1156.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटुर-413512 (महाराष्ट्र) ।
1157.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)	11/174, आदर्श नगर, प्रभादेवी, मुम्बई-400025, (महाराष्ट्र) ।
1158.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, (तमिलनाडु) ।
1159.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
1160.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए)	1/16, संजय काम्पलेक्स, टी0 टी0 नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश) ।
1161.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1162.	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	उरुली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र) ।
1163.	रिवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल ।

1164.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो0 आ0, तिरुवनन्थापुरम, पिन कोड-695014.
1165.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहोदरा, समाजम रोड, चेद्वीकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)
1166.	सबजन पार्टी	सी-1/50, यमुना बिहार, दिल्ली-110053.
1167.	सबका दल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	एन-14/169, सरईनन्दन (खोजवा), वाराणसी-221010, (उत्तर प्रदेश)।
1168.	सचेत भारत पार्टी	13/ए/5, शिवाजी नगर, नं0 1, गोवन्दी, मुम्बई-43, (महाराष्ट्र)।
1169.	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं0-276, दोरन्डा, रॉची, झारखण्ड।
1170.	सद्भावना पार्टी	कमरा नं0 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018, (उत्तर प्रदेश)।
1171.	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवा डिस्पोजल कौम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋशिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201.
1172.	शक्ति भारत देशम	सं0 2/58, वैरावन चेद्वी स्टोर, पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-625001, तमिलनाडु।
1173.	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं0 1-39-बी(कम सं0 1026ए), चायापुरम गॉव, वज्राकरूर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश-515842.
1174.	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
1175.	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा)।
1176.	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट-गोपालगंज-841428, जिला-गोपालगंज (बिहार)।
1177.	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।
1178.	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी0 रोड., बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल।
1179.	समाजवादी युवा दल	3/19-सी/2, सीताकुंज, सिविल कोर्ट के पीछे, सिविल लाइन्स, आगरा, उत्तर प्रदेश।
1180.	समाजवादी जन परिषद्	जय माल्हा प्रसाद, टेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम)-400601, (महाराष्ट्र)।
1181.	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	14, डॉ0 विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
1182.	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या 21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं0-2, कब्बनपेट, मैन रोड, उल्सूर गेट, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002. कर्नाटक।

1183.	समाजवादी जनता पार्टी (महाराष्ट्र)	बैरक नं० 4, यशोधन दिनशा वाचा रोड के पीछे, चर्च गेट, मुम्बई-400020, (महाराष्ट्र)।
1184.	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)	नरेन्द्र निकेतन, पुलिस मुख्यालय के पीछे, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.
1185.	समाजवादी कान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1186.	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक - मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील - चायल, जनपद - कौषाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1187.	समता पार्टी	220, विट्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
1188.	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1189.	समता समाज पार्टी	पाडव थाने के सामने, लक्ष्मणपुरा, पो० लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
1190.	समता संघर्ष पार्टी	618-एफ-2/2/1, शंकर गली, विश्वास नगर, दिल्ली-110032.
1191.	सम्पूर्ण विकास दल	88, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-11.
1192.	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नं० एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
1193.	समता समाजवादी काँग्रेस पार्टी	सी-4/350, सराय गोवर्धन, चेतगंज, वाराणसी-221010, उत्तर प्रदेश।
1194.	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम्, चैन्नई-600041, तमिलनाडु।
1195.	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
1196.	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम तराँव, पो. थाना एवं तहसील-कोराँव, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1197.	संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी-205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली-110002.
1198.	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282 004, उत्तर प्रदेश।
1199.	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट- खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
1200.	सर्वहिन्दू शिरोमणी अकाली दल	103, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, पटियाला (पंजाब)।
1201.	सरदार पटेल काँग्रेस पार्टी	7/17, (द्वितीय तल), कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.
1202.	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
1203.	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस रु 17, जावाली (ग्राम), पिलंगिरी (पोस्ट), शिमोगा (तालुक), जिला-शिमोगा-577 227, कर्नाटक।

1204.	सर्व समाज विकास पार्टी	बाम्बा रोड, सैलाई, पो0ओ0-सैलाई, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1205.	सर्व सेवा पार्टी	बी-51, प्रताप विहार, पार्ट-3, नांगलोई, दिल्ली-110041.
1206.	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	सी-44, पद्मनाभ नगर, भोपाल-462023, (मध्य प्रदेश) ।
1207.	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारुलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1208.	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार-800020.
1209.	सर्वजन समाज पार्टी (डी),	ग्राम व पोस्ट आफिस -वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला-गुरुदासपुर,-143511 पंजाब ।
1210.	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी,	सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1211.	सर्वहारा दल	केवला फरियद्ला, बाया-गिधौर, जिला-जमुई, (बिहार) ।
1212.	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	“अनिकेतना”, प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गौधीनगर, बैंगलोर-560 009, (कर्नाटक) ।
1213.	सर्वोदय पार्टी	पी-3, यूनिवर्सिटी कैम्पस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर-302004, (राजस्थान) ।
1214.	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी-221 005, उत्तर प्रदेश ।
1215.	सत्य मेव पार्टी	548, रामदास पाटे, नागपुर-10, (महाराष्ट्र) ।
1216.	सत्य विजय पार्टी	101-सी, प्रेस हाऊस, 22, फिरोज गौधी प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा-मुम्बई रोड, इन्दौर-452008, मध्य प्रदेश ।
1217.	सत्यवादी पक्ष	कमरा संख्या - 4-5, ओरायान कॉम्पलेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र ।
1218.	सत्ययुग पार्टी	फ्लैट नं0 203, बिल्डिंग नं0 6-4-323/ए, विवेक वंशी रेजिडेन्सी, मेकाला मंडी रोड, भोलकपुर, सिकन्दराबाद-500080, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1219.	सत्ययुग पार्टी	ग्राम -सूखा टोला, डुमरी, पोस्ट- कसया, जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ।
1220.	सर्वण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
1221.	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	साई भवन, स्वामी धर्मदास दरबार के सामने, स्वामी धर्मदास नगर, ओ0 टी0 सेक्शन, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।

1222.	सेक्युलर नेशनल द्रविड पार्टी	6-2-44/3ए, जमीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001 आन्ध्र प्रदेश ।
1223.	सेक्युलर नेशनल द्रविड पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर, मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, केरल ।
1224.	सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं0नं0 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
1225.	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
1226.	शक्ति दल	ए-4, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065.
1227.	शक्ति सेना (भारत देश)	सिम्री भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़-492015.
1228.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।
1229.	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो0 आ0 तेल्लानिमा, जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.
1230.	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9, हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
1231.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलौ)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।
1232.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं0 31, पो0 खाकुर्दी, तालुक-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।
1233.	शिवराज्य पार्टी	6-ए, भूमि तल, सर्वोदय ट्रस्ट बिल्डिंग, गोखले रोड दक्षिण, दादर पश्चिम, मुम्बई-400028, महाराष्ट्र ।
1234.	शोषित समाज दल	सैंटर ऑफिस:-दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
1235.	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल) नई दिल्ली-110003.
1236.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) ।
1237.	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश ।
1238.	शुभा कर्नाटक	एम0आई0जी0-II, नं0 129, हुडको कॉलोनी, बस डिपो के पीछे, जागरथ अंजनय मन्दिर के निकट, गडग-582103.
1239.	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिंगटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम) ।
1240.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद् पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0- दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम ।
1241.	सिक्किम जनशक्ति पार्टी	रानीपूल मार्चक, चाकुंग हाउस, पो.ऑ.-रानीपूल, गंगटोक, (सिक्किम) ।
1242.	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम - 737126
1243.	सिक्किम नेशनल लिबरेशन फ्रंट	31-ए, नेशनल हाईवे, पो.ऑ.-गंगटोक, (सिक्किम) ।
1244.	सिक्किम संग्राम परिषद्	संग्राम भवन, जीवन थींग मार्ग, गंगटोक, (सिक्किम) ।
1245.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहुन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।

1246.	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, चेरावल-362265, (गुजरात)।
1247.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
1248.	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुड़गांव - 122002, हरियाणा।
1249.	सोशल एक्शन पार्टी	मडलाकल हाऊस, रावनी, पठानामटिद्ला जिला, पिन-689072, (केरल)।
1250.	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया,	8/2, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, हास्पिटल रोड, भोगल, नई दिल्ली-110014
1251.	सोशल जस्टिस पार्टी	नं0 73, इल्लैअमन कॉलोनी, तेयनामपेट, चेन्नई-600086, (तमिलनाडु)।
1252.	सोशलिस्ट जनता (डेमोक्रेटिक)	6/924-बी-1, कालीकट हाउस कन्सट्रक्शन सोसायटी बिल्डिंग, वाई0एम0सी0ए0 क्रॉस रोड, कालीकट-673 001, केरल।
1253.	सोशलिस्ट जनता पार्टी,	एक्स.बी-1, साह विकास अपार्टमेंट, पटपडगंज, दिल्ली-110092.
1254.	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ0 तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1255.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्धीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
1256.	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, द्यूटर्स, लेन, स्ट्रेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल)।
1257.	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट),	48 - लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता - 700013, पश्चिम बंगाल।
1258.	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं0 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर।
1259.	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम:फतेहपुर, पोस्ट:कटोना, थाना-फूलपुर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1260.	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665।
1261.	स्वाभिमानी पक्ष	जयसिंगपुर, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
1262.	स्वच्छ भारत पार्टी	साई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान।
1263.	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा), पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1264.	स्वराज दल	नं0-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह।

1265.	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192।
1266.	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226 024, उत्तर प्रदेश।
1267.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश।
1268.	सर्वण महासभा	मो0 इस्लामाबाद, पो0 मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।
1269.	स्वर्ण युग पार्टी	नं0 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बैंगलोर-560094, कर्नाटक।
1270.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश।
1271.	स्वतंत्र भारत पक्ष	"राही", खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र)।
1272.	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002.
1273.	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - लेभरी, थाना - दरौली, प्रखण्ड/अंचल - मैरवा, सिवान - 841239, बिहार।
1274.	ताई नाडु पार्टीट	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बैंगलूरु-560001 कर्नाटक।
1275.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007, (तमिलनाडु)।
1276.	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं.2, सैकेंड स्ट्रीट, सैकेंड पुदुनगर, कनुपेट, विलियानूर, पाण्डिचेरी।
1277.	तमिल मानिला कामराज काँग्रेस	मार्फेट एफ0बी0 बेन्जामिन जॉर्ज, वकील, न0 17, डूमिंग गली, सनथोम, चेन्नई-600004, तमिलनाडु।
1278.	तमिल मनिला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु।
1279.	तमिलनाडु देसीया ग्रामीया थोड़िलालर काँग्रेस	5/58, मनियम बिल्डिंग थ्रीटीपालयम पोस्ट, कोयम्बटूर-641010, (तमिलनाडु)।
1280.	तमिलनाडु मक्कल काँग्रेस	310, बी ब्लॉक, बूपति नगर, चेन्नई-600024, (तमिलनाडु)।
1281.	तमिलनाडु पीजेन्ड्स एण्ड वर्क्स पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु)।
1282.	तमिलनाडु पीपुल्स पार्टी	16/2, के.पी. स्ट्रीट, मइलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु)।
1283.	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
1284.	तमिलार कडगम	180, लोगली रोड, शेवापेट, सलेम-636002, (तमिलनाडु)।

1285.	तमिलीना विद्याल पुलिकल इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई-625 016, तमिलनाडु ।
1286.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयड्स रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु ।
1287.	तामिज़ागा मक्कल जननायगा काच्चि	वनाविल ईलम, संख्या 9 पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु ।
1288.	तमिज़ागा मुन्नेत्र मुन्नानी	नं० 152 ए, नार्थ-उस्मान रोड, टी नगर, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु) ।
1289.	तमिज़ागा राजीव काँग्रेस	6-II, मेन रोड, राजा अन्नामलाई पुरम, चेन्नई-600028, (तमिलनाडु) ।
1290.	तमिज़ार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु) ।
1291.	तराई क्रान्ति दल	21/2, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1292.	तेलंगाना कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं०-4, ब्लॉक-18, एम० आई० जी० फेज-II, बाघ लिंगम-पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1293.	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, प्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलघेरी, सिकन्दाबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश ।
1294.	तेलंगाना प्रजा पार्टी	“अनन्त निलयम्”, द्वार सं० 14-9-519, चूड़ी बाजार दरगाह, हैदराबाद-500012, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1295.	तेलंगाना प्रजा समिथि (किशोर, राव और किशन)	मकान नं० 10-4-108, गिरमाजीपेठ, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
1296.	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म० नं० 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्विलयर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव)व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश ।
1297.	थयागा मक्कल काची	7, वाई.बी.डी. काम्पलैक्स, चतीराम बस स्टैंड, तिरुचिरापल्ली-620002, (तमिलनाडु) ।
1298.	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं०-50, रोड नं०-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश ।
1299.	थमिलार भूमि	5, डा. सर.सी.बी. रमण, फर्स्ट स्ट्रीट कुमारन नगर, तिरुचिरापल्ली-620017, (तमिलनाडु) ।
1300.	थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम्,	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.
1301.	थरासु मक्कल मंदरम	14-सैत कॉलोनी, फर्स्ट स्ट्रीट, इगमोर-600008, (तमिलनाडु) ।

1302.	दि कनज्यूमर पार्टी ऑफ इंडिया	देशमुखवाडी काम्पलेक्स, पी0के0 रोड और जावेर रोड जंक्शन मुलुन्ड(पश्चिम), मुम्बई-400080, महाराष्ट्र ।
1303.	दि ग्रेट इंडिया रिवोल्यूशनर्स	4/55, रूप नगर, दिल्ली-110007.
1304.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ता कुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र) ।
1305.	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवोल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल) ।
1306.	थेसिया जननायक मक्कल काची	ब्यू नं0 2, ओल्ड नं0 33, सैकिंड क्रॉस स्ट्रीट, वैस्ट सी0आई0टी0 नगर, नन्दनम, चेन्नई-600035, (तमिलनाडु) ।
1307.	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र) ।
1308.	थोन्डर काँग्रेस	40-वेंकटनायण रोड, त्यागरायानगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु ।
1309.	थोझीललार पार्टी,	नं0 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, कोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु ।
1310.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बैंगलूर-560026, कर्नाटक ।
1311.	टोला पार्टी	मकान सं0 - 56, वार्ड सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा ।
1312.	ट्राइबल पीपुल पार्टी	170, लिंगी चाद्री स्ट्रीट, चेन्नई-600001, (तमिलनाडु) ।
1313.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश ।
1314.	त्रिलोक शक्ति काँग्रेस भारत	49-डी, त्रिवेणी नगर, नैनी, उद्योग नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1315.	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुटी चरीएली, गुवाहाटी-781006, असम ।
1316.	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0एम0 नगर पोस्ट, चेन्नई-600062, तमिलनाडु ।
1317.	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फ़्त देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाड़ा, गुवाहाटी, (असम) ।
1318.	यूनाइटेड सिटीजन पार्टी	डी-29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
1319.	यूनाइटेड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29/116, गली नं0-10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110 032.
1320.	युनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना-800004, बिहार ।
1321.	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एक्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा)-403601 ।

1322.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्नामादूम मूझूर, पो.ऑ. कोटायम, जिला (केरल) ।
1323.	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं० 1205, II-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक) ।
1324.	यूनाइटेड माइनोंरिटीज फ्रंट, असम	उलुबारी, गुवाहाटी-781007, (असम) ।
1325.	यूनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं०. 7, एग्गे स्कूल के पास, चुमुकेडिमा-797103, दीमापुर-797112 (नागालैण्ड)
1326.	यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी-786, जैतपुर विस्तार, पार्ट-II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
1327.	यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेंजेंसी बिल्डिंग, आर.के.बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम-786001
1328.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर-795001.
1329.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस.एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी-781001, असम ।
1330.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो० बॉ. नं० 2, पो०-रेहाबाड़ी, गुवाहाटी-781008, (असम) ।
1331.	यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2/104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस०आर०ए० गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई-400024, महाराष्ट्र ।
1332.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुटी, हरिसिंह, दारंग-784510, (असम) ।
1333.	यूनाइटेड वूमन फ्रंट	4, कृष्णा मैनेन मार्ग, नई दिल्ली-110011.
1334.	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ-15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली-110011.
1335.	उरिमई मीटपू कड़गम	न्यू नं०-10ए, कृष्णा स्ट्रीट, ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई-600045, जिला-कांची, तमिलनाडु ।
1336.	उर्स संयुक्त पक्ष	नं० 46, पैलेस रोड, बंगलौर-560001, कर्नाटक ।
1337.	उत्कल भारत	प्लॉट नं० 296/2624, स्थान-गोविन्दा प्रसाद,ईस्ट कनाल रोड, ट्विन ब्रिज के सामने,पो० ऑ०-जी० जी० पी० कॉलोनी, भुवनेश्वर-751010, उड़ीसा ।
1338.	उत्कल समाज,	आनन्दायन, प्लॉट नं० 567/2 कानन विहार, फेस-2, भुवनेश्वर-751031 उड़ीसा ।
1339.	उत्तर प्रदेश जन मानस पार्टी	ए-1445/6, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, (उत्तर प्रदेश) ।
1340.	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश) ।
1341.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	38-रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1342.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो०ऑ० माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
1343.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	85/12-बी, नाश विला रोड, देहरादून-248001, (उत्तराखण्ड) ।

1344.	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला – चमोली, उत्तराखण्ड ।
1345.	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं० 1, ग्राम-नौका (दौड़ावाला), पोस्ट-मोथरोंवाला, विकासखण्ड-रायपुर, जिला-देहरादून, (उत्तराखण्ड) ।
1346.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी-355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली-110092.
1347.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेन्ट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कत्वा, बेला रोड, कत्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र-400605.
1348.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53-के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
1349.	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड ।
1350.	उझैण्डलर काची	70-डी, पलानीसामी स्ट्रीट, वाणीयामबाडी रोड, तिरुपत्तूर-635601. वेल्लोर जिला, तमिलनाडु ।
1351.	उझैण्डलर पोथु नालाकाची	तिरुपत्तूर-वेल्लोर जिला, तमिलनाडु-635601.
1352.	वंचित जमात पार्टी	एन-106, एच.आई.जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर-23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1353.	वंचितसमाज इंसाफ पार्टी,	39, आदर्श नगर, द्वारा – डॉ० शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
1354.	विदर्भ जनता काँग्रेस	अन्तर भारती आश्रम, डाभा, वायुसेना नगर के पीछे, अमरावती रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) ।
1355.	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए० सेक्टर फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाड़ा रोड, नागपुर-13, महाराष्ट्र ।
1356.	विदर्भ राज्य मुक्ति मोर्चा	ए टाइप, सुखकर्ता अपार्टमेन्ट, बलराज मार्ग, धनताली, नागपुर-440012, (महाराष्ट्र) ।
1357.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर-3, महाराष्ट्र ।
1358.	विधायक दल	एच०आई०जी०-205, सेक्टर-1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1359.	विदुथलाई चिन्थईगल काची	नं०-16, चिन्थईया गली, टी-नगर, चेन्नई-17, तमिलनाडु ।
1360.	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं०-11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।
1361.	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर-635802, जिला- वेल्लौर, तमिलनाडु ।
1362.	विजेता पार्टी	501, अभिषेक प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, (बिहार) ।
1363.	विकास परिषद्	62-ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट-133001, हरियाणा ।

1364.	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दाखल सफा कम्पाउंड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1365.	विकासवादी कम्युनिज्म पार्टी	मखदुमपुर रोड, मवाना कलां-250401, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
1366.	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेज़लपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
1367.	विश्व विकास संघ	एफ-53/एफ-1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095 ।
1368.	विश्व माया पॉलिटिकल पार्टी	6 डी-6-18(हाऊस नं0), मारकडेश्वर, स्वामी टैम्पल के पास, साऊदर्न स्ट्रीट, इलुरु-534001, जिला पश्चिम गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश ।
1369.	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतिरामेश्वर-603406, (तमिलनाडु) ।
1370.	वॉलन्टरी इंडियन पीपुल पार्टी हरियाणा	म0 न0-363, प्रथम तल, स्ट्रीट नं0-9, जवाहर नगर, हिसार, हरियाणा ।
1371.	वोटर्स पार्टी	ए. 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110068 ।
1372.	वार वैट्रन्स पार्टी	ए/301-302, पर्ल अपार्टमेंट, आई.सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम) मुम्बई-400103, (महाराष्ट्र) ।
1373.	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	122/1, ज़ाकिर नगर, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025.
1374.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68-बी, ए.पी.सी. रोड, कोलकाता-700009 पश्चिम बंगाल ।
1375.	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42-आनन्द पलित रोड, कोलकाता-700014, पश्चिम बंगाल ।
1376.	वोमेनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	डी 3/303, पंचरतन, आनन्द नगर, पान्डुरंग वाडी, दोमबिवली (पूर्व)-421201, (महाराष्ट्र) ।
1377.	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्ट्रीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल-516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
1378.	यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक ।
1379.	यूथ एण्ड स्टूडेन्ट्स पार्टी	आर.पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई-600107.
1380.	यूथ ब्रिगेड	गांव काकगाची, पॉ0ऑ0 भन्देरहाली, जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल ।
1381.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1382.	यूथ फॉर इक्वैलिटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110034 ।
1383.	वाई.एस.आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम्, प्रोद्दातुर-516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश ।

1384.	युवा गणतन्त्र पार्टी	सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
1385.	युवा जागृति दल	3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर-19, गांधीनगर-382 019, गुजरात ।
1386.	युवा जन जागृति पार्टी	बहालोपुर, बुलन्दशहर-202391, उत्तर प्रदेश ।
1387.	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0-शेखजादा द्वितीय, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1388.	युवा क्रान्ति दल	बी-667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला-उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.
1389.	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना-सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
1390.	युवा तेलंगाना पार्टी	छठा तल, साई प्रगथि टावर, मेन रोड, हिमायथनगर, हैदराबाद-500029, आन्ध्र प्रदेश ।
1391.	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1392.	युवजन श्रमिक रायथु कॉंग्रेस पार्टी	मकान नं0 8-2-269/एस/98, सागर सोसाइटी, रोड नं0-2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, आन्ध्र प्रदेश ।

सारणी-IV

(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1. अलमारी
2. एअरकंडीशनर
3. ऑटो-रिक्शा
4. गुब्बारा
5. फलों से युक्त टोकरी
6. बल्ला
7. बल्लेबाज
8. बैटरी टॉर्च
9. बेल्ड
10. ब्लैक बोर्ड
11. बोतल
12. डबलरोटी
13. ब्रीफकेस
14. झाड़ू
15. ब्रुश
16. बाट्टी

17. केक
18. कैल्कूलेटर
19. कैमरा
20. मोमबत्तियाँ
21. कैरम बोर्ड
22. कार्पेट
23. गाजर
24. फूलगोभी
25. छत का पंखा
26. शतरंज बोर्ड
27. कोट
28. नारियल
29. चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
30. कप और प्लेट
31. कर्टिंग प्लायर
32. दाव
33. डीजल पम्प
34. डिश एंटीना
35. डोली
36. बिजली का खंभा
37. लिफाफा
38. बॉसुटी
39. फाक
40. फाइंग पैन
41. कीप
42. गैस सिलिण्डर
43. गैस का चूल्हा
44. काँच का गिलास
45. अंगूर
46. हारमोनियम
47. टोप
48. हेलमेट
49. हॉकी और बॉल
50. आइस क्रीम
51. प्रेस
52. केतली

53. पतंग
54. लेडी पर्स
55. लैटर बाक्स
56. मिक्सी
57. नेल कटर
58. गले की टाई
59. पैन-स्टैण्ड
60. पेन्सिल शार्पनर
61. प्लेट स्टैण्ड
62. हान्डी
63. प्रेशर कुकर
64. रेजर
65. रेफ्रिजरेटर
66. अंगूठी
67. आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
68. स्कूल का बस्ता
69. कैची
70. सिलाई की मशीन
71. शटल
72. स्लेट
73. स्टैथोस्कोप
74. स्टूल
75. मेज
76. टेबल लैम्प
77. टेलीफोन
78. टेलीविजन
79. टेन्ट
80. दाँत ब्रुश
81. तुरही
82. वायलिन
83. छड़ी
84. सीटी
85. खिड़की

आदेश से,
वरिन्दर कुमार
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi –110001.

Dated : 18th January, 2013.
28 Pausa, 1934 (Saka).

NOTIFICATION

No. 56/2013/PPS-II.—WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No. 56/2011/PPS-II, dated 28th December, 2011, as amended from time to time, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No. 56/2011/PPS-II, dated 28th December, 2011, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies:—

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table II, the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States and postal address of their Headquarters;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarters; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

IN SO FAR AS elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir are concerned, this notification shall be deemed to have been issued in terms of Rules 5 and 10 of the Jammu and Kashmir Conduct of Elections Rules, 1965 and under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as made applicable for elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

TABLE-I
NATIONAL PARTIES

Sl. No.	Name of the Party	Symbol reserved	Address
1	2	3	4
1.	Bahujan Samaj Party	Elephant [In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110001.
2.	Bharatiya Janata Party	Lotus	11, Ashoka Road, New Delhi-110001.
3.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickles	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002.

4.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K. Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi-110001.
5.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi-110011.
6.	Nationalist Congress Party	Clock	10, Bishambhar Das Marg, New Delhi-110001.

TABLE-II

STATE PARTIES

Sl. No.	Name of the State/ Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	1. Telangana Rashtra Samithi 2. Telugu Desam	Car Bicycle	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No. 14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh. Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
2.	Arunachal Pradesh	1. All India Trinamool Congress. 2. People's Party of Arunachal	Flowers And Grass Maize	30-B, Harish Chatterjee Street Kolkata-700026, West Bengal. P.O. Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh).
3.	Assam	1. All India United Democratic Front 2. Asom Gana Parishad 3. Bodoland Peoples Front	Lock & Key Elephant Nangol	No. 3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam). Head Office :- Gopinath Bordoloi Road, Guwahati-781001(Assam). Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.O.-Kokrajhar, Distt. Kokrajhar, Assam, Pin-783370.

4.	Bihar	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
		2. Lok Jan Shakti Party	Bungalow	12, Janpath, New Delhi-110 011.
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.
5.	Goa	Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Vikas 'A' Building, 3rd Floor, Near Pharmacy College, 18 th June Road, Panaji-403001 (Goa).
6.	Haryana	1. Haryana Janhit Congress (BL)	Tractor	135, Golf Links, New Delhi-110003.
		2. Indian National Lok Dal	Spectacles	18, Janpath, New Delhi-110011.
7.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J & K). (ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J & K).
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar
8.	Jharkhand	1. AJSU Party	Banana	Saket Vihar, Harmu, Ranchi, Ranchi-834002 (Jharkhand)
		2. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand).
		3. Jharkhand Vikas Morcha (Prajantrik)	Comb	Atithishala, Morhavadi, Ranchi, Jharkhand.
		4. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.

9.	Karnataka	Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.
10.	Kerala	1. Janata Dal (Secular) 2. Kerala Congress (M) 3. Indian Union Muslim League	A Lady Farmer carrying Paddy on her head Two Leaves Ladder	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003. State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala). Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu.
11.	Maharashtra	1. Maharashtra Navnirman Sena 2. Shiv Sena	Railway Engine Bow and Arrow	Krishna Kunj, M.B.Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra. Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).
12.	Manipur	1. All India Trinamool Congress 2. Manipur People's Party 3. Manipur State Congress Party 4. National People's Party 5. Naga Peoples Front	Flower and Grass Bicycle Cultivator Cutting Crop Book Cock	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal) People's Road, Imphal-795001 (Manipur). Keishampat (Opposite Raj Bhawan), Imphal-795 001 (Manipur). 2nd Floor, MDU Building, M.G. Avenue, Imphal-795001 (Manipur). Post Box No. 565, Kohima-797001, Nagaland.

		6. People's Democratic Alliance	Crown	Ragailong, Imphal-795001, Manipur.
		7. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.
13.	Meghalaya	1. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)
14.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram).
		2. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
15.	Nagaland	Naga Peoples Front	Cock	Post Box No. 565, Kohima-797001, Nagaland.
16.	Orissa	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa).
17.	Puducherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. All India N.R. Congress	Jug	No. 51, J.J. Complex, 100 Feet Road, Illapillaichavadi, Nellithope Post, Puducherry-605005.
		3. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).

		4. Pattali Makkal Katchi	Mango	63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
18.	Punjab	Shiromani Akali Dal	Scales	Building No. 6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh-160028.
19.	Sikkim	Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gongtok, East Sikkim.
20.	Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275,Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.
21.	Uttar Pradesh	1. Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	12-Tughlak Road, New Delhi-110011.
		2. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi.
22.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	28, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi – 110001
		2. All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal)
		3. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).

TABLE-III
REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1.	Aadijan Mukti Sena	'First Floor', 21, Durgesh Vihar, J. K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)

2.	Aadivasi Sena Party	At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.
3.	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6, Karawal Nagar, DELHI-110094.
4.	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills, Meghalaya-794 101.
5.	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand, Durga Puri, Haibowal Kalan, Ludhiana, Punjab.
6.	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirct, Fatehpur (U.P.).
7.	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. /919, Sector-C, Sitapur Road Yojna, Janakipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
8.	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
9.	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4, ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
10.	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
11.	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136, Distt. Bulandshahr, (U.P.).
12.	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
13.	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg, (Balua) Kuri Bazaar, Distt. Gorakhpur –273404, Uttar Pradesh.
14.	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi, Near Gujarat Traders, Vyara, District-Tapi, Gujarat-394650.
15.	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Satna, Madhya Pradesh.
16.	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
17.	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108,109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
18.	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
19.	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post–Piprahi, Distt.–Sheohar BIHAR-843334.
20.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
21.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).
22.	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
23.	Akhand Bharat Ekta Andolan	Basant Bhawan, 17/34, Singhan Street, Kashipur-Pin Code-244713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttaranchal).
24.	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
25.	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi–110086
26.	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A–54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
27.	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

28.	Akhand Bharti	E-5 (1st Floor), Bali Nagar, Shivaji Marg, New Delhi-110015.
29.	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016 Uttar Pradesh.
30.	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.-Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar-811305.
31.	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
32.	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No. 272001, Uttar Pradesh.
33.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
34.	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
35.	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District-Bhojpur, Bihar-802301.
36.	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.
37.	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122 Janpad Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
38.	Akhil Bharatiya Bharat Mata – Putra Paksha	Office – Nandurbar, Pin-425412, Distt. Dhulia (Maharashtra).
39.	Akhil Bharatiya Bhrastachar Nirmoolan Sena	Om Building, Chhatrapathi Shivaji Chowk, Gondhale Nagar, Hadpsar, Pune-411002 (Maharashtra).
40.	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).
41.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
42.	Akhil Bharatiya Dastkar Morcha	Chamber No. 187, New Delhi Courts, Patiala House, New Delhi-110001.
43.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
44.	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmavali, Distt. Ghaziabad (U.P.).
45.	Akhil Bharatiya Garib Mazdoor Kisan Party	G-10/2, Ratia Marg, Sangam Vihar New Delhi-110062.
46.	Akhil Bharatiya General Labour Party	A-3/85, Nand Nagari, Delhi – 93.
47.	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling-734101 (West Bengal).
48.	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.
49.	Akhil Bharatiya Jan Sangh	J-394, Shankar Road, New Delhi-110060.
50.	Akhil Bharatiya Janata Congress	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.
51.	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vihar Kendra, Uldan, Jhansi (Uttar Pradesh).
52.	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
53.	Akhil Bharatiya Lok Tantrik Alp-Sankhyak Jan Morcha	Village Barve, Post Dahu, P.S.Ormanazi, Distt. Ranchi (Bihar).
54.	Akhil Bharatiya Lokraj Party	H.O. Raghuraj Nagar, Ballabgarh, Faridabad

		(Haryana).
55.	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
56.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B. Enclave, Delhi-110093.
57.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).
58.	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur, Maharashtra.
59.	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
60.	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
61.	Akhil Bharatiya Rajivwadi Congress (Dubey)	WZ-8-93, Tanwar Market, Ring Road, Naraina, New Delhi-110028.
62.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi-110054.
63.	Akhil Bharatiya Rashtriya Azad Hind Party	H.O. 1 R 11-12 Vistar Yojna Dadabari, Kota (Rajasthan).
64.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
65.	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	D-167, Block Rajiv Nagar, Begampur, Delhi-110081.
66.	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
67.	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
68.	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
69.	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
70.	Akhil Bhartiya Gondwana Party	263, Rahul Nagar, Kolar Road, Bhopal-462003, Madhya Pradesh.
71.	Akhil Bhartiya Janata Vikas Party	21-D, Pocket A-3, Everest Apartment, Kalkaji Extention, New Delhi - 110019.
72.	Akhil Bhartiya Jharkhand Party	Village-Kinudeeh, Post -Karandeeh, Jamshedpur-831002, Distt.-Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.
73.	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).
74.	Akhil Bhartiya Mithila Party	House of Shri Ratneshwar Jha, Village & P.O. Parjuar, Distt. Madhubani (Bihar), PIN-847229.
75.	Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh	Plot No. 98, Ratan Lal Nagar, Kanpur - 208022, Uttar Pradesh.
76.	Akhil Bhartiya Vikas Congress Party	S-7, Vikasdeep Basement, Station Raod, Lucknow 226001-Uttar Pradesh.
77.	Akhil Jan Vikas Dal	50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.
78.	Akhil Rashtrawadi Party	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta (Uttar Pradesh).
79.	Akhila Bharatiya Rytha Party	No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.

80.	Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)	No. 171, Kannan Nagar, Winterpet, Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.
81.	Akhilandra Mahadesam	Door No. 2-9-53, Nawabpet, Medak – 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.
82.	Akila India Vallalar Peravai	43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram, Chennai – 600 077, Tamil Nadu.
83.	Al-Hind Party	B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
84.	Ali Sena	1/1, Jafrabad, New Seelampur, Delhi-110053.
85.	All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam.	104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu-600002.
86.	All India Athithanar Makal Katchi	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil Nadu.
87.	All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb National Congress	C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048.
88.	All India Bahujan Samman Party	107, Tikri Kalan, New Delhi-110041.
89.	All India BC, OBC Party	H. No. 1-1-109/18, Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062.
90.	All India Bharti Jug Party	Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab.
91.	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal).
92.	All India Dalit Welfare Congress	Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi.
93.	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai-625010 (Tamil Nadu).
94.	All India Gareeb Congress	A-1/126, Sector-6, Rohini, New Delhi.
95.	All India Homeless People Congress	Nabagram Garia, P.O. Panchpota, South 24 Parganas-743516 (West Bengal).
96.	All India Indira Congress (Secular)	2680, Chooriwalan, Delhi-110006.
97.	All India Kissan Mazdoor Morcha	Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firojpur City, Punjab-152002.
98.	All India Krantikari Congress	184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra.
99.	All India Liberal Party	Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017, Andhra Pradesh.
100.	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab).
101.	All India Mahila Democratic Front (AIMDF)	House No. 6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh.
102.	All India Mahila Raj Party	5A, Orient Row, Kolkata-700017 (West Bengal).
103.	All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Darussalam Board, Hyderabad (Andhra Pradesh).
104.	All India Manchi Party	Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh.
105.	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001.
106.	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu).
107.	All India Mukti Dal Party	Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No. 3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094 Andhra Pradesh.

108.	All India Party for the Protection of Civil Rights.	100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai-600 078.
109.	All India People's Party	Central Committee, Ghandhi Nagar-1 st Line, Berhampur-760001 (Orissa).
110.	All India Pichhada Jan Samaj Party	475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
111.	All India Progressive Janata Dal	17, Akbar Road, New Delhi-110001.
112.	All India Rajiv Krantikari Congress	B-68, Jagat Puri, Delhi-110051.
113.	All India Raksha Party	Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.
114.	All India Ravidas Samata Party	Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector - 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.
115.	All India Sadguna Party	Kalkiri Indlu Village, RKVB Pet Post, Karvet Nagar Mandal, Pin-517582, Chittoor District, Andhra Pradesh.
116.	All India Samathuva Makhal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai -600041, Tamil Nadu.
117.	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).
118.	All India Singaravelar Munnetra Kazhagam	No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangkarai, Chennai - 600 041 Tamil Nadu.
119.	All India Stree Shakti	II-257/1, Co.-Op. Society Colony, Madanapalle-517325, Chittoor District, Andhra Pradesh.
120.	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
121.	All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam	No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039, Tamil Nadu.
122.	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).
123.	All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi	Door No. 55, First Floor, Sinavar Street, Tiruppattur-635601, Tamil Nadu, CHENNAI.
124.	All Indians' Gandhi Congress	212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058 Karnataka.
125.	All J & K Kisan Majdoor Party	Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.
126.	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No. 97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).
127.	All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party	M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.
128.	All Jammu and Kashmir Republican Party	1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code -192101, Jammu and Kashmir.
129.	All Kerala M.G.R. Dravida Munnetra Party	Das Building Nemom P.O. Thiruvananthapuram-695 020 (Kerala).
130.	All Party Hill Leaders Conference (Armison Marak Group)	P.O. Tura Chandmari, West Garo Hills-794002 (Meghalaya).
131.	Alpjan Samaj Party	Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. - Sasaram, P. S. - Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar - 821115.
132.	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.

133.	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
134.	Ambedkar National Makkal Katchi	Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601 Tamil Nadu.
135.	Ambedkar Peoples Movement	39. Saravana Street, T. Nagar, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
136.	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh)
137.	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
138.	Ambedkarbadi Party	136/1, Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).
139.	Ambedkarist Republican Party	Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distt. -Wardha, Maharashtra.
140.	Amra Bangalee	No. 2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal)
141.	Anaithindhia MGR Katchi	68, Habibullah Road, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
142.	Anaithindia Dravidar Samudaya Munnetra Kazhagam	No.13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk – 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.
143.	Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).
144.	Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 199/416 (RS No. 177-1B), 1st Floor, Arcot Road, Vadapazhani Chennai-600 026 Tamil Nadu.
145.	Andaman Nicobar Vikas Congress	MB-23, M.G. Road, Middle Point, Port Blair-741 001, (Andaman Nicobar Islands).
146.	Andhra Nadu Party	10-5-14/1, Masab Tank, Hyderabad-500028 (Andhra Pradesh).
147.	Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party	H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway, Hyderabad-500 035, Andhra Pradesh.
148.	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No. 3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).
149.	Andhra Rastra Praja Samithi	Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001
150.	Anna Telugu Desam Party	4-1-825/8, 9 and 10, NTR Estates, Abids, Hyderabad-500001, Andhra Pradesh.
151.	Anndata Party	Mandir Sri Purushottam Bhagwan, Chandrabhaga-326023, Jhalarpatan City, District-Jhalawar (Rajasthan).
152.	Antashchetan	PU-102, 1st Floor, Pitam Pura, Delhi – 110 088.
153.	Anti Reservation Party of India	H. No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
154.	Apna Bharat	Saini Bhawan, Near Kalkaji Mata Mandir, Kalkaji, New Delhi – 110 019.
155.	Apna Dal	1/2 A.P. Sen Road, Lucknow (U.P.).
156.	Apna Desh Party	H. No.-457, Majorganj, District-Sultanpur, Uttar Pradesh.
157.	Arunachal Congress	G-Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)

158.	Arya Dal	Central Camp Office-775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.
159.	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
160.	Asankhya Samaj Party	A-490, Gali No. 22, Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase-2, Delhi-110086.
161.	Asom Gana Parishad Pragatisheel	H.O.-G.S. Road, Ulubari, Guwahati-781007, Assam.
162.	Ati Picchra Party	Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai, Thana-Laheri, Zila-Nalanda-803118, Bihar.
163.	Ati Pichhda Varg Mahasangh	3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
164.	Ati Pichhra Jan Dal	Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.
165.	Atulya Bharat Party	91, Pili Kothi, Near Guruharikishan Public School, Hari Nagar, New Delhi-110064.
166.	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
167.	Awami Aamjan Party	Baria Ghat Road, Wellesliganj, Distt. Mirzapur-231001, U.P.
168.	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauz Khas Ext., Malviya Nagar, New Delhi-110017.
169.	Awami Socialist Party of India	Bukhara, Bakshiwal Road, Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).
170.	Azad Hindustan Party	E Block – 265, Yadav Nagar, New Delhi –110042.
171.	Azad Janata Party	208, Dhillan Complex, Akashganga Supaila, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.
172.	Azad Mazdoor Kissan Party	D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road, Kirari Nahar, Nangloi, New Delhi-110086.
173.	B.C. Bharata Desam Party	H. No. 12-13-426, Street No.1, Tarnaka, Hyderabad – 500 017 Andhra Pradesh.
174.	B.C. United Front	15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.
175.	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, Ist Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu.
176.	Backward Classes Democratic Party, J & K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate, Sunjwan Road, Jammu, Jammu & Kashmir – 180 004.
177.	Badavara Shramikara Raitara Congress Party	1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103 Karnataka.
178.	Bahujan Ekta Party (R)	2151/T-10, D-6, Near Shadipur Depot, New Patel Nagar, New Delhi-110008.
179.	Bahujan Kisan Dal	Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
180.	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J. Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
181.	Bahujan Mahasangha Paksha	Ramnagar, Sudhir Colony, Akola – 444001, Maharashtra.
182.	Bahujan Party	125/98, New L.I.G. Barraha –7, Kanpur-208027 Uttar Pradesh.
183.	Bahujan Republican Ekta Manch	Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.
184.	Bahujan Republican Party	H. No. 1-7-1046/18, SRT Quarters-18, Azamabad, Ramnagar, Hyderabad-500020 (Andhra Pradesh).

185.	Bahujan Sadan Morcha	Isari Bazar, Post - Isari Bazar, District – Giridih, Jharkhand-825107.
186.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	Village & Post Office Segti, Distt. Ambala (Haryana).
187.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar-Phule)	H. No. V-25, Sandhya Venus Apartment S.P. Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh
188.	Bahujan Samaj Vikas Party	20-B.D.S. Commercial Market, Village–Sadarpur, Sector- 45, Post Office–Arun Vihar, Sector– 37, Noida, Janpad– Gautambudhnagar, Uttar Pradesh.
189.	Bahujan Sangharsh Dal	Opposite Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Laskar, (Gwalior), Madhya Pradesh.
190.	Bahujan Sangharsh Party (Kanshiram)	Bahujan Bhawan, Khabbhashpur, Post-Malikpur, Zila-Ropar, Punjab.
191.	Bahujan Shakti	Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.
192.	Bahujan Suraksha Dal	1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedbad-380024 Gujarat.
193.	Bahujan Uday Manch	Village: Chalakpur, Post – Jameen Rasoolpur, Distt. Ajamgarh, Uttar Pradesh.
194.	Bahujan Vikas Aaghadi	A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka–Vasai, District – Thane, Maharashtra-401 303.
195.	Bajjikanchal Vikas Party	Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur – 842002 (Bihar).
196.	Bam Party	538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.
197.	Banchita Swaraj Party	117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road,P.O. and P.S.- Nalhati, District-Birbhum-737220, West Bengal.
198.	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin-788711, Assam.
199.	Begumpura Sanjha Front	193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.
200.	Best Class Party	House No. 94, Mohalla Alwal, Sadar-Azamgarh, Uttar Pradesh-276001.
201.	Bhaarat Mahashakti Party	5, Akbari Market, Aurangabad, Bulandsahar, Uttar Pradesh.
202.	Bharat Bachao Party of India	S – 528, Greater Kailash Part-1, New Delhi –110048.
203.	Bharat Bhrashtachar Mitao Party	New House No. 4, Ground Floor, Begam Vihar, Block – A, Khasra No. 16/19, Village – Begampur, Near Bhairon Mandir, DELHI-110086.
204.	Bharat Dal	Bharat Sevadham Arnayak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P).
205.	Bharat Desam Party	Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line, Main Road, Guntur – 522 001, Andhra Pradesh.
206.	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
207.	Bharat Ka Kisan Majdoor Party	Village-Baliyan (Nayan Nagar), Post – Baliyan, Maharajganj, Siwan, Bihar-841506.
208.	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
209.	Bharat Kranti Rakshak Party	Barakkatpur, Post-Badagaon, Distt.- Koshambi, Allahabad, Uttar Pradesh.

210.	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
211.	Bharat Nav Jyoti Sangh	18/25-A, Kursava, Fulbagh, Kanpur-208001 (Uttar Pradesh).
212.	Bharat Nav Nirman Party	A-2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony, Nayakhera, Ambabari, Jaipur-23, RAJASTHAN.
213.	Bharat Navnirman Voter Sena	1255-F, Basantvihar, Kanpur-208021 Uttar Pradesh.
214.	Bharat Nirman Party	High School Road, P.O.-Triveniganj, Distt.-Supaul-852139, Bihar.
215.	Bharat Pensioner's Front	R-17, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016.
216.	Bharat Punarnirman Dal	K.J. - 116, Kavi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
217.	Bharat Rakshak Party (Democratic)	Village Post Pakka Saharna, Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.
218.	Bharat Srijan	Geeta Nagar, Balkeshwar, Agra - 282 004, Uttar Pradesh.
219.	Bharat Uday Mission	C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400071.
220.	Bharat Vikas Morcha	Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Devghar, Jharkhand.
221.	Bharat Vishal Party	A/6A, DDA Flat, Munirka, New Delhi -110067.
222.	Bharateeya Bahujana Praja Rajyam	D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane, Guntur-522 002 Andhra Pradesh.
223.	Bharateeya Manavadhikar Party	21, Rajendra Mullick Street, Kolkata - 700007, West Bengal.
224.	Bharatha Makkal Congress	N. 30, Veluchetty Street, S. Kadiyur, Jolarpet, North Arcot Distt. (Tamil Nadu).
225.	Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party	House No. 3/17, Dorasani Palli, Proddatur Mandal, Kadapa District, Andhra Pradesh.
226.	Bharathiya Dravida Makkal Katchi	2036, 15th Main Road, Anna Nagar West, Chennai - 600 040, Tamil Nadu.
227.	Bharathiya Jana Shabdth	331(311), Ward No. 1, Kallara House, Mundella (P.O.), Vellanadu, Thiruvananthapuram-695543, Kerala.
228.	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).
229.	Bharathiya Praja Shakti	No. 931,932, Karabala Maidana, Railway Station Cross Road, Channapattna Town & Taluk, Ramanagara District, Pin-571501 KARNATAKA.
230.	Bharathiya Sahayog Congress	Meghavath House, Chandanapuram, Mukanapalya Post, Chamarajanagar Taluk and District, Karnataka State - 571 127.
231.	Bharathiya Yuvatha, Samatha, Rashtriya Congress Party	Flat No. G1, Ground Floor, ARK Residency Plot No. 304, Survey No. 153,154,163 and 143, Boduppall, Village & Gram Panchayat - Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District), Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
232.	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).
233.	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal - 462022 (M.P.).

234.	Bharatiya Awaj Party	Milan Committee Sewa Sangh, Santosh Nagar, Behram Bagh, Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.
235.	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna-800001 (Bihar).
236.	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh.
237.	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O. Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).
238.	Bharatiya Bouddhik Vichar Party	Village – Ballanagla Patti, Post – Shahpur Kheri, Tehsil – Dhampur, Distt. – Bijour, (Uttar Pradesh).
239.	Bharatiya Chhatrasangh Bharat	Premghan Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh-231 001.
240.	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony, M.T.X. (Sonepat), Haryana.
241.	Bharatiya Congress Paksha	Kasba Peth, In Front of Linbuwali Sawari, Post-Barshi, District-Solapur, MAHARASHTRA.
242.	Bharatiya Democratic Dal	No. 1 A, Gangai Amman Koil, Second Street, Vadapalani, Chennai-600026 (Tamil Nadu).
243.	Bharatiya Dr. B. R. Ambedkar Janata Party	No. 18, 12th Cross, MTS, Layout, Kengeri Upanagara, Bangluru-560060 KARNATAKA.
244.	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
245.	Bharatiya Ekta Dal	189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi – 57.
246.	Bharatiya Gaon Taj Dal	Village-Kuka, P. O. – Maqsdumpur, District Kapurthala, (Punjab).
247.	Bharatiya Grameen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh.
248.	Bharatiya Hindu Sena	Amer Bhawan, Amer, Jaipur (Rajasthan).
249.	Bharatiya Inqalab Party	Village – Rana Pratap Nagar, Islampur, Post & P.S. – Islampur, Distt. – Nalanda, Bihar. (Pin – 801303)
250.	Bharatiya Jagriti Dal	RZ-21D, Gali No. 4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.
251.	Bharatiya Jai Bheem Party	1304, Bhantlaiya, Sindhi Camp, Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.
252.	Bharatiya Jai Jawan Jai Kisan Party	Near Truck Union, Jhajjar, Distt-Rohtak (Haryana).
253.	Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.
254.	Bharatiya Jan Congress	5158/XV, Mahalaxmi- Building, Behind Ramakrishna Mission, Paharganj Lane, New Delhi – 110055.
255.	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh).
256.	Bharatiya Jan Kisan Party	35-C/2, Jaynteeppur, Dhumanganj, Allahabad-211011 (Uttar Pradesh).
257.	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh.
258.	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P).
259.	Bharatiya Jan Samajwadi Party	A-62, J. J. Colongy, Khanpur, New Delhi-110062.
260.	Bharatiya Jan Shakti	218, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.

261.	Bharatiya Jan Vikas Party	East Ashok Nagar, Post-Gulab House, Road No.14A, Kankarbagh, Patna-20, Bihar.
262.	Bharatiya Jankranti Party	12/17, Chakkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.
263.	Bharatiya Jantantrik Parishad	8/1, Outside Datia Gate, Jhansi-284001(U.P.).
264.	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
265.	Bharatiya Jawala Shakti Paksha	P.O. Marud, Taluka and Distt-Latur, Adarsh Nagar, Near Micro Tower Pin-413510, Maharashtra.
266.	Bharatiya Karyasth Sena	121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010. Uttar Pradesh.
267.	Bharatiya Kisan Kamgar Party	214, Shahpur Jat, New Delhi-110049.
268.	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
269.	Bharatiya Krantikari Dal	A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI -110092.
270.	Bharatiya Krantikari Kammand Party	214, LIC Colony, Tagore Town, Allahabad-211002 (U.P.).
271.	Bharatiya Labour Party	B.P. 281, Ravi Nagar, Mughalasarai, Varansai -232101 (U.P.).
272.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).
273.	Bharatiya Lok Nyay Party	7/103, Awas Vikas Colony, Sikandra Yojna, Agra, Uttar Pradesh.
274.	Bharatiya Lok Vikas Party	Anamalay, Panjlasa, Near Naraingarh, Distt. Ambala, Haryana – 134203.
275.	Bharatiya Loktantrik Party(Gandhi-Lohiawadi)	Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B-Area, Patna - 800001, Bihar.
276.	Bharatiya Manav Raksha Dal	Barkhera, Pathani, Bhopal-21 (Madhya Pradesh).
277.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.
278.	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J. J. Road, Opp. J. J. Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).
279.	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
280.	Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party	77/129, Bhagat Singh Colony, Tarla Adhwiwala, Dehradun, Uttarakhand.
281.	Bharatiya Muhabbat Party (All India)	H. No. 18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
282.	Bharatiya Muslim Party (Siddiqui)	Village Surajpur, P.O. Raradeoria, Distt. Khiri-262071 (Uttar Pradesh).
283.	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
284.	Bharatiya National Janata Dal	701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex, Sector No. 11, Gandhinagar, Gujarat – 382010.
285.	Bharatiya Nav Kranti Party	Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja, Distt.-Jaunpur, Uttar Pradesh.
286.	Bharatiya Navshakti Party	5, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi – 110001.
287.	Bharatiya Navyuvak Chetna Party	429/263, Near Amber Marriage Hall, Mojjamnagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
288.	Bharatiya Navyuvak Party	H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared, Near of Priya Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.

289.	Bharatiya Parivartan Congress	126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital, Manewada Road, Nagpur-440027, Maharashtra.
290.	Bharatiya Parivartan Morcha	3/8, Shah Nagar, Mangla Puri Terminal, Palam, New Delhi.
291.	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi – 110008.
292.	Bharatiya Peoples Party	Chikna Sheth Building, 1st Floor, Opp. Devi Kaman, Shiva Nagar, Aland Road, Gulbarga, Karnataka.
293.	Bharatiya Pichhra Dal	Village – Khujri, Post – Sagar, Via – Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh – 495 220.
294.	Bharatiya Praja Paksha	No. 374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R. T. Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
295.	Bharatiya Prajashakti Party	29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.
296.	Bharatiya Prajatantra Party	Patel Nagar, Road. No. 9, Patna-23 (Bihar).
297.	Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal	Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh, Chhattisgadhandchal, Chhattisgarh.
298.	Bharatiya Purvanchal Party	E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1), Varanasi, UTTAR PRADESH.
299.	Bharatiya Rajiv Congress	145, A-1, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
300.	Bharatiya Rashtra Parishad	E-164, Samastpur Road, Pandav Nagar, Delhi-110092.
301.	Bharatiya Rashtravadi Paksha	12, Juna Power House, Behind Rotary Hall, Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.
302.	Bharatiya Rashtravadi Samanta Party	F-402, Road No. 9-F, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.
303.	Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party	G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad, Uttar Pradesh
304.	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
305.	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001 (Madhya Pradesh).
306.	Bharatiya Rashtriya Morcha	D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
307.	Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh	308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.
308.	Bharatiya Ravidas Party	Moh. Kundigarh, Post-Sadar, Ajamgarh, Uttar Pradesh.
309.	Bharatiya Republican Paksha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
310.	Bharatiya Sadbhawana Samaj Party	Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.
311.	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
312.	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P).
313.	Bharatiya Samaj Shakti Party (R)	House No. 558, Vill. + Post – Badsa, Tehsil – Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.
314.	Bharatiya Samajwadi Vikas Party	F-717, Mangolpuri, Delhi-110083.

315.	Bharatiya Samata Party	A-71, Nirman Vihar, New Delhi.
316.	Bharatiya Sampuran Krantikari Party	A-1/150, Aman Vihar, Nangloi, New Delhi- 110041.
317.	Bharatiya Samta Samaj Party	Gram - Dehramau, Post – Gosainganj, Zila – Lucknow – 227 125 (U.P.)
318.	Bharatiya Sant Mat Party	Bahu Jholri Road, V.P.O. – Nahar, Tehsil – Kosli, Distt. – Rewari HARYANA.
319.	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
320.	Bharatiya Sarvodaya Kranti Party	199, North Avenue, New Delhi – 110 001.
321.	Bharatiya Satyarth Sangathan	Bharat Nagar, Prem Vidyalyaya, Railway Crossing, Beside Sankirtan Kunj, Near Birla Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura-281003, (U.P.).
322.	Bharatiya Seva Dal	3-1-236/239/1, First Floor, Somasunderam Street, Secunderabad-500003 (Andhra Pradesh).
323.	Bharatiya Shakti Sena	Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyaugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar – 249402, Uttarakhand.
324.	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).
325.	Bharatiya Subhash Sena	Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratana Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.).
326.	Bharatiya Surajya Manch	831, Sector-10, Panchkula-134113, Haryana.
327.	Bharatiya Swatantra Party	Village-Naugai, P.O.–Raghunathnagar, Teh.–Vadrufnagar, Distt.- Sarguja, Chhattisgarh
328.	Bharatiya Yuva Shakti	Gyatri Vihar, P.O. – Sadubela, Bhupatwala, Haridwar – 249410 (Uttarakhand).
329.	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
330.	Bharteey Samajvadi Morcha	3/1108, Dehradun ChowkSaharanpur-247 001 (Uttar Pradesh).
331.	Bharti Jan Suraksha Party	Head Office, Dholwha Road, Near Heera Colony, Town & P.O. Haryana, Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208
332.	Bharti Krishak Seva Samaj	Village-Kharkhari Ashram, Post-Kharkhoda, District-Meerut (Uttar Pradesh).
333.	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).
334.	Bharti Sarvadarshi Parishad	86/12, Deputy Ka Padav, Dev Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
335.	Bhartiya Chaitanya Party	B – 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.
336.	Bhartiya Dalit Congress	Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. – Sarguja, CHHATTIAGARH- 497001.
337.	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
338.	Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh)	Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi – 110036.
339.	Bhartiya Gantantra Party	H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.

340.	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).
341.	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. – Sonta, Via – Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.
342.	Bhartiya Jagaran Party	Poorvi Nawada, Arrah, Bhojpur-802 301, Bihar.
343.	Bhartiya Jan Kalyan Party	199/2, Arjun Nagar, Kaithal-136 027, (Haryana).
344.	Bhartiya Jan Manch	361, Street No. 13, BuddhVihar, (Behind Senior School), Mandoli Gaon, Nand Nagri, Delhi-110093.
345.	Bhartiya Jan Sahyog Samanvaya Party	6/412. Farsh Bazar, Shahdra, Delhi – 110032.
346.	Bhartiya Jan Seva Party	Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-227 107.
347.	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
348.	Bhartiya Janta Dal	C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.
349.	Bhartiya Jantantrik Janata Dal	1, Daroga Rai Path, Patna – 800001, Bihar.
350.	Bhartiya Kisan Mazdoor Party	Village And Post Meerpur, Tehsil-Khair, Distt. Aligarh (Uttar Pradesh).
351.	Bhartiya Krishak Dal	197, Kaushalpuri (Sarla Bajpai Ka Bagh), South of Subhash Nagar, Janpad – Hardoi, UTTAR PRADESH.
352.	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
353.	Bhartiya Mazdoor Kisan Congress Party	D-40, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad-121003 Uttar Pradesh.
354.	Bhartiya Naujawan Inklav Party	2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi, Shahdara, Delhi-110093
355.	Bhartiya Nojawan Dal	Sector-6, Pocket B-2, H.No. 23, Rohini, New Delhi-110085.
356.	Bhartiya Pragatisheel Congress	D-43, Rajdhani Park, Nangloi, Delhi – 110041.
357.	Bhartiya Prajatantra Nirman Party	7/7/47-A, New Colony Lal Bagh, Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH.
358.	Bhartiya Rakshak Party	H. No. 397, Housing Board Colony, Rohtak-124 001 (Haryana).
359.	Bhartiya Samajik Kranti Dal	Village – Suwari, Post – Danganj, Distt. – Varansi, Uttar Pradesh.
360.	Bhartiya Santaji Party	1, Khobragade Lay-out, Dighori Ring Road Square, Nagpur-440024, Maharashtra.
361.	Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party	Virk Gold Farm, Village – Sarayjoga, Post - Kantha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.
362.	Bhartiya Sarvjan Hitey Samaj Party	Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.
363.	Bhartiya Sarvjan Party	Village -Rampur, Hata Marg, Post – Gauri Bazar, District – Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.
364.	Bhartiya Sarvodaya Party	152/126, Patel Nagar (West), Dehradun-248001 Uttarakhand.
365.	Bhartiya Sarvsamaj Party	Lal Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.
366.	Bhartiya Satya Sangharsh Party	Village – Bijhinya, P.S. – Mandla, District – Mandla, Madhya Pradesh.

367.	Bhartiya Shanti Kranti Party	1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi – 110041.
368.	Bhartiya Shramik Party	79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar, Kanpur Nagar – 208014, Uttar Pradesh.
369.	Bhartiya Swarn Samta Party	201- C Block, Goyal Enclave, Faizabad Road, Chinhut Lucknow, UP.
370.	Bhartiya Vanchitsamaj Party	Village - Bhudiya, (Faguha), Tehsil & Distt.- Kannauj, UTTAR PRADESH.
371.	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi.
372.	Bhomi Jotak Samooh	560/12, Krishna Nagar, Kanpur Road, Lucknow-226005 (Uttar Pradesh).
373.	Bhrashtachar Virodhi Dal	7/216, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
374.	Bihar People's Party	303. C-Block, Daroga Prasad Roy Path, Patna-800001 (Bihar).
375.	Bihar Vikas Party	Room No.6, 1-Special Family Type, RBlock, Patna-800001 (Bihar).
376.	Bira Oriya Party	C/o Shri P. Samantaray, IAS (Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10 (Orissa).
377.	Bolshevik Party of India	C/o Bhai Bansod Juni Oli, Ram Mandir, Kamptee, District-Nagpur (Maharashtra).
378.	Braj Vikas Party	A-193, Trans Yamuna Colony, Phase-II, Agra-286002, Uttar Pradesh.
379.	Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party	Behind of the Palace, Kishorganj Panna, Distt.-Panna, Madhya Pradesh.
380.	Brij Kranti Dal	16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5, Uttar Pradesh.
381.	Brij Pradesh Nirman Sangh	Sri Aurobindo Bhawan, 28/352, Gudri Mansoor Khan, Agra-3 (U.P.).
382.	Buddhiviveki Vikas Party	R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi – 110088.
383.	Bundelkhand Akikrit Party	Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari, Zila – Mahoba, Uttar Pradesh
384.	Bundelkhand Congress	56. Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63
385.	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001(Uttar Pradesh).
386.	Bundelkhand Vikas Dal	Village & P.O.-Culpahad, Janpad-Hamirpur (U.P.).
387.	Champaran Vikas Party	Block-A, Flat No.102, Daroga Roy Path, Patna (Bihar).
388.	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
389.	Chhattisgarh Kisan Mazdoor Party	House of P.R. Negi, Behind Jhule Lal Dham, Gali Dr. Bhanu Pratap Singh, Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh.
390.	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg-491228 (Chhattisgarh).
391.	Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party	Bajrang Nagar (Tatyapara Ward), Raipur, Chhattisgarh.
392.	Chhattisgarh Swabhimani Manch	21, Battis Bangla, Bhilainagar, Distt.-Durg-490006, Chhattisgarh.
393.	Chhattisgarh Vikas Party	A-12, Flash Vihar, New Purena, Post Office – Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.

394.	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh).
395.	Christhava Makkal Katchi	173, Ponnagar, Tiruchirapalli-620001, (Tamil Nadu).
396.	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).
397.	Christian Mannetra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
398.	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037 (Kerala).
399.	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation).	U-90, Shakarpur, Delhi-110092.
400.	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala).
401.	Congress Jananayaka Peravai	24, Ormes Road, Kilpank, Chennai-600010.
402.	Congress of People	5, Patropolis Colaba, Mumbai-400005 (Maharashtra).
403.	Congunadu Makkal Katchi	TTS Complex-58, Mettur Road, Erode District-638011, Tamil Nadu.
404.	Dalit Kranti Dal	Jati Meghwale, Gaon Post – Dholipal, Teh. & Zila – Hanumangarh (Rajasthan)
405.	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
406.	Dalit Muslim Vikas Party	2/306, Dakshin Puri, New Delhi-110062.
407.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).
408.	Dalit Vikas Party (Bharat)	Behind of High School, Ward No. 3, Village & Post – Ghunwara, Teshil–Maihar, Distt.–Satna, MADHYA PRADESH
409.	Dalita Bahujana Party	4-1-1215, Street No.3, Boggulakunta, King Kati Road, Hyderabad – 500001.
410.	Dalitha Praja Party	7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa – 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.
411.	Dalitstan Peoples Party	Village Shantinagar, Mauja - Sannpura, Post – Gonsili, Tehsil – Baah, District - Agra, Uttar Pradesh – 283104
412.	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extention, New Delhi – 110 027.
413.	Delhi Vikas Party	B-600 Jahangir Puri, Delhi – 110033.
414.	Democratic Bahujan Samaj Morcha	Village-Sotran, P.O. Chak Kalai, Tehsil & District-Nawanshahar, Punjab.
415.	Democratic Bharatiya Samaj Party	Gali No-7, Guru Nanak Pura (East), Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.
416.	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
417.	Democratic Dal of Haryana	Paintawas House, Bhiwani Road, Charkhi Dadri, Distt. Bhiwani, Haryana.
418.	Democratic Forward Bloc	66, Tamil Sangam Road, Madurai-625001 (Tamil Nadu).
419.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B. Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).

420.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).
421.	Democratic Jharkhand Mukti Morcha	Pump Road, Tonka Toli. P.O.Chakradharpur-833 102, Shinghbhum West (Jharkhand).
422.	Democratic Movement	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).
423.	Democratic Party of India	162, Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).
424.	Democratic Prajakranthi Party Secularist	Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka-571105.
425.	Democratic Secular Party	At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur -24, (Maharashtra).
426.	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63-Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
427.	Deseeya Praja Socialist Party	N. S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020, Kerala.
428.	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
429.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.
430.	Desh Shakti Party	14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
431.	Desia Pathukappu Kazhagam	"ARIVAGAM" 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
432.	Dev Sena Party	Village & Post: Sakrod, Tehsil & Distt. Rajasmand, (Rajasthan).
433.	Dharam Nirpeksh Dal	24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).
434.	Dharamarajya Paksha	601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-1, Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada, Thane-400610, Maharashtra.
435.	Dhiravida Thelugar Munnetra Kalagam	4/802, Kurunji Street, Tahsildhar Nagar, Madurai-625020.
436.	Divya Shakti Party	7/106, Ground Floor, Geeta Colony, Delhi-110031.
437.	Dravida Makkal Congress	No.11, Jawharlal Nehru Road, 1st Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
438.	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
439.	Dravida Vizhipunarchi Kazhagam	No. 5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.
440.	Duggar Pradesh Party	Driving Institute Complex, Janipur, Jammu - 180007, Jammu and Kashmir.
441.	Eklavya Samaj Party	53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh - 251 001.
442.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjahapur (Uttar Pradesh).
443.	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
444.	Ekta Shakti	Jhanjhadi, Post - Bhaini Khurd, Tehsil - Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.
445.	Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam	"ELATCHIAGAM" 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
446.	Ephraim Union	Tlangdingliana Building, Bawngkawn South, Aizawl-796012, (Mizoram).
447.	Farmers Developments Party	149, Mambalam High Road, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.

448.	Federal Congress of India	Holumbi Khurd, Village & P.O. – Holumbi Kalan, Delhi – 110 082.
449.	Federation Of Sabhas	101, Savitri Complex, Opp. Chaudhry Cinema, Ghaziabad-201001. (U.P.).
450.	Forum For Presidential Democracy	B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai-400021 MAHARASHTRA
451.	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).
452.	Gadar Party	House No.32, Near Ramlila Ground, Padav Ward, Post Makandruganj, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
453.	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
454.	Gareeb Samana Party	H. No. 399, Aawas Vikas Colony, District-Mirzapur-231001, Uttar Pradesh.
455.	Gareebjan Samaj Party	450, Jaidevvi Nagar, Garh Road, Meerut (Uttar Pradesh).
456.	Garib Ekta Party	A-71 Group, Vazirpur Industrial Area, Vazirpur, Delhi – 110052.
457.	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
458.	Garib Samaj Party	(Shoshit) Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149.
459.	Garib Vikas Party	Professor's Colony, Belbanwa, Motihari, Bihar – 845401.
460.	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).
461.	Goa People's Congress	Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji, Goa-403 001.
462.	Goa Pokx	Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji, Goa-403001.
463.	Goa Rajiv Congress Party	Ist Floor Dias Building, Rua Ormuz Road, Opp. Ferry Wharf, Panaji, Goa-403 001.
464.	Goa Suraj Party	383-A, Pirazona, Moira, Bardez-Goa (Pin-403514).
465.	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
466.	Goemcarancho Otrec Asro	H. No. 780/A, Mugally, Sao Jose de Areal, Salcete, Goa.
467.	Golden India Party	'Nandan Van', B-94, Gyan Marg, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan).
468.	Gommant Lok Pokx	31st January Road, P.O. Box-242, Panjim (Goa).
469.	Gondvana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).
470.	Gondwana Congress Party	Shahapura, A-121, B.D.A. Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
471.	Gondwana Mukti Sena	M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road, Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.
472.	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).

473.	Gorkha Democratic Front	Shahi Niwas, Chandrabani, Post-Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.
474.	Gorkha Janmukti Morcha	North Point Singamari, Darjeeling – 734104, West Bengal.
475.	Grama Munnetra Kazhagam	‘Z’ Mangammal Salai, Renga Nagar, Tiruchirapalli-620021 (Tamil Nadu).
476.	Gramanchal Party	3/A, Satya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.
477.	Great India Party	D.No. 1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.
478.	Gujarat Adijati Vikash Paksh	Block No.6/4, MLA Nivas, Sector-21, Gandhi Nagar (Gujarat).
479.	Gujarat Parivartan Party	A-4, Abhinav Arcade, Pritamnagar, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat- 380006.
480.	Gujarat State Janta Congress	Indubhai Patel Bhawan, Vasant Chowk, Bhardra, Ahmedabad-380001 (Gujarat).
481.	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat).
482.	Gurgaon Residents Party	C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon – 122 002, Haryana.
483.	Guru Chand Mukti Morcha	G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.
484.	Hamara Dal	C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.
485.	Haryana Gareeb Pichhra Yuva Sangathan Party	Village & Post: Aahrika, Tehsil & Distt. Jind, (Haryana).
486.	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
487.	Haryana Lok Dal	705, Sonipat Road, Rohtak (Haryana).
488.	Haryana Navnirman Sena	101, Village – Silokhra, Gurgaon, Haryana.
489.	Haryana Samajik Nyay Party	Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.
490.	Haryana Swatantra Party	House No. 154, Village & P. O. – Jakhauda, Tehsil – Bahadurgarh, Distt. – Jhajjar, Haryana.
491.	Himachal Kranti Party	Village Khart, P.O. Nandrool, Tehsil & Distt. Kangra-176001 (H.P.).
492.	Himachal Lokhit Party	Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009 Himachal Pradesh.
493.	Himachal Pradesh State Akali Dal	Near Bus Stand, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.
494.	Himachal Swabhimani Party	Chintpurni Niwas, Longwood Shimla, HIMACHAL PRADESH-171001.
495.	Hind Ekta Mission	Village – Leduwawar, Post – Kauragahani, Tehsil – Phulpur, Distt. – Azamgarh, Uttar Pradesh.
496.	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).
497.	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.
498.	Hind Raksha Sena	WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018
499.	Hind Rashtriya Ekta Party	Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.

500.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
501.	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad (Uttar Pradesh).
502.	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
503.	Hindu Samaj Party	117/K-36. Sarvodaya Nagar, Kanpur (U.P.).
504.	Hindustan Action Party	156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.
505.	Hindustan Ekta Party	Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.
506.	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).
507.	Hindustan National Party	No. 103/68, College Road, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.
508.	Hindustan Party	202, Devika Apts., Baba Jan, Poona-411001. (Maharashtra).
509.	Hindustan Swaraj Congress Party	Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra
510.	Hindustan Vikas Dal	Karman Tola, Arah, District – Bhojpur -802301 Bihar.
511.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
512.	Hindustani Swaraj Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi –110041.
513.	Hindusthan Nirman Dal	House No. 100, Gali No. 5, Krishna Nagar, Safdarjang Enclave, New Delhi.
514.	Hindusthan Praja Paksha	7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamothe, Navi Mumbai – 410209, Maharashtra.
515.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No. 6, District Berpeta (Assam).
516.	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).
517.	Holy Blessing People's Party	Shop No. 3, Laxmi Niwas Building, M.N. Road, Kurla (W), Mumbai-400070, MAHARASTRA.
518.	Ikkiya Makkal Munnetra Kazhagam	Makkalagam No.11, Pearl Empire Apartments, Kuppam Beach Road, Tiruvanmiyur, Chennai (Tamil Nadu).
519.	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street, Kottivakkam, Chennai – 600 041. Tamil Nadu.
520.	India Dravida Makkal Munnetra Katchi	Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar, Towerline Colony, Erode Corporation Zone II, Erode-638011, Tamil Nadu.
521.	India Makkal Munnetra Katchi	95, Cauveri Street, Bhavani – 638301, Erode District, TAMIL NADU.
522.	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
523.	Indian Bahujan Sandesh Party (Kanshiram)	B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.
524.	Indian Christian Front	Plot No.660, East Last Road, Anna Nagar, Madurai-625020, Tamil Nadu.

525.	Indian Christian Secular Party	Sagaya Matha Mligai, No. 105/167, Thiruvalluvar Nagar, Ayanavaram, Chennai-600 023. (Tamil Nadu).
526.	Indian Citizens' Party	At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43, P.O. – Abhinaba Bidanasi, Cuttack-753014 Orissa.
527.	Indian Democratic Party	D – 978, Jan Kalyan School Road, Bhajan Pura, Delhi – 110054.
528.	Indian Ekta Party	A-180, Sector-40, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
529.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi – 110 001.
530.	Indian Gandhian Party	Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road, Pattikkad P.O., Thrissur District, Kerala-680509.
531.	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi – 110 005.
532.	Indian Krantikari Lehar	Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. Faridkot, Punjab.
533.	Indian Liberation Front	T-16, Green Park Extension, New Delhi-110016.
534.	Indian Minorities Political Party	D. No. 9-4-51/35/48, Hakeempet (I.A.S.) Colony, Towli Chowki, Post – Golkonda Fort, Hyderabad – 500008, Andhra Pradesh.
535.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
536.	Indian National Labour Party	Rajani Mukherjee Smriti, Bhabar, Coal Dock Road, (Former Coal Controller's Office) Kolkata-700043 (West Bengal).
537.	Indian National League	No. 7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.
538.	Indian Oceanic Party	K-316, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.
539.	Indian Peace Party	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
540.	Indian People's Conference Party	H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.
541.	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
542.	Indian People's Forward Bloc	Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1, Tangra Road, Kolkata-15, West Bengal.
543.	Indian Peoples Green Party	19, Shubham Enclave, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.
544.	Indian Public Party	Gujarat Housing Colony, Room No. - 1103, Block No.7/B, New Dablia, Bharatnagar, Bhavnagar-364001 Gujarat.
545.	Indian Republican Front	36/19/3, P.D. Kidganj, Allahabad, (Uttar Pradesh).
546.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025.
547.	Indian Unity Centre	C/o Moinuddin Chisty 43/36, C.N. Roy Road, P.S. Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal.
548.	Indian Voters Welfare Party	No. 608, 14th Main, Gokula 1 st Stage, Bangalore – 560 054, Karnataka.
549.	Indians Front	37-12-62, NGGO's Colony, P. R. Gardens, Visakhapatnam – 530 007 Andhra Pradesh.

550.	Indians Victory Party	3/261-2, Anandan Nagar, Asaripalla-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu.
551.	Indigenous Nationalist Party of Twipra	Abhoyanagar, Agartala-799005 (Tripura).
552.	Indigenous People's Front of Tripura	H.O. Old Kali Bari Road, Krishnanagar, Agartala-799001, Tripura.
553.	Indiya Jananayaka Katchi	No. 9, 3rd Avenue, 34th Street, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
554.	Inqalab Party of India	Mohalla Paschimi Lakhpeda, Town & Post – Mohammadi, Distt. Lakhimpur Khiri – 262 804 Uttar Pradesh.
555.	Inqalab Vikas Dal	92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.
556.	Inqlabi Party	Behind B.T.I. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh, Pin – 477001.
557.	Islam Party	Hind Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
558.	Ittehad-E-Millait Council	93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat, Bareilly, Uttar Pradesh.
559.	J & K Citizen's Party	Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir.
560.	Jaganmay Nari Sangathan	Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
561.	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No. 33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
562.	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad – 500 026, Andhra Pradesh.
563.	Jagrat Bharat Party	101, Vidhayak Niwas, Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
564.	Jagte Raho Party	C/o Ms. Kshama R Desai, 2, Vatika Bunglows, Near Sabari School, Vasna Road, Baroda, Gujarat.
565.	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.
566.	Jai Bharat Samanta Party	A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjakpura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
567.	Jai Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh – 492 001.
568.	Jai Hind Party	Ward No. 6, Supaul, P.O. & Distt. Supaul, Bihar-852131.
569.	Jai Hind Samaj Party	Village - Kharhara (Bind Valia) Post – Dubiha, Janpad – Ghazipur, Uttar Pradesh.
570.	Jai Janata Janardan Party	Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragna & Distt. – Banda, Uttar Pradesh.
571.	Jai Janseva Party	14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil – Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.
572.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.

573.	Jai Maha Bharath Party	Jai Mahabharath Bhawan, Shri Mahaavykuntha Puram,Vill.- Bukkapuram, Tehsil – Alampuram, Distt. – Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin – 509 652.
574.	Jai Prakash Janata Dal	16 H.M.D., Purani Colony, Shahadara, Delhi –110032.
575.	Jai Samaj Bharatiya Samaj Party	Town Area Sadat, Post – Sadat, District – Gazipur, Uttar Pradesh.
576.	Jai Telangana Party	H. No. 34/9, SBH Colony, Shrinagar, Hyderabad-500073 (Andhra Pradesh).
577.	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagottigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.
578.	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
579.	Jammu & Kashmir National United Front	Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi – 180 005, Jammu & Kashmir.
580.	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).
581.	Jammu & Kashmir Save Srinagar Front	Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar – 190 006. Jammu and Kashmir.
582.	Jammu and Kashmir Awami League	B-24, Indra Nagar Srinagar-190001, (Jammu & Kashmir).
583.	Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist	Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir
584.	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
585.	Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular)	Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.
586.	Jammu State Morcha (Progressive)	8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu – 180 001, Jammu & Kashmir.
587.	Jan Bhavana Party	C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi – 110092.
588.	Jan Chetna Party	Chamber No. 475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
589.	Jan Ekta Dal	Gher Katebaz Khan,Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.
590.	Jan Ekta Party	147/5, Behind ITI, Shamsheerpur, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.
591.	Jan Kranti Morcha	89-M, Kidwai Nagar, Kanpur (Uttar Pradesh).
592.	Jan Kranti Party (Rashtrawadi)	16/31, B, Sarojni Naydu Marg (Haivlak Road), Lucknow, Uttar Pradesh.
593.	Jan Kranti Swatantrata Party	226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.
594.	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post: Butrada,Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.
595.	Jan Lokmat Party	2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302 Uttar Pradesh.
596.	Jan Morcha	1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.
597.	Jan Raajya Party	128/5, Y Block, Kidwai Nagar, Kanpur-208011, UTTAR PRADESH.

598.	Jan Raksha Party	Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
599.	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
600.	Jan Samarthan Dal	12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.
601.	Jan Sangh Party	A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar, Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.
602.	Jan Sangram Party	House No. 905, Sector-7, Avas Vikas Colony, Sikandra Yojna, Agra-7, (Uttar Pradesh).
603.	Jan Sewa Party	J-7, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi-110092.
604.	Jan Shakti Dal	Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
605.	Jan Shanti Sangathan	AA-14, Chandan Van, Phase -1, Mathura, Uttar Pradesh-281001
606.	Jan Surajya Shakti	Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.
607.	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
608.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
609.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkatta-700017 (West Bengal).
610.	Janadesh Party	Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi, Kurla Andheri Road, Mumbai - 400072.
611.	Janadhipathya Samrakshana Samithi	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
612.	Jananayaha Munnetra Kazhagam	No. 32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034, (Tamil Nadu).
613.	Jananishta	Mohan Villa, A-1/347, Janak Puri, New Delhi 110058.
614.	Janata Congress Party of Bharat Varsha	A-15/2. Vasant Vihar, P.B. No. 8801, New Delhi-110057.
615.	Janata Party	A-77, Nizamuddin East, New Delhi.
616.	Janata Uday Party	860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T. Faridabad, Haryana.
617.	Janata Vikas Manch	C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan, Pratapgarh, UTTAR PRADESH.
618.	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha (Madhya Pradesh).
619.	Janhit Dal	R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh, Patna-20, Bihar.
620.	Janhit Kisan Party	Ward No. 24, Saxena Nagar, Nagar Palika Parishad - Maharajganj, Janpad - Maharajganj - 273303 Uttar Pradesh.
621.	Janhit Samaj Party	Bhagwati Market, Near Shiv Mandir, Belli Road, Jagdev Path, Post: B.V. College, Patna - 800 014, (Bihar).
622.	Janlok Rashtriya Party	452, Sector -19, Dwarka, New Delhi.

623.	Janmangal Paksh	Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).
624.	Jan–Nyay Dal	301, Sri Devraha – Complex, Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road, Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh.
625.	Janral Samaj Party	Surat Printing Press, Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.
626.	Jansatta Party	L-14, Mahendra Park, Adarsh Colony, New Delhi-110 003.
627.	Jansevak Samaj Party	159, Bodhashram, Tapa Road, Mohalla-Khera, Ferozabad-283203 (Uttar Pradesh).
628.	Jantantra Party	3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi – 221002, Uttar Pradesh.
629.	Janvadi Party	(Socialist) B-32/2, Behind Jain Mandir, Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.
630.	Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham	# 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittor District, Andhra Pradesh.
631.	Jawan Kisan Morcha	Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312.
632.	Jebamani Janata	No. 33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
633.	Jharkhand Anushilan Party	Vill + Post – Jhilimili, P.S.– Barikul, Distt – Bankura, West Bengal – 722135.
634.	Jharkhand Disom Party	12, Road No. 21, Kadma Farm Area, Jamshedpur-831 005, Jharkhand.
635.	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi – 834001, Jharkhand.
636.	Jharkhand Janadhikar Manch	Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road, Vardman Compound, Ranchi – 834 001 (Jharkhand)
637.	Jharkhand Janadhikar Party	Opposite Holi Cross School, Lalpur Peace Road, Ranchi – 834 001, Jharkhand.
638.	Jharkhand Ki Krantikari Party	23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).
639.	Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)	Shukla Colony, Post Hinoo, Ranchi Distt, Ranchi-834002 (Jharkhand).
640.	Jharkhand Party	Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo, Ranchi Jharkhand-834002.
641.	Jharkhand Party (Naren)	At-Raghunathpur, P.O. Jhargram, District-Midnapur-721507 (West Bengal).
642.	Jharkhand People's Party	P.O. Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur, Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).
643.	Jharkhand Vananchal Congress	5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.
644.	Jharkhand Vikas Dal	10, A.P.N. Bose Compound, Ranchi- 834001 (Jharkhand).
645.	Jwala Dal	H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram, Post –Bichhia P.A.C. Camp, P.S. – Shahpur, Distt. – Gorakhpur-273014, Uttar Pradesh.
646.	Kaivinayger Kazhagam	Munnetra Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).
647.	Kalinga Sena	19A, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.

648.	Kamarajar Adithanar Kazhakam	6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
649.	Kamarajar Deseeya Congress	7-Velayudha Raja Street, Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
650.	Kamgar Samaj Dal	H. No. 9/237, Mohalla : Raidopur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
651.	Kamtapur Progressive Party	'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally, P.O. Kadamtala, Distt. Darjeeling - 734433, West Bengal.
652.	Kanchee Aringer Anna Dravida Makkal Kazhagam	No. 10A, Natham Mettu St., Chengalpattu (Tamil Nadu).
653.	Kannada Chalavali Vatal Paksha	154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka).
654.	Kannada Naadu Party	54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli - 580030, Karnataka.
655.	Kannada Paksha	No. 259/1, 1st Floor, Ranghswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).
656.	Karnataka Jantha Paksha	No. 29, 1st Floor, 3rd Croos, 1st Main, Ramanjaneya Layout, Chikkallasandra, Bangalore-560061 Karnataka.
657.	Karnataka Kranthi Dal	No. 240, 16th Main, 6th Cross, 1st Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076 (Karnataka).
658.	Karnataka Makkala Paksha	H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011.
659.	Karnataka Rajya Ryota Sangha	636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
660.	Karnataka Swarajya Party	No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka - 591317.
661.	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No. 6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).
662.	Karunaadu Party	Sa-13/2, No: 7th Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.
663.	Kerala Congress	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
664.	Kerala Congress (B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
665.	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala).
666.	Kerala Congress Secular Kerala Congress Secular	State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1, (Kerala).
667.	Kerala Janapaksham	PURA-36, Shyamala Nivas, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.
668.	Kerala Revolutionary Socialist Party (Baby John)	Baby John Shashttyabdha, Poorthi Memorial Building, Chavara P.O. 691 583, Kulangara Bhagom, Kollam, Kerala.
669.	Khandesh Vikas Congress Party	Building No. 2, 15/16, First Floor, Khandesh Mill Shopping Complex, Jalgaon - 425 001.

670.	Khasi Farmers Democratic Party	Malki Chinapatty, Shillong-793001, Meghalaya.
671.	Khun Hynnietrip National Awakening Movement	C/o Office of the Khasi Students Union, Jaiaw Chapel Road, Shillong-793 002 (Meghalaya).
672.	Kisan Garib Nagrik Party	203, Markaz View, 2nd Floor, 24, Opposite Carrit Cinema, Jogeshwari (West), Mumbai- 400103, MAHARASHTRA.
673.	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera –Jalesar, Distt: Etah (Uttar Pradesh).
674.	Kisan Majdoor Berojgar Sangh	Village-Jaitpur, Post-Phaphund, Oraia, Uttar Pradesh
675.	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow (Uttar Pradesh).
676.	Kisan Naujawan Party	Rajendra Nagar, Karmer Road, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh.
677.	Kisan Samaj Morcha	Bichola Bhood, Post–Patriya, Tahsil–Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.
678.	Kisan Samaj Party(S)	Jhinnapurva, Post – Dhakherva Nankar, Tehsil – Nighasan, Distt. – Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
679.	Kisan Sena	Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau, Kannauj, UTTAR PRADESH.
680.	Kisan Shakti Jantantrik Party	H. No. 12/445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.- Muradabad, Uttar Pradesh.
681.	Kisan Vikas Party	Abdul Pura, Distt. Meerut, (Uttar Pradesh).
682.	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).
683.	Kishore Raj Party	L-2/601, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
684.	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
685.	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir – 767 001, Orissa.
686.	Kosal Party	G.M. College Road, Sambhalpur-768004 (Orissa).
687.	Kosi Vikas Party	Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.
688.	Kranti Dal	132, Babuganj, Lucknow (U.P.).
689.	Kranti Kari Jai Hind Sena	C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.
690.	Kranti Parishad	House No. 2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).
691.	Krantikari Berozgar Party	H. No. 86, Vinoba Ward, Ward No. 6, Behind Jain Temple, Govt. Girls School Road, Sihora District, Jabalpur-483 225, (Madhya Pradesh).
692.	Krantikari Kisan Sena	C-221, Old Meenal Residency, Raj Homes, J.K. Road, Bhopal-462023, Madhya Pradesh.
693.	Krantikari Manuwadi Morcha	F-62, Sector-11, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
694.	Krantikari Samajwadi Party Lohia	18/22, Taskand Marg, Mool Chand Yadav Chouraha, Civil Lines, Allahabad (U.P.).
695.	Krantikari Samta Party	B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai, Chandauli, UTTAR PRADESH.
696.	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No. 26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar).

697.	Krantikari Vikas Dal	78/09C, Mohalla- Birsa Adivasi Colony, Post-Guljarbagh, P.S.-Alamganj, Distt.-Patna-800007, Bihar.
698.	Krantisena Maharashtra	5-A, Jyotisadan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.
699.	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
700.	Labour And Job Seeker's Party of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
701.	Labour Party (Secular)	382/4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009.
702.	Labour Party Of India (V.V. Prasad)	B – 5, Kanti Nagar, Delhi –110051.
703.	Labour Samaj Party	Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
704.	Labour Vikas Party	1407, New Preet Nagar, Tibba Road, Ludhiana (Punjab).
705.	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.
706.	Lairam People Party	Hqrs. Lawngtlai, P.O.-Lawngtlai-796891 (Mizoram).
707.	Lal Morcha	RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi – 110018
708.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
709.	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.
710.	Life Peaceful Party	Sarvadharm Bhawan, Hindu-Muslim Viswa Shanthi Ashrama and Komusowharda Vishwashanthi, Sarvadharm Ashrma Trust, Rajanagara, Poona-Bangalore Road, Tumkur-572 106 (Karnataka).
711.	Lok Awaz Dal	Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.
712.	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
713.	Lok Bharati	88/703, Motilal Nagar No. 1, Goregaon (W), Mumbai – 400 104, Maharashtra.
714.	Lok Dal	Central Office, 8, Mall Avenue, Lucknow (Uttar Pradesh).
715.		Lok Ekta Party S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant., Varanasi – 221 002, Uttar Pradesh.
716.	Lok Hit Party	Basti Abdulapura, Ludhiana-3 (Punjab).
717.	Lok Jan Vikas Morcha	Kachahri Road, Thana-Kotwali, P.O. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.
718.	Lok Manavadhikar Party	C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony, Chhittapur, Varanasi-221002, Uttar Pradesh.
719.	Lok Paritran	"Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar - II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).
720.	Lok Parivartan Party (DC)	Bhapra Road, opposite Police Chowki, G.T. Road, Samalkha District-Panipat, Haryana.
721.	Lok Rajya Party	221/20, Geet Gunjan Society, Sector-2, Charkop, Kandivali (West), Mumbai-400067, (Maharashtra).

722.	Lok Satta Party	5-10-180/A & A-1, Bandline, Adarsha Nagar, Hyderabad - 500001, Andhra Pradesh.
723.	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.
724.	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.
725.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
726.	Loknaya Party	172/3 C, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007.
727.	Loko Sanmilon	P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.
728.	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
729.	Loksangram	H. No. 1321, Lane No. 4, Dhule - 424001, Maharashtra.
730.	Loksena	63/H/S, Madan Mohan, Burman Street, Kolkatta-700007, West Bengal.
731.	Lokshasan Party of India	S. No. 67, Plot No. 25, Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanagar, Pune - 411032, MAHARASHTRA.
732.	Loktantra Congress Party	E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
733.	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).
734.	Loktantrik Jan Samta Party	C-7/166, Yamuna Vihar, Delhi-110053.
735.	Loktantrik Janata Party (Secular)	Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.-Siwan, Bihar-841231.
736.	Loktantrik Morcha Himachal Pradesh	212, Jawahar Sadan, Shimla-171004, Himachal Pradesh.
737.	Loktantrik Rashtravadi Party	25, Gopal Park, Maya Cinema Road, Kuber Nagar, Ahmedabad, GUJARAT.
738.	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A. Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
739.	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001. (Bihar).
740.	Loktantrik Sarkar Party	C/o P.K. Kharia, Advocate, Shatabdi Chamber No. 1, District Court, Mandla - 481 661, Madhya Pradesh.
741.	Loktantrik Sarvjan Samaj Party	B-103, Sapna Apartment, Ramnagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025 Bihar.
742.	Loktantrik Janata Front	D-351/12, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
743.	M.G.R. Kazhagam	11, Sadasivam Street, Gopalapuram, Chennai-600086 (Tamil Nadu).
744.	M.G.R. Mannetra Kazhagam	Konnoor High Road (Canal Area) Otteri, Chennai-600012 (Tamil Nadu).
745.	Maa Telangana Party	8-2-540/4, Road No. 4, Banjara Hills, Hyderabad, (Andhra Pradesh).
746.	Maanila Konghu Peravai	No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.
747.	Maatra Bhoomi Raksha Dal	205, B-30, Prakash Trade Centre, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110 092.
748.	Madhya Pradesh Kisan Mazdoor Adivasi Kranti Dal	Vidhayak Vishram Girh, Room No. 95, Part-III, Bhopal-462 003, (Madhya Pradesh).
749.	Madhya Pradesh Loktantrik Party	19-Durga Colony, Sanjivani Nagar, Gadda, Jabalpur-482003 (Madhya Pradesh).

750.	Madhya Pradesh Nav Nirman Sena	2983, Prince Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004, Madhya Pradesh.
751.	Maha Loktantra Party	351, Nirmal Nagar, Pili Kothi, Kidganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
752.	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No. 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu).
753.	Mahagujarat Janta Party	A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.
754.	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).
755.	Mahan Dal	A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.
756.	Maharashtra Pradesh Krantikari Party	At. Post-Tal. Koregaon, Koregaon, Distt. Satara (Maharashtra).
757.	Maharashtra Rajiv Congress	Dr. Babasaheb Ambedkar Nagar, Near Bus Stop, No. 379, P.L. Lokhande Marg, Chembur, Mumbai-400089 (Maharashtra).
758.	Maharashtra Secular Front	Hill View, 109, A/2, Vaishali Nagar, (S.V.P. Road, Dharkhadi), Dahisar (East), Mumbai-68, (Maharashtra).
759.	Maharashtra Vikas Aghadi	Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra.
760.	Maharashtra Vikas Congress	At & Post-Jalgaon, Distt. Jalgaon-425001 (Maharashtra).
761.	Mahashakti Inqalab Party	Tigri, Khushhalpur, Muradabad, Uttar Pradesh.
762.	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
763.	Mai Hee Bharat	2A, "Royal" Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.
764.	Maidani Kranti Dal	Headquarters Majid Wali Gali, Mazra, Dehradun (Uttaranchal).
765.	Majdoor Kisan Akali Dal	Village - 75 GB, Post Office - 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil - Anoopgarh, Distt. - Ganganagar, Rajasthan.
766.	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251 001.
767.	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).
768.	Makkal Congress Vazhapadiyar	18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.
769.	Makkal Desiya Jananayaka Katchi	245/6, R. K. Mutt Road, Mylapore, Chennai - 600004, Tamil Nadu.
770.	Makkal Manadu Katchi	82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai - 600020, Tamil Nadu.
771.	Makkal Nalaurimaik Kazhagam (People's Liberal Party)	629, Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu).
772.	Makkal Sakthi Katchi	New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2 nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai- 600015, Tamil Nadu.
773.	Makkal Tamil Desam	14, Hanumantha Road, Balaji Nagar, Royapettah, Chennai-600014, Tamil Nadu.

774.	Makkal Vilipunarvu Eyakkam	Seeranampalayam, Palakkarai-638057, Thudupathi (via) Perundurai Taluk, Erode District, Tamil Nadu.
775.	Mana Party	5-4-719, Kattelamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.
776.	Manav Ekta Party	Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur, District – Dhule, MAHARASTRA.
777.	Manav Jagriti Manch	552, Bank Colony, Devli Village, New Delhi-110062.
778.	Manav Kalyan Sangh Dal	Gadi Sthan-Mehtwara, Tahsil Astha, District Sehore (Madhya Pradesh).
779.	Manav Mukti Morcha	Hameedganj Ward No. – 13, Ahead the Patthar Mill, PO. Medini Nagar – 822 101, Distt. Palamu (Jharkhand).
780.	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
781.	Manav Sewa Party	C-6/28, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016.
782.	Manava Party	G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka).
783.	Manavadhikar Janshakti Party	J-6/7-B-D, Near Police Station, Jaitpura, Varanasi, Uttar Pradesh-221001
784.	Manavtawadi Samaj Party	638/307, Village – Jarahra, Indira Nagar, Lucknow - 05, Uttar Pradesh.
785.	Manipur Democratic People's Front	Lairik Yengbam Leikai (South), Opposite-33KV Electric Sub-Station, Near K.M. Tower, Tirupati Lane, Imphal East – 795010 Manipur.
786.	Manipur People's Party(Democratic)	Qtr. No. 1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
787.	Manithaneya Makkal Katchi	3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street, Chennai- 600001, Tamil Nadu.
788.	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucnow-226004, Uttar Pradesh.
789.	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhimtuipui District (Mizoram).
790.	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	“THAYAGAM” No. 141, Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai-600008 (Tamil Nadu).
791.	Marumalarchi Thamizhakam	1/19, Onangudi (P.O.) Arimalam (Via) Pudukkottai District, Tamil Nadu.
792.	Marxist Communist Party of India (S.S. Srivastava)	Saidpur, Patna-800004 (Bihar).
793.	Marxist Co-ordination	115 MLA Flat, Bir Chand Patel Path, Patna-800004 (Bihar).
794.	Maryadi Dal	Gram Panchayat Chhoukarwada, Tehsil – Vair, District – Bharatpur, Rajasthan.
795.	Matra Bhakta Party	Raghunath Farm, Village + Post – Kundli, Sonapat, Haryana.
796.	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).
797.	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.
798.	Meydhaa Party	13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.

799.	MGR Thonderkal Katchi	No. 4, Gandhi Street, Anandapuram, East Tambaram, Chennai-600059, Tamil Nadu.
800.	Ministerial System Abolition Party	25, Burtolla Street, Kolkata.
801.	Minorities Democratic Party	13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).
802.	Mizoram Congress Party	Headquarters: Aizawal, Mizoram – 796 001.
803.	Moderate Party	Village – Khakhari (Maghara Chauraha P.O. Balepur Kalan, District – Devariya, Uttar Pradesh.
804.	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
805.	Mool Bharati(S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga-142001 Distt. Faridkot (Punjab).
806.	Moolniwasi Samaj Party	Village – Maghaipur, Post – Maharajganj, Janpad – Ajamgarh – 276137 Uttar Pradesh.
807.	Moovendar Munnetra Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madhurai-625 107 (Tamil Nadu).
808.	Most Backward Classes of India	Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155, Uttar Pradesh.
809.	Moulik Adhikar Party	Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.
810.	Mudiraj Rashtriya Samithi	Mudiraj Bhavanam, H. No.6-7-537/1, New Boignda, Secunderabad-500003 (Andhra Pradesh).
811.	Mukt Bharat	H-22, Kailash Colony, New Delhi- 110048.
812.	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).
813.	Naari Shakti Party	C/11, Sunderdham, Rambauglane, Off. S.V. Road, Borivali (W), Mumbai-400 092 (Maharashtra).
814.	Nag Vidarbha Andolan Samiti	Paradesi Telepura, Bajeeriya, Near Shukla Lodge, Nagpur-440018 (Maharashtra).
815.	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
816.	Nagaland Democratic Party	Post Box No. 95, Dimapur, Nagaland, Pin-797112.
817.	Nagrik Chetna Party	Sarvodaya Nagar, Teachers Colony, Pilakhua, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
818.	Nagrik Ekta Dal	B-15, Deen Dyal Nagar, Phase-II, M.D.A. Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
819.	Nagrik Ekta Party	19/1168, Indira Nagar, Lucknow, UTTAR PRADESH.
820.	Naitik Party	314, City Center, Near Press Club, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
821.	Naki Bharatiya Ekta Party	Ward No. 1, Mohalla - Harijan Wala, Kithore, Meerut, UTTAR PRADESH
822.	Namadhu Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No. 41, Old No. 18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu.
823.	Namadhu Makkal Katchi	No. 3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
824.	Narayani Sena	Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.

825.	National Citizens Party	Flat No. 202, Sri Rama Nivas, Behind Maruti Towers, Kuakatpally, Hyderabad-500 072, Andhra Pradesh.
826.	National Congress of Youth	Post Box No. 6204, 2A/37-38 Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
827.	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).
828.	National Democratic Peoples Front	C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
829.	National Development Party	House No. A-8-2, Multani Colony, Bidar – 585 401, Karnataka.
830.	National Future Party	Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.
831.	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.
832.	National Lokhind Party	C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
833.	National Lokmat Party	88/336, Chamanganj, Kanpur, Uttar Pradesh.
834.	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001 (Uttar Pradesh).
835.	National Minorities Party	7A-Junction S.V. Road and Bandra Railway Station Road, Opp. Lucky Hotel, Bandra (W), Mumbai-400050 (Maharashtra).
836.	National Organisation Congress	No. 1, Jeevananandam, Salia, K. K. Nagar, Chennai-600078 (Tamil Nadu).
837.	National Party	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).
838.	National Republican Party	T-42/6. Old Barracks, Chamber Camp, Mumbai – 400074 (Maharashtra).
839.	National Secular Conference	MISFA, Koduvally(P.O.), Kozhikode DT., Kerala-673572.
40.	National Secular Party	C-20/B, 1st Floor, Green Park Extention, New Delhi-110 016.
841.	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
842.	National Tiger Party	C/o Rahul Telecom Center, B-Block, Shahbad Dairy, D.T.C. Pass Section (Behind Main Bus Stop), Shahabad Dairy, Delhi – 110042.
843.	National Vikas Party (India)	B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar, Jaipur-302023, Rajasthan.
844.	National Welfare Party	28/18, Anna Street, Senguttai, Katpadi, Vellore-632 007 Vellore District, Tamil Nadu.
845.	National Youth Party	Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector – 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
846.	Nationalist Charity Congress	Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuckaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.
847.	Nationalist Party of India	5A, Beli Road, Allahabad-211002 (Uttar Pradesh).
848.	Nationalist People's Front	S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)

849.	Nationalistic Telangana Rashtra Samithi	23-6-431/1, Gowlipura, Hyderabad – 500265, Andhra Pradesh.
850.	Native People's Party	H.O. Gote Nivas, Tisgaon Road, Kalyan (East)-421306. (Maharashtra).
851.	Nav Maharashtra Vikas Party	C-6, Bhaskar Darshan, Arunoday Nagar, Mulund East, Mumbai-400081 (Maharashtra).
852.	Nav Samaj Dal	102-C, Gaytri Nagar, Allahabad-211004 Uttar Pradesh.
853.	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).
854.	Nava Telangana Party	House No. 8-2-598/B, Road No. 8, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.
855.	Navbharat Nirman Party	30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.
856.	Navin Bharat Nirman Manch	Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.
857.	Navjawan Sangharsh Morcha	D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand-822112.
858.	Navodyam Party	D. No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh.
859.	Naya Daur Party	A-406, Defence Colony, New Delhi-110024.
860.	Nehru Janhit Congress	Sainipura Mohalla, Badshahpur, Tehsil & Distt.–Gurgaon, Haryana.
861.	Nelopa (United)	B.D.O. Building, Durga Devi Marg, Sheesh Mehal, Hussenabad Chowk, Lucknow (Uttar Pradesh).
862.	Nesavaalar Munnetra Kattchi	No. 34, Koladi Road, Thiruverkadu (P.O.), Chennai (Tamil Nadu).
863.	Netaji Congress Sena	Ranga Building, S. No. 123, Katraj P.O., Pune – 411 046, (Maharashtra)
864.	Netaji Subhash Chander Bose Rashtriya Azad Party	Mohalla – Gayatri Nagar, City & Post – Banda, Distt. Shahjahanpur Uttar Pradesh – 242402.
865.	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
866.	New Democratic Party	Mann Homeopathic Medical Centre, Near Mahavir Chowk, D.C. Kothi Road, Sangrur-148001 Punjab.
867.	New Democratic Party of India	2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh, NEW DELHI-110005.
868.	New India National Movement	2, Bigcity House, Behind Maszid, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001.
869.	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani-505209, Distt. Karimnagar (Andhra Pradesh).
870.	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap Complex Opp. Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Gujarat.
871.	News Congress	Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo, Mumbai – 400 034, Maharashtra.
872.	Nidaya Malik (N) Party	242, Civil Lines, Gaunda, Distt. Gaunda-271001 (Uttar Pradesh).
873.	Nirjatita Samaj Biplabi Party	Village –Durgapur P.O. Haritala (Bagula), Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502.

874.	Nissabada Bhooripaksham	113, Pattukal Shopping Complex, IInd Floor, East Fort, Trivendrum Fort, P.O. Trivendrum, Kerala.
875.	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand, Mahendregarh, Haryana.
876.	Noorie Party	102, Kadodra – Bardoli Road, Surat, Gujarat.
877.	NTR Telugu Desam Party (Lakshmi Parvathi)	Road No. 13, Banjara Hills, Hyderabad-500034 (Andhra Pradesh).
878.	Nyaynishth Prajatantra	Central Head Quarter and P.O. – Dewar (Gopeshwar)-246401, District Chamoli, Uttranchal.
879.	Ojaswi Party	Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment, Patparganj, Delhi-110092.
880.	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
881.	Orissa Congress	Q. No. D.S. 1/19, MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar –750001 (Orissa).
882.	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.
883.	Orissa Mukti Morcha	15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.
884.	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
885.	Pachai Kudi Makkal Katchi	No.7, Kamarajar Street, Pallikkarana, Chennai-601302 (Tamil Nadu).
886.	Pahachan Mangalkari Party	L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.
887.	Panchal Morcha	137 B-1, Gautam Nagar, New Delhi-110049.
888.	Panchayat Raj Party	106, Pocket A-3, Sector-3, Rohini, New Delhi – 110034.
889.	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.
890.	Parivartan Samaj Party	Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.
891.	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
892.	Party Kisan Mazdoor Vyapari	Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Prakritik Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh).
893.	Parvatiya Punrutthaan Parishad	64, 1st Floor, Adhchini, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110016.
894.	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).
895.	Paschimanchal Vikas Party	Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. – Sambalpur, Orissa-768001.
896.	Paschimbanga Ganatantrik Mancha	Flat No. 56, Block-H, C.I.T. Building, Christopher Road, Kolkata-700014 (West Bengal).
897.	Paschimi Prajatantra Morcha	386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh
898.	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
899.	Patriot	28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.
900.	Patriotic Party of India	4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.

901.	Pavitra Hindustan Kaazhagam	11, Harish Chandra Mathur Lane, New Delhi-110001.
902.	Peace Party	Johra Complex, Barhalganj, PO- Barhalganj, Zila – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
903.	Peasants And Workers Party of India	Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).
904.	Pedarikam Nirumulana Party	D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.
905.	People's Democratic Front	H.Q. Guwahati, H.O. Udalgiri, Distt. Darrang, Bodoland (Assam).
906.	People's Justice Party	'KAAR ARUL', A-87, Kandasamy Salai, 8th Street, Periyar Nagar, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
907.	People's Party of India (Secular)	Duplex-38, Saileshree Vihar, Chandershekharpur, Bhubaneshwar-751021, Orissa.
908.	People's Party of Punjab	7112, Ward No. 2, Malout Road, Gidderbaha (Mukatsar), Punjab-152101.
909.	People's Democratic Conference of India	Bankra, Post Office – Birati, Kolkata – 700051, West Bengal.
910.	People's Democratic Forum	C-177, Sector 'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).
911.	Peoples Democratic League of India	Building No. 25, Flat No.8, Chitnavisnagar Layout, Byramji Town, Near Mental Hospital, Nagpur-13 (Maharashtra).
912.	People's Democratic Movement	Mawlai Nongkwar, Shillong-793 008 (Meghalaya).
913.	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).
914.	Peoples Green Party	19C/1, Jeevan Jyoti Appartments, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi-110030.
915.	Peoples Guardian	D-302, Blue Hills, Nagar Road, Pune (Maharashtra) – 411 006.
916.	Peoples Movement of India	9/215/22, Yojna – 3, Sector –9, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh – 211 019.
917.	Peoples Power Party	P.B.No. 16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.
918.	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
919.	Perunthalaivar Makkal Katchi	'NRD Towers', First Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600 083 Tamil Nadu.
920.	Phule Bharti Lok Party	Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.
921.	Pichhra Samaj Party	Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.
922.	Plains Tribals Council of Assam	P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).
923.	Political Party of National Management Service	C-546, Defence Colony, New Delhi-110024.
924.	Pondicherry Mannila Makkal Munnani	17 Kumran Street, Kamarajar Nagar Pondicherry-605001.
925.	Poorvanchal Rashtriya Congress	Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1st Floor, Rohini, Delhi-110085.
926.	Prabuddha Bharat Party	7A, Hospital Street, 1st Floor, Kolkata – 700072, West Bengal.
927.	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.

928.	Pragatisheel Magahi Samaj	H. No.605/334, Ward No. 44, Mohalla – Madaanpur (Akshayvat), Thana – Civil Lines, Distt. – Gaya, Bihar.
929.	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).
930.	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007 (Uttar Pradesh).
931.	Pragatisheel Samaj Party	58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
932.	Praja Bharath Party	Plot No. 106, Block 'A', Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)
933.	Praja Chaithanya Party	1-7-578/31/2, Gemini Colony, Musheerabad, Hyderabad, Aandhra Pradesh.
934.	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderabad-500029 (Andhra Pradesh).
935.	Praja Shanthi Party	382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.
936.	Prajashakti Party Samdarshi	Shri Ram Sadan – 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Raod, Hargaon, Janpad – Sitapur, Uttar Pradesh.
937.	Prajatantra Aadhar Party	46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedbad-382345, Gujarat.
938.	Prajatantrik Bahujan Shakti Dal	T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
939.	Prajatantrik Lok Ekta Dal	3, Koutilya Marg, Patna – 800 001, Bihar.
940.	Prajatantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.-Sihore, Madhya Pradesh.
941.	Prem Janata Dal	H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
942.	PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
943.	Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
944.	Professionals Party of India	2-C, Kirtinagar No. 1, Vadgaon Budruk, Pune – 411 041, Maharashtra.
945.	Progressive Democratic Party	Village and Post-Surjawali (Salempur), District-Bulandshahar-203001, Uttar Pradesh.
946.	Progressive People's Party	House No.-975,976, Shyam Colony, Budh Vihar Phase-II, Near Krishna Mandir, P.S.-Vijay Vihar DELHI-110086.
947.	Proutist Bloc, India	C/o Shri R.P. Deo, JD-5, Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi -110017.
948.	Proutist Sarva Samaj	Sewa Niketan Compound, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.
949.	Public Development Party	Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh.
950.	Public Party	Iqbal Mahal, 234-A, Atala, Allahabad-211003, Uttar Pradesh.
951.	Public Political Party	H.N. 43, Village Shukulpur(B), Juhi, Teshil – Lalganj-Hazara, Distt.- Pratapgarh, Uttar Pradesh.

952.	Puducherry Padaippali Makkal Katchi	No. 4, First Street, Thendral Nagar, Puducherry - 605013.
953.	Punjab Janata Morcha	Panj Pir, Jalandhar City -144001 (Punjab).
954.	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan, Tehsil – Malot, Distt. – Muktsar, Punjab
955.	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).
956.	Punjab Pradesh Vikas Party	H.O. HIG-970, PHB Colony, Urban Estate, Focal Point, Ludhiana (Punjab).
957.	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
958.	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
959.	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
960.	Purvanchal Gan Parishad	P.P. Tower-X, Plot No. 10, Sector – 5, Rohini, Delhi – 110085.
961.	Purvanchal Janshakti Party	Shree Vishveshwar Ashram Satuabhar, Post – Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.
962.	Purvanchal Rajya Banao Dal	374, Bakshipur, (Near the North of Power House), Distt.-Gorakhpur, Uttar Pradesh.
963.	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No. 5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
964.	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
965.	Puthiya Tamilagam	132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).
966.	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501, (Andhra Pradesh).
967.	Quami Ekta Dal	H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar, District - Mau, Uttar Pradesh.
968.	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
969.	Quami Party	930, Street No.30/7, Jafrabad, Delhi – 110053.
970.	Rahbar Party	Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen, Tehsil & Distt. Raysen-464551, MADHYA PRADESH.
971.	Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand, Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.
972.	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.
973.	Rajasthan Samajik Nyaya Manch	5/8, Vidhayak Nagar (West), Opposite New Vidhan Sabha, Jyoti Nagar, Jaipur, Rajasthan.
974.	Rajasthan Veer Sena	1-8-17 (SFS), Dr. Sheela Chowdhary Road, Talwandi, Kota-324005 (Rajasthan).
975.	Rajasthan Vikas Party	43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road, Jaipur-302012. (Rajasthan).
976.	Rajdal Haryana	D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.
977.	Rajiv Makkal Congress	No. 16 (Old No.18), Viswanathapuram, III Street, Kodambakkam, Chennai-600024, Tamil Nadu.

978.	Rajlok Party	B-123, Street No. 8, Kamal Vihar, Burari, Delhi – 10084.
979.	Rajya Nojawan Shakti Party	Near Gandhinagar Police Station, Jammu, Jammu & Kashmir.
980.	Rajyadhikara Party	H.No.10-4-A/390, Addagutta, East Marredpally, Secundarabad-17, Andhra Pradesh.
981.	Rakshaka Sena	No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura, Bangalore-560024.
982.	Ramrajya	Marg No. 17, Venus Colony, Second Street Alwarpet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
983.	Rani Chennamma Party	Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag-582 101, Karnataka.
984.	Rashtra Bhakt Dal	Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi, Khatipura Road, Jhotwada, Jaipur – 302 012, Rajasthan.
985.	Rashtra Hith Party	706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office, S.G. Barve Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070 Maharashtra.
986.	Rashtra Nirman Party	D-125, Defence Colony, New Delhi-110024.
987.	Rashtra Sewa Dal	85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna – 800001, Bihar.
988.	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District – Yamuna Nagar, Haryana.
989.	Rashtra Suraksha Parishad	Kothi No. A-2/79, Paschim Vihar, New Delhi-110063.
990.	Rashtrasamarpit Jansmooh	3-A, Shyam Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051.
991.	Rashtravadi Aarthik Swatantrata Dal	E-30, Sector – 52, Noida, Zila –Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh – 244901.
992.	Rashtravadi Communist Party	Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
993.	Rashtravadi Janata Party	Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.
994.	Rashtravadi Pratap Sena	Village – Narayanpur Banska, P.O. – Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
995.	Rashtravadi Vikas Dal	A-37, Sector-26, Noida-201301, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
996.	Rashtrawadi Jantantrik Party	Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014 UTTAR PRADESH.
997.	Rashtrawadi Labour Party	D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi – 110085
998.	Rashtrawadi Samaj Party	16/17, Civil Lines, Near PadamApartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
999.	Rashtrawadi Samta Party	196/187 K, Village-Balipur Khurdwan, Tehsil-Gauriganj, Distt. Chhatrapati Shahuj Mahara Nagar, UTTAR PRADESH.
1000.	Rashtrawadi Sena	Main Shahdra Chowk, Delhi – 110032
1001.	Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party	Plot No. 4, Pushpak Nagar, Junwani Road, Bhilai, Disst. Durg, Chhattisgarh-490020
1002.	Rashtriya Adarsh Party	Pitthuwalla Khurd, Chanderbani, Dehradun, Uttarakhand.
1003.	Rashtriya Agraniye Dal	Village – Khamona, Post – Resipur, P.S. – Jansa, District – Varansi, Uttar Pradesh.
1004.	Rashtriya Ahinsa Manch	132/1, Mahatama Gandhi Road, Kolkata –700 007.

1005.	Rashtriya Aikta Manch Party	D-91, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041.
1006.	Rashtriya Aman Sena	Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No. 9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai, Maharashtra-400043.
1007.	Rashtriya Ambedkar Dal	Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar, Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1008.	Rashtriya Apna Dal	House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allapur, Allahabad, UTTAR PRADESH.
1009.	Rashtriya Arya Raj Sabha	769/2, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak-124001, Haryana.
1010.	Rashtriya Awami Dal	152, Kazi Tola, Sailani Road, Old City, Bareilly-243005, Uttar Pradesh.
1011.	Rashtriya Backward Party	1/44, Shanti Nagar, Etah-207001 UTTAR PRADESH
1012.	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1013.	Rashtriya Bahujan Ekta Party	Alok Nagar, Air Force, Bareilly-243122 (Uttar Pradesh).
1014.	Rashtriya Bahujan Hitay Party	C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034.
1016.	Rashtriya Balmiki Sena Paksha	Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhal, Pune-411 031 (Maharashtra).
1015.	Rashtriya Bandhutwa Party	554, Mamfordganj, Allahabad Uttar Pradesh.
1017.	Rashtriya Bhagidari Samaj Party	86-B, DDA Flats, Masjid Moth, Phase-II, Greater Kailash Part III, New Delhi-110 048.
1018.	Rashtriya Bhrasthachar Virodhi Morcha	Central Office: Shivaji Nagar, Abu Parbat, 307501, Distt. Sirohi (Rajasthan).
1019.	Rashtriya Congress (Babu Jagjivanram)	Ward No. 45, Mohalla – Baldevpuri, Janpad – Muradabad, Uttar Pradesh.
1020.	Rashtriya Congress (J.) Party	Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh, Muradabad, Uttar Pradesh.
1021.	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
1022.	Rashtriya Deshaj Party	Tungari Toli, Argora, St. Francis School, Post - Harmu, Distt. Ranchi Jharkhand - 834012.
1023.	Rashtriya Deshbhakt Party	B-61, Shanker Garden, Vikas Puri, New Delhi-110018.
1024.	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh).
1025.	Rashtriya Ekta Party	H. No. 83, Ground Floor, Gali No. 4, Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi – 110053.
1026.	Rashtriya Garib Dal	110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.
1027.	Rashtriya Garima Party	B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).
1028.	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223, Chhattisgarh.
1029.	Rashtriya Gram Vikas Party	62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar Uttarakhand

1030.	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghori Bachera (Dadri), District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1031.	Rashtriya Gurujan Party	Gurujan Vidyabhuvam, Doodh Sagar Marg, Rajkot – 3, Gujarat.
1032.	Rashtriya Hamara Dal	22/191, Dholi Khar, Mantola, Agra (Uttar Pradesh).
1033.	Rashtriya Hindu Sangathan	30, Jati Colony, Ram Bagh, Opposite Sainath Mandir, Indore, Madhya Pradesh.
1034.	Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka	Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.
1035.	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
1036.	Rashtriya Indira Party	Dattपुरा, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).
1037.	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.
1038.	Rashtriya Jan Sahay Dal	112, New Connaught Place, Dehradun, Uttaranchal.
1039.	Rashtriya Jan Samanatawadi (Ambedkar)	71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.
1040.	Rashtriya Jan Sangam	Sharma Kunj, Shivpuri, Bulandshahar (Uttar Pradesh).
1041.	Rashtriya Jan Sansad	Shakti Nagar, Old G.T. Road, Khurja, Distt. – Bulandshahar-203131, UTTAR PRADESH.
1042.	Rashtriya Jan Sewak Party	Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.
1043.	Rashtriya Janadhikar Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.
1044.	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	Village: Krishnapur, Post: Dhopathat Krishnapur, Distt: 24 Parganas (South), West Bengal.
1045.	Rashtriya Janandholan Paksha	“Powrabhavan”, No. 567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).
1046.	Rashtriya Janasachetan Party(R.J.P.)	Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally), (Near Shib Mandir) P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150. West Bengal.
1047.	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
1048.	Rashtriya Janhit Party	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
1049.	Rashtriya Jan-Jagram Morcha	Raj Manzil, Ward No. 12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.
1050.	Rashtriya Janmat Party	Village – Fatuha, Post – Hanumanganj, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
1051.	Rashtriya Janmorcha	C-69/10, Gali No. 10, C Block, Mustafabad, Delhi-110094.
1052.	Rashtriya Janpriya Party	H-II-76/D, LDA Colony, Kanpur Road. Lucknow-226012, UTTAR PRADESH.
1053.	Rashtriya Janrakshak Party	Village – Birjapur, Post – Aduki, Distt. Mathura UTTAR PRADESH
1054.	Rashtriya Jansangh	Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh.

1055.	Rashtriya Jansevak Parishad	Devkanya Sadan, Near Water Tank, Tripolia Road, Banswara-327001 (Rajasthan).
1056.	Rashtriya Janseva-Secular Party	428, Brahman Wara, Old Ward No. 23, Ballabgarh-121004, Distt. - Faridabad, Haryana.
1057.	Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)	Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.
1058.	Rashtriya Janshanti Party	52/2, School Ward Chawk, Behind G.G.I.C., Pratapgarh-230001, Uttar Pradesh.
1059.	Rashtriya Janta Congress	A-4, Swaran Singh Road, Adarsh Nagar, New Delhi-110033.
1060.	Rashtriya Janta Party	Near of Shiv Mandir Colony, Saorkha Jahidabad, Sector – 115, Noida, Distt. - Gautambudhnagar, UTTAR PRADESH.
1061.	Rashtriya Jantantra Paksh	24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector – IX, Rohini, Delhi – 110085
1062.	Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party	Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.
1063.	Rashtriya Jantantrik Dal	Shukla Bhavan, Budhapara, Raipur-429 001, Chhattisgarh.
1064.	Rashtriya Jantantrik Party (Secular)	Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).
1065.	Rashtriya Janutthan Party	A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar – 208021, Uttar Pradesh.
1066.	Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)	9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Luknow-226016.
1067.	Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party	788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001 Haryana.
1068.	Rashtriya Kalyan Paksha	904, Atlanta Towers, Inqualab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.
1069.	Rashtriya Kamgar Party	B.W – 97 D, Shalimar Bagh, Delhi – 110088
1070.	Rashtriya Kamjor Varg Party	Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).
1071.	Rashtriya Karmyog Party	Village & P.O. – Sultanpur, Tehsil – Nilokheri, Distt. – Karnal, Haryana-132116.
1072.	Rashtriya Kisan Congress Party	H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra.
1073.	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).
1074.	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
1075.	Rashtriya Kranti Party	Lodhi Pragyaapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District: Etah – 207 001, Uttar Pradesh.
1076.	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi –110043.
1077.	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.

1078.	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party	House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.
1079.	Rashtriya Lok Jagriti Party	Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar – 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.
1080.	Rashtriya Lok Nirman Party	M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.
1081.	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
1082.	Rashtriya Lokhit Party	A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1083.	Rashtriya Lokmanch	1303, Naurang House, B-Block, 21-Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI-110001.
1084.	Rashtriya Lokwadi Party	A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi – 110015.
1085.	Rashtriya Machhua Samaj Party	Railway Road, Dadri, Near Ravaji Farm House, Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)
1086.	Rashtriya Maha Janshakti Dal	Room No.17, M. Naresh Munna Chawl, Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East, Mumbai-400 051, Maharashtra.
1087.	Rashtriya Mahan Dal	108/60, Avas Vikas Colony, Village – Taimurpur, Post – Bijnaur, Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.
1088.	Rashtriya Mahan Gantantra Party	H. No. 1488, Anna Nagar, Sector – B, Post – Govindpura, Bhopal – 462023, MADHYA PRADESH.
1089.	Rashtriya Mahasangh	N.R. Complex, Opp. Nagar Palika Office, Ajmer – 305001 (Rajasthan).
1090.	Rashtriya Mahashakti Party	5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West, Mumbai-400056 Maharashtra.
1091.	Rashtriya Mahila Janshakti Party	Gram Sabha – Saintha Jiginiya, Post – Kanta Guljarpur, Block – Fatehpur, Distt. – Unnao, Pin-209801 UTTAR PRADESH.
1092.	Rashtriya Manav Adhikar Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
1093.	Rashtriya Manav Ekta Congress Party	Opp. Gurudwara, Station Road, Raipur, Chhattisgarh.
1094.	Rashtriya Manav Kalyan Sangh	280, D.D.A. Flat, Pocket-1, Phase-1, Sector-23, Dwarka, New Delhi-45.
1095.	Rashtriya Manav Samman Party	H-16/147, G.F. Sangam Vihar, New Delhi-110062.
1096.	Rashtriya Mangalam Party	19/23, West Moti Bagh, Street No. 3, Sarai Rohilla, Delhi – 110035.
1097.	Rashtriya Matrabhoomi Party	1265 – Sector – 17C, Gurgaon, Haryana.
1098.	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No. 57, Burari Road, Delhi – 110009.
1099.	Rashtriya Morcha Party	H.No. 57, Village – Manesar, Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon, Haryana-122050.
1100.	Rashtriya Naujawan Dal	20/575, D.D.A. Flat, Dakshinpuri, New Delhi– 110062.
1101.	Rashtriya Nayay Party	College Road Dehari, Tehsil Nurpur, Distt. Kangara, Pin Code-176 022 (Himachal Pradesh).
1102.	Rashtriya Parivartan Dal	B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.

1103.	Rashtriya Party	Gaya Prasad Dharmshala Complex, Charbagh Sabzi Mandi, Lucknow, (Uttar Pradesh).
1104.	Rashtriya Pragati Party	Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada – 805 110, Bihar.
1105.	Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party	3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.
1106.	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
1107.	Rashtriya Prajantantrik Party	House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.
1108.	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
1109.	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
1110.	Rashtriya Sadhu Vichar Council	Raidipur New Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.
1111.	Rashtriya Sahara Party	Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.
1112.	Rashtriya Sakar Party	G-12, Gupta Tower-1, Near Mother Dairy, Vikas Puri, Delhi – 110 018.
1113.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.
1114.	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
1115.	Rashtriya Samaj Sevak Dal	Bheera Khiri, Janpad-Khiri-262901 (U.P.)
1116.	Rashtriya Samaj Sudhar Party	Village Thantri, Post Ghodi, Distt. Faridabad (Haryana).
1117.	Rashtriya Samajwadi Apna Dal	Vill. – Basupar (Bankut), Near Shiva Nursing Home, P.O. – Jiyampur, District – Ajamgarh, Uttar Pradesh.
1118.	Rashtriya Samajwadi Congress	S-9/11 B, Premchand Marg, Hukulganj, Varanasi, Uttar Pradesh.
1119.	Rashtriya Samajwadi Jankranti Party	B-37/162, K.P. Giri Colony, Birdopur, Varanasi, Uttar Pradesh.
1120.	Rashtriya Samajwadi Party (Secular)	A/104, Rajshree Avenue, B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat.
1121.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
1122.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).
1123.	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
1124.	Rashtriya Samdarshi Deshbakt Dal	Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.
1125.	Rashtriya Samyawadi Aryan Party	570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.
1126.	Rashtriya Sangharsh Party	Faridabad, Sujanganj, Jounpur-222201 Uttar Pradesh.
1127.	Rashtriya Sant Sandesh Party	263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt.- Latur-413512, Maharashtra.

1128.	Rashtriya Sarvajan Party	124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001, Uttar Pradesh.
1129.	Rashtriya Sarvasamaj Party (India)	Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K.Vaidya Marg, malad (East), Mumbai-400097, Maharashtra.
1130.	Rashtriya Sarvjan Samaj Party	Village & Post – Mandhata, Tehsil – Sadar, Distt. – Pratapgarh, Uttar Pradesh.
1131.	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
1132.	Rashtriya Sawarn Shakti Party	299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi – 110051
1133.	Rashtriya Secular Congress	Ashirvad Apartment, Mathura Dawaraka Road, P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6, ASSAM.
1134.	Rashtriya Shakti Party (India)	80-A, Munirka Village, New Delhi-110067.
1135.	Rashtriya Sindhi Congress	437/B/1, Rubia House, B/H, Ellis Bridge Shopping Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380 006, Gujarat.
1136.	Rashtriya Surajya Parishad	Mrudul Tower, Ground Floor, Kailash Society, H.K. House Lane, Ashram Road Ahmedabad-380009 (Gujarat).
1137.	Rashtriya Surya Prakash Party	C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.
1138.	Rashtriya Swabhimaan Party	104-B-Block, Darulshafa, Lucknow, Uttar Pradesh.
1139.	Rashtriya Swajan Party	Ghagha Ghat Road, Near Malaria Office, Mahendru, Patna-800006 (Bihar).
1140.	Rashtriya Ulama Council	3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road, Azamgarh-276001 Uttar Pradesh.
1141.	Rashtriya Unnatisheel Dal	F.167, Chand Bagh Colony, P.O. Gokulpuri, Delhi – 110094.
1142.	Rashtriya Vikas Party	E-86A, Vishwa Karma Colony, New Delhi - 110044.
1143.	Rashtriya Viklang Party	114, DDA Pocket-2, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045.
1144.	Rashtriya Vyapari Party	F-25, Professor Colony, Kamla Nagar, Agra-282005 Uttar Pradesh.
1145.	Rashtriya Yuva Loktantrik Party	Chamber No. 461, New Chamber Complex, Patiala House Courts, New Delhi-110001.
1146.	Rashtriya Yuva Sangh	E-83, Gali No. 4, New Ashok Nagar, New Delhi – 110096.
1147.	Rashtrorathan Party	Arya Samaj, Kishanpol Bazaar, Jaipur, Rajasthan.
1148.	Rastriya Insaaf Party	House No. 606, Rudra Nagar, District-Sultanpur, Uttar Pradesh.
1149.	Rayalaseema Rashtra Samithi	Door No.22/160, Vasanthapeta, Kadapa District, Proddatur-516360, Andhra Pradesh
1150.	Republican Backward Congress	Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No. 1, M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Disstt. Bhiwani, Haryana-127306
1151.	Republican Janata Party	D-29, Gandhi Vihar, D.D.A. Colony, Mukherjee Nagar, Delhi – 110009.
1152.	Republican Labour Party	Block-4, House No. 236, 7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box –354, Nagaland.
1153.	Republican Movement	Post Box No.117, Tadoba Road, Tukum, Chandrapur – 442401, Maharashtra.

1154.	Republican Paksha (Khoripa)	Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort, Mumbai-400 001, (Maharashtra).
1155.	Republican Party of India	ENSA Hutment, I-Block, Mahapalika Marg, Azad Maidan, Mumbai-400001(Maharashtra).
1156.	Republican Party of India	(Democratic) Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).
1157.	Republican Party of India (Kamble)	11/174, Adarsh Nagar, Prabhadevi, Mumbai-400025 (Maharashtra).
1158.	Republican Party of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).
1159.	Republican Party of India Ektavadi	B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
1160.	Republican Party of India (A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003, (Madhya Pradesh).
1161.	Republican Party of India (Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).
1162.	Republican Presidium Party of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).
1163.	Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).
1164.	Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)	TC 24/113, Panvila, Thycadu, P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.
1165.	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B	Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).
1166.	Sabjan Party	C-1/50, Yamuna Vihar, Delhi-110053.
1167.	Sabka Dal Bharatiya Samajwadi Congress	N-14/169, Sarainandan (Khojva), Varanasi-221010 (Uttar Pradesh).
1168.	Sachet Bharat Party	13/A/5, Shivaji Nagar, No.1, Govandi, Mumbai-43 (Maharashtra).
1169.	Sadan Vikas Party	North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No. 276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.
1170.	Sadbhavana Party	Room No.14, Ist Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
1171.	Sainik Samaj Party	317, Shiva Disposal Complex, Sanyukat Yatra Bus Adda Road, Chandrabhaga, Adarsh Gram, Rishikesh, Disstt. Dehradun-249201.Uttarakhand
1172.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
1173.	Samaikya Telugu Rajyam	D. No.1-39-B(Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.
1174.	Samaj Parivartan Party	Village – Salarpur, Post – Karaura,Tahsil – Machhlishahar, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
1175.	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).

1176.	Samajik Jantantrik Party	Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
1177.	Samajik Nyaya Party	M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
1178.	Samajtantric Party of India	40/1, B – Road, Bamanghachi, Howrah –711 006, (West Bengal).
1179.	Samajvadi Youva Dal	3/19-C/2, Sita Kunj, Behind Civil Court, Civil Lines, Agra, Uttar Pradesh.
1180.	Samajwadi Jan Parishad	Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601(Maharashtra).
1181.	Samajwadi Janata Dal Democratic	14, Dr. Bishambhar Das Marg, New Delhi – 110 001.
1182.	Samajwadi Janata Party (Karnataka)	Room No. 21, 2nd Floor, Hameed Shah Complex No. 2, Cubbonpet, Main Road, Behind Ulsoor Gate Police Station, Bangalore-560002, Karnataka.
1183.	Samajwadi Janata Party (Maharashtra)	Barrack No. 4, Behind Yashodhan Dinsha Wacha Road, Church Gate, Mumbai-400020 (Maharashtra).
1184.	Samajwadi Janata Party (Rashtriya)	Narendra Niketan, Behind Police Headquarters, Indraprastha Estate, New Delhi-110002.
1185.	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1186.	Samarth Kisan Party	Prabandhak – Mother Teresa Convent School, Village & Post – Manauri, Tehsil – Chayal, Janpad – Kaushambi, Uttar Pradesh.
1187.	Samata Party	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
1188.	Samata Samadhan Party	E-1/150, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
1189.	Samata Samaj Party	Opposite to Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.
1190.	Samata Sangharsh Party	618-F 2/2/1, Shankar Gali, Vishwas Nagar, Delhi-110032.
1191.	Sampurna Vikas Dal	88, South Avenue, New Delhi-11.
1192.	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment, Plot No. M63, Madhusudan Nagar, Bhubaneswar –751001, Orissa.
1193.	Samta Samjwadi Congress Party	C-4/350, Sarai Govardhan, Chetganj, Varanasi-221010, Uttar Pradesh.
1194.	Samuga Samatuva Padai	4/388, Ram Garden, Anna Salai, Palavakkam, Chennai-600041, TAMIL NADU.
1195.	Sanatan Samaj Party	Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).
1196.	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	Village – Taraon, Post, Thana & Tehsil – Koraon, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
1197.	Sanyukt Dastkar Party	P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
1198.	Sanyukt Samajwadi Dal	11, Zones Lines, Agra – 282004, Uttar Pradesh.
1199.	Sanyukta Samaj Party	Village and Post-Khari, District-Bijnaur, Uttar Pradesh.
1200.	Sarb Hind Shiromani Akali Dal	103, New Officers Colony, Patiala, Punjab.
1201.	Sardar Patel Congress Party	7/17, (2nd Floor), Kalkaji Extension, New Delhi – 110019.

1202.	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai – 400 066.
1203.	Sarva Janata Party	Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District – Shimoga - 577227 Karnataka.
1204.	Sarva Samaj Vikas Party	Bamba Road, Sailai, Post Office – Sailai, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
1205.	Sarva Seva Party	B-51, Pratap Vihar, Part-3, Nangloi, Delhi-110041.
1206.	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	C-44, Padmanabh Nagar, Bhopal- 462023 (Madhya Pradesh).
1207.	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow(Uttar Pradesh).
1208.	Sarvajan Kalyan Party	In front of K-73, Hanuman Nagar, Kankarbag, Patna-800020, Bihar.
1209.	Sarvajan Samaj Party (D)	Village & P.O. : Wadala Bangar, Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur-143511 Punjab.
1210.	Sarvajanik Kranti Party	Surya Lodge, Road ways, Azamgarh, Uttar Pradesh.
1211.	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt-Jamui (Bihar).
1212.	Sarvodaya Karnataka Paksha	"Aniketana" First Floor, SJM Samudaya Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-560 009, (Karnataka).
1213.	Sarvodaya Party	P3, University Campus, University of Rajasthan, Jaipur-302004 (Rajasthan).
1214.	Sarwajan Mahasabha	B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi – 221005, Uttar Pradesh.
1215.	Satya Mave Party	548, Ramdass Pate, Nagpur-10 (Maharashtra).
1216.	Satya Vijay Party	101-C, Press House, 22, Phiroz Gandhi Press Complex, Agra – Mumbai Road, Indore – 452 008, Madhya Pradesh.
1217.	Satyavadi Paksh	Room No. 4-5, Oriyan Complex, Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station Road, Aurangabad-431005 Maharashtra.
1218.	Satyayug Party	Flat No. 203, Bldg. No. 6-4-323/A, Vivek Vanshi Residency, Mekala Mandi Road, Bholakpur, Secunderabad-500080, (Andhra Pradesh).
1219.	Satyug Party	Village – Sukhatola, Dumri, Post – Kasya, Distt. – Kushinagar, Uttar Pradesh.
1220.	Savarn Samaj Party	East Of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).
1221.	Secular Alliance of India	Sai, Bhawan, Opposite-Swami Dharamdas Darbar, Swami Dharamdas Nagar, O.T. Section, Ulhasnagar-421003, Maharastra.
1222.	Secular Democratic Labour Party of India	6-2-44/3A, Jammibanda Street, Khammam-507001 Andhra Pradesh.
1223.	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
1224.	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).
1225.	Sehajdhari Sikh Party	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
1226.	Shakti Dal	A-4, Maharani Bagh, New Delhi-110065.

1227.	Shakti Sena (Bharat Desh)	Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh-492015.
1228.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
1229.	Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann)	Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab-140 406.
1230.	Shiromani Akali Dal (Republic)	9, Hakikat Nagar, Guru Tegh Bahadur Nagar, DELHI-110009.
1231.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).
1232.	Shivaji Congress Party	House No. 31, A/P Khakurdi, Tal. Malegaon, District Nashik, Maharashtra.
1233.	Shivrajya Party	6-A, Ground Floor, Sarvoday Trust Building, Gokhale Road (South), Dadar (West), Mumbai-400028, Maharashtra.
1234.	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshnini Mandiree, Patna-800001 (Bihar).
1235.	Shoshit Samaj Party	4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.
1236.	Shree Bharat Vikas Paksh	220, Shreeji Complex, Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad – 380 006 (Gujarat).
1237.	Shreshthatam Rashtra Party	Village – Jagsar, Post – Sarsava, Janpad – Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.
1238.	Shubha Karnataka	MIG-II, No. 129, Hudco Colony, Behind Bus Depot, Near Jagratha Anjaneya Temple, Gadag – 582 103, Karnataka.
1239.	Sikkim Gorkha Prajatantric Party	Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam, East Sikkim-737 134 (Sikkim).
1240.	Sikkim Himali Rajya Parishad Party	Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim.
1241.	Sikkim Janashakti Party	Ranipool Marchak, Chakung House, P.O. Ranipool, Gangtok (Sikkim).
1242.	Sikkim Jan-Ekta Party	Tinzir, Namchi, South Sikkim – 737 126
1243.	Sikkim National Liberation Front	31-A, National Highway, P.O. Gangtok (Sikkim).
1244.	Sikkim Sangram Parishad	Sangram Bhavan, Jewan Theeng Marg, Gangtok (Sikkim).
1245.	Sikshit Berozgar Sena	Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
1246.	Sinh Jan Sena Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).
1247.	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
1248.	Smast Bhartiya Party	W-6/5, DLF City Phase-III, Gurgaon – 122002, Haryana.
1249.	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt. Pin-689072 (Kerala).
1250.	Social Democratic Party of India	8/2, First Floor, Jangpura Extn., Hospital Road, Bhogal, New Delhi-110014.
1251.	Social Justice Party	No.73, Ellaiaman Colony, Teynampet, Chennai-600086 (Tamil Nadu).

1252.	Socialist Janata (Democratic)	6/924-B 1, Calicut House Construction Society Building, YMCA Cross Road, Calicut – 673001, Kerala.
1253.	Socialist Janata Party	XB-1, Sah Vikas Apartment, Patparganj, Delhi – 110 092
1254.	Socialist Party (India)	Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.
1255.	Socialist Party (Lohia)	Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
1256.	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum – 695001 (Kerala).
1257.	Socialist Unity Centre of India (Communist)	48-Lenin Sarani (First Floor), Kolkata – 700 013, West Bengal.
1258.	Socialistic Democratic Party	Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-190001, Jammu and Kashmir.
1259.	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Village: Fatehpur, Post: Katona, P.S. Phoolpur, Distt. Varanasi, Uttar Pradesh.
1260.	Sunder Samaj Party	Village + Post – Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. – Raigarh, Chhattisgarh – 496665.
1261.	Swabhimani Paksha	Jaisingpur, District Kolhapur, Maharashtra – 416 101.
1262.	Swachh Bharat Party	Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur Rajasthan.
1263.	Swaraj (J)	Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office – Mahavir Chhapra, Police Station – Belipar, Tehsil – Sadar, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1264.	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
1265.	Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh)	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.
1266.	Swarajya Party of India	B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.
1267.	Swarashtra Jan Party	Tarkapur, Phulwariya, P.O. Sadar, Distt. Mirzapur – 231001, Uttar Pradesh.
1268.	Swarn Mahasabha	Mo. Islamabad, P.O. Mohammadi, Distt. Lakhimpur Kheeri, Uttar Pradesh.
1269.	Swarna Yuga Party	No. 26, “ Amma” Ist Main Road, Dollars Colony, RMV 2nd Stage, Bangalore – 560 094, Karnataka.
1270.	Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party	Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar, Khalilabad, Uttar Pradesh.
1271.	Swatantra Bharat Paksha	'Rahi', Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.
1272.	Swatantra Rashtravadi Party	12-H, In front of Traffic Kotwali, Dariyaganj, New Delhi-110 002.
1273.	Swatantra Samaj Party	Village & Post – Lebhri, P.S. – Darauli, Block/Circle Mairva, Pin Code – 841 239, District – Siwan, Bihar.
1274.	Taayi Nadu Party	Taayi Nadu Party 44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001 Karnataka.
1275.	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).

1276.	Tamil Maanila Congress (Moopanar)	No. 2, 2nd Street, 2 nd Pudhunagar, Kanuvapet, Villianur, Pondicherry.
1277.	Tamil Maanila Kamraj Congress	C/o F.B. Benjamin George, Advocate, No.17, Dooming Street, Santhome, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
1278.	Tamil Maanila Quaide Milleth League	579, Anna Salai Teynampet, Chennai – 600 006, Tamil Nadu.
1279.	Tamil Nadu Deseeya Grameeya Thozhilalar Congress	5/58, Maniam Building, Theethipalayam Post, Coimbatore-641010 (Tamil Nadu).
1280.	Tamil Nadu Makkal Congress	310- V-Block Boopathy Nagar, Chennai-600024 (Tamil Nadu).
1281.	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
1282.	Tamil Nadu People's Party	16/2 K.P.Street Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
1283.	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
1284.	Tamilar Kazhagam	180, Longly Road, Shevapet, Salem-636002 (Tamil Nadu).
1285.	Tamilina Vidiyal Pulikal Iyakkam	Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.
1286.	Tamilnadu Jananayaka Congress	327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600 014, Tamil Nadu.
1287.	Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi	Vanavil Illam, No. 9, East 7 th Street, Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.
1288.	Tamizhaga Munnetra Munnani	No. 152 A, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017 (T. N.)
1289.	Tamizhaga Rajiv Congress	6-II, Main Road, Raja Annamalaipuram, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1290.	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
1291.	Tarai Kranti Dal	21/2, Indira Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
1292.	Telangana Congress Party	Flat No.4, Block-18, MIG Phase-II, Bagh Lingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1293.	Telangana Loksatta Party	Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secundrabad- 500015 Andhra Pradesh
1294.	Telangana Praja Party	'Anantha Nilayam', Door No. 14-9-519, Chudi Bazar Dargah, Hyderabad-500 012, Andhra Pradesh.
1295.	Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan)	H. No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002 Andhra Pradesh.
1296.	Telangana Sakalajanula Party	H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Distt. – 500 086 Andhra Pradesh
1297.	Thaayaga Makkal Katchi	7, Y.V.D. Complex, Chathiram Bus Stand, Tiruchirappalli-620002, Tamil Nadu.
1298.	Thalli Telangana Party	Plot No. 50, Road No. 5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033, Andhra Pradesh.
1299.	Thamilar Bhoomi	5, Dr. Sir C.V. Raman, 1st Street, Kumaran Nagar, Tiruchirappalli-620017, (Tamil Nadu).

1300.	Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam	23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District Theni, Tamil Nadu - 625601.
1301.	Tharasu Makkal Mandram	14-Sait Colony, First Street Egmore-600008 (Tamil Nadu).
1302.	The Consumer Party of India	Deshmukhwadi Complex, P.K. Road and Zaver Road Junction, Mulund (West), Mumbai-400080 (Maharashtra).
1303.	The Great India Revolutioners	4/55, Roop Nagar, Delhi-110007.
1304.	The Humanist Party of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).
1305.	The Religion of Man Revolving Political Party of India	Kabithirtha, Kabitanagar, P.O. Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).
1306.	Thesia Jananayaka Makkal Katchi	New No. 2, Old No. 33, 2nd Cross Street, West C.I.T. Nagar, Nandanam, Chennai-600 035 (Tamil Nadu).
1307.	Third View Party	203, Hill View, Plot No. 85, Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).
1308.	Thondar Congress	40-Venkatanarayana Road, Thiagarayanagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1309.	Thozhilalar Party	No. 28A, Metu Street, Nemilichery, Chrompet, Chennai-600044Tamil Nadu.
1310.	Tippu Sultan National Republic Party	No. 24, Ist Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026Karnataka.
1311.	Tola Party	H. No. – 56, Ward No. – 14,Andhua Patti, Hodel, (Palwal), Haryana.
1312.	Tribal People Party	170, Lingi Chatty Street, Chennai-600 001(Tamil Nadu).
1313.	Trilinga Praja Pragati Party	B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar Post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
1314.	Trilok Shakti Congress Bharat	49-D, Triveni Nagar, Naini, Udyog Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
1315.	Trinamool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).
1316.	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062Tamil Nadu.
1317.	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).
1318.	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.
1319.	United Communist Party of India	29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.
1320.	United Front (Party)	Abu Fakharuddin Plaza, Langar Toli Chauraha, Bari Path, Patna-800004, Bihar.
1321.	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
1322.	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).
1323.	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).
1324.	United Minorities Front Assam	Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).
1325.	United Naga Democratic Party, Nagaland	Ward No. 7, Near Agape School, Chumukedima-797103, Dimapur – 797 112 (Nagaland).

1326.	United National Loktantrik Party	D-786, Jaidpur Extn., Part – II, Badarpur, Delhi - 110044.
1327.	United People's Front	City Regency Building, R.K.B. Road, Dibrugarh, ASSAM-786001
1328.	United People's Democratic Party (Socialist)	Tangkhu Avenue, Imphal, Manipur-795001.
1329.	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
1330.	United Reservation Movement Council of Assam	Post Box No. 2, P.O. Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
1331.	United Secular Congress Party of India	2/104 B, Kurla Jai Hind Budhvikas, SRA Grihnirman Sanstha, Maryadit Nehru Nagar, Kurla (East), Mumbai-400024, Maharashtra.
1332.	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).
1333.	United Women Front	4, Krishna Menon Marg, New Delhi –110011.
1334.	Upekshit Samaj Party	F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.
1335.	Urimai Meetppu Kazhagam	New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045, Kanchi Street, Tamil Nadu.
1336.	Urs Samyuktha Paksha	No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.
1337.	Utkal Bharat	Plot No. 296/2624, At – Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. – G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha.
1338.	Utkal Samaj	Anandayan, Plot No.-567/2, Kanan Vihar, Phase – II, Bhubaneswar – 751 031 Orissa.
1339.	Uttar Pradesh Jan Manas Party	A-1445/6, Indira Nagar, Lucknow-226016 (Uttar Pradesh).
1340.	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).
1341.	Uttar Pradesh United Democratic Front	38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
1342.	Uttarakhand Kranti Dal	Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand).
1343.	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	85/12 – B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).
1344.	Uttarakhand Parivartan Party	Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain, Distt. – Chamoli, Uttarakhand.
1345.	Uttarakhand Pragatisheel Party	13, Subhash Road, Opposite back gate of St. Joseph School, Dehradun-248001, Uttarakhand.
1346.	Uttarakhand Raksha Morcha	H. No. 1, Village – Nouka (Dour Wala), Post - Mothronwala, Vikaskhand Raipur, District – Dehradun, Uttarakhand.
1347.	Uttarakhand Sanskriti Parishad	D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.
1348.	Uttarakhand Sena Party	Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.
1349.	Uttarakhand Janwadi Party	53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
1350.	Uzhaippalar Katchi	70-D, Palanisamy Street, Vaniyambadi Road, Tirupattur-635601, Vellore District, Tamil Nadu.
1351.	Uzhaippalar Podhu Nalakatchi	Tirupattur, Vellore District, Tamil Nadu-635601.

1352.	Vanchit Jamat Party	N – 106, HIG Flat, Sanjay Nagar, Sector – 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1353.	Vanchitsamaj Insaaf Party	39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.
1354.	Vidarbha Janata Congress	Antar Bharti Ashram, Dabha, Behind Vayusena Nagar, Amraoti Road, Nagpur, (Maharashtra).
1355.	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).
1356.	Vidharabha Rajya Mukti Morcha	A Type, Sukhkarta Apartment, Balraj Marg, Dhantali, Nagpur-440012 (Maharashtra).
1357.	Vidharbha Rajya Party	Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.
1358.	Vidhayak Dal	HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1359.	Viduthalai Chiruthaigal Katchi	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai-17, Tamil Nadu.
1360.	Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam	No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam, Cuddalore District, Tamil Nadu.
1361.	Vijaya Bharatha Makkal (People) Party	70, 2nd Floor, Braod Bazzar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU
1362.	Vijeta Party	501, Abhishek Plaza, Exhibition Road, Patna-800001 (Bihar).
1363.	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana – 133001.
1364.	Vikas Party	Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).
1365.	Vikaswadi Communism Party	Makhdumpur Road, Mawana Kalan 250401, Distt. Meerut (U.P.).
1366.	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road, Satelite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
1367.	Vishwa Vikas Sangh	F-53/F-1, Dilshad Colony, Delhi – 110 095.
1368.	Viswa Maya Political Party	6 D-6-18 (House No.), Near Markandeswara Swamy Temple, Southern Street, Eluru-534001, West Godavari District, Andhra Pradesh.
1369.	Vivasayi Anbhu Katchi	No. 14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
1370.	Voluntary Indian People Party Haryana	House No. 363, 1st Floor, Street No. 9, Jawahar Nagar, Hissar, Haryana.
1371.	Voters Party	A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi – 110068
1372.	War Veterans Party	A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.
1373.	Welfare Party of India	122/1, Zakir Nagar, Jamia Nagar, New Delhi-110025.
1374.	West Bengal Pragatishil Indira Congress	68 – B, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009, West Bengal.
1375.	West Bengal Socialist Party	42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014, (West Bengal).
1376.	Womanist Party of India	D 3/303, Pancharatna, Anand Nagar, Pandurang Wadi, Dombivli (East) – 421201 (Maharashtra).
1377.	Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party	D No7-1-500, NGO Colony, YSR Street, Siddavatam Road, Badvel-516227, YSR District, Andhra Pradesh.

1378.	Young India Tangress Party	Yelam Galli, Tugav(H), Taluk – Bhalki, Distt. – Bidar, Karnataka.
1379.	Youth and Students Party	R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600 107.
1380.	Youth Brigade	Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali, District Hooghly, West Bengal.
1381.	Youth Democratic Front	H.No.1-10-63/5, Plot No. 44, Chikoti Gardens, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016.
1382.	Youth For Equality	P-90A, IInd Floor, South Extension-II, New Delhi - 110034.
1383.	YSR Bahujana Party	28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.
1384.	Yuva Gantantra Party	Sardar Patel Nagar, Jamnipali-Korba, District Bilaspur, Chhattisgarh.
1385.	Yuva Jagriti Dal	3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19 Gandhinagar-382 019 Gujarat.
1386.	Yuva Jan Jagriti Party	Bahalolpur, Bulandshaher-202391, Uttar Pradesh.
1387.	Yuva Jankranti Party	Kasba – Kerakat, Mohalla – Shekhzada 2nd, Post – Kerakat, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
1388.	Yuva Kranti Dal	B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.- North-West, New Delhi-110 086.
1389.	Yuva Sarkar	161, Vanmali Park Society, Harikrishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road, Puna-Simada, Surat-394211 GUJARAT.
1390.	Yuva Telangana Party	6th Floor, Sai Pragathi Towers, Main Road, Himayathnagar, Hyderabad-500029 Andhra Pradesh.
1391.	Yuva Vikas Party	Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1392.	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	H. No. 8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-34, Andhra Pradesh.

TABLE-IV

(LIST OF FREE SYMBOLS)

1. Almirah
2. Air Conditioner
3. Auto-Rickshaw
4. Balloon
5. Basket containing Fruits
6. Bat
7. Batsman
8. Battery Torch
9. Belt
10. Black Board
11. Bottle
12. Bread
13. Brief Case
14. Broom
15. Brush
16. Bucket
17. Cake
18. Calculator
19. Camera

-
20. Candles
 21. Carrom Board
 22. Carpet
 23. Carrot
 24. Cauliflower
 25. Ceiling Fan
 26. Chess Board
 27. Coat
 28. Coconut
 29. Cot (In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
 30. Cup & Saucer
 31. Cutting Pliers
 32. Dao
 33. Diesel Pump
 34. Dish Antenna
 35. Dolli
 36. Electric Pole
 37. Envelop
 38. Flute
 39. Frock
 40. Frying Pan
 41. Funnel
 42. Gas Cylinder
 43. Gas Stove
 44. Glass Tumbler
 45. Grapes
 46. Harmonium
 47. Hat
 48. Helmet
 49. Hockey and Ball
 50. Ice Cream
 51. Iron
 52. Kettle
 53. Kite
 54. Lady Purse
 55. Letter Box
 56. Mixee
 57. Nail Cutter
 58. Neck Tie
 59. Pen Stand
 60. Pencil Sharpener
 61. Plate Stand
 62. Pot
 63. Pressure Cooker
 64. Razor
 65. Refrigerator
 66. Ring
 67. Saw (In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
 68. School Bag
 69. Scissors
 70. Sewing Machine
 71. Shuttle
 72. Slate
 73. Stethoscope
 74. Stool
 75. Table

76. Table Lamp
77. Telephone
78. Television
79. Tent
80. Tooth Brush
81. Trumpet
82. Violin
83. Walking Stick
84. Whistle
85. Window

By order,
VARINDER KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

ब अदालत अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रवि, निवासी वार्ड नं० 1, बदी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रवि, निवासी वार्ड नं० 1, बदी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 6-4-2012 को श्रीमती प्रीत कौर पुत्री श्री राम दयाल, निवासी वासुदेवपुरा, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बदी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रवि, निवासी वार्ड नं० 1, बदी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रीत कौर पुत्री श्री राम दयाल, निवासी वासुदेवपुरा, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) की शादी कार्यालय कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बदी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 1-3-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री सलिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म दास, निवासी ग्राम चिलड़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री सलिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म दास, निवासी ग्राम चिलड़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 30-11-2012 को श्रीमती इन्द्रा पुत्री श्री धनी राम, निवासी ग्राम चयाली, तहसील कसौली, जिला सोलन के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत, मनलोगकलां में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सलिन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्म दास, निवासी ग्राम चिलड़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती इन्द्रा पुत्री श्री धनी राम, निवासी ग्राम चयाली, तहसील कसौली, जिला सोलन की शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत, मनलोगकलां में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 12-3-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री लायक राम पुत्र श्री बचना राम, निवासी ग्राम गुल्लरवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री लायक राम पुत्र श्री बचना राम, निवासी ग्राम गुल्लरवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 17-2-2012 को श्रीमती नराती देवी पुत्री श्री सुन्दर, निवासी ग्राम ढाणा (मंगता प्लासी), तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री लायक राम पुत्र श्री बचना राम, निवासी ग्राम गुल्लरवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती नराती देवी पुत्री श्री सुन्दर, निवासी ग्राम ढाणा (मंगता प्लासी), तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि० प्र०) की शादी कार्यालय कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 12-3-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री पवन कुमार पुत्र श्री जसपाल, निवासी वार्ड नं० 2, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र श्री जसपाल, निवासी वार्ड नं० 2, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 4-7-2013 को श्रीमती सुनैना रानी पुत्री श्री गुलशन कुमार, निवासी ग्राम पुराना राजपुरा, जिला पटियाला (पंजाब) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री जसपाल, निवासी वार्ड नं० 2, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती सुनैना रानी पुत्री श्री गुलशन कुमार, निवासी ग्राम पुराना राजपुरा, जिला पटियाला (पंजाब) की शादी कार्यालय कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 4-3-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 4-3-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।